

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहरी विकास अभिकरण, रायसेन

रायसेन, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

संशोधन-पत्र

क्र. 754-टूडा-2014-15.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक-343-न.पा.-चुनाव-2014, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 का प्रकाशन "मध्यप्रदेश के राजपत्र असाधारण" दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 के पृष्ठ क्रमांक-956 (27) पर नगरपालिका/नगरपरिषद् बेगमगंज, जिला रायसेन, वार्ड क्रमांक-11 इंदिरा गांधी वार्ड का क्रमांक-11 के स्थान पर त्रुटिवश 01 प्रकाशित हो गया है. उक्त के स्थान पर संशोधित "11" पढ़ा जावे.

जे. के. जैन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत : गोपालपुरा

परिशिष्ट-5(अ)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व-संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गोपालपुरा (बड्या)	1	1 (गुमान-भरमा), 18 क (नारंगीबाई छाया)	अ.जा.	-
2		2	19 (ढाबल्या-लुकला), 45 (भीलू-भलजी) तक	अ.ज.जा.	20
3		3	46 (छतरसिंह-हादड्या), 64(ख) (चुनकीबाई मगन)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	66 (पुरी बाई-करकड्या), 90 (सुबाबाई-ईस्मल)	अनारक्षित	-
5		5	92(मुल्या-धनसिंह), 117 (डायड्या-कालू)	महिला अ.जा.	-
6		6	118 (जैमाल-भलजी), 134/ख (ख्यालीबाई रणछोड़)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	135(सुखसिंह-मुवास्या), 153(रेलकीबाई शिवाला)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	154(कन्या शिवला) से 173/1(सूमजी-मंगल्या)	महिला अनारक्षित	-
9		9	174, हरिसिंह-नहारसिंह, 519, सीताराम-कन्छा		
10		10	1, भायला-जमसिंह, 10/क अंजरीबाई कलसिंह		
11		11	11 लछा-गट्टू, 23 मास्टर-भीमसिंह		
12		12	24 लघुवीर सिंह-गट्टू, 32 सायला-इगा		
13		13	33 मांगू-गंदास, 43 नानदलीबाई-हिरला		
14		14	44 नामकीबाई-अमस्या, 51 सुबल्या-नहाला		
15		15	52 (गुमान-नहाला), 60 (लालसिंह-भंटा)		
16		16	61 (तूफानसिंह मुशां), 70/क (भालसिंह-निमाडिया)		
17		17	71 इबला-दगडिया, 77 बड्या-नहारसिंह		
18		18	78 रामस्या-नहारसिंह, 89 सर्जन-हेदरया		
19		19	90 तिमा-हैदरया, 102 लछा-बढडा		
20		20	103 खुमानसिंह-गनसिंह, 115 सीताराम लोडिया		

ग्राम पंचायत : हिरापुर

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	हिरापुर	1	1 हीरालाल रामलाल, 13 धलसिंह कालू	अ.जा.	1
2		2	14 नानला कालू, 25 अजय मुलसिंह	अ.ज.जा.	15
3		3	26 नत्थु नानसिंह, 36 इसमल लोनिया	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	38 गप्फार जानमोहम्मद, 51 रूमाल धनकी	अनारक्षित	-
5		5	52 खुमान धनजी, 60 तडीया नहाला	महिला अ.जा.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6		6	61 गजरी ज्ञानसिंह, 77 वेलजी सुमला	महिला अ.ज.जा.	8
7		7	78 सुखलाल डुडला, 86 ख हिरालाल चमार	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	87 झलकीबाई गुमान, 92 नुरू शेखर	महिला अनारक्षित	-
9		9	93 नूरी चमार, 108 रामीया झेतरिया		
10		10	109 ज्ञानसिंह बालिया, 128/1 दयाराम सुमेरसिंह		
11		11	131 मुन्ना अमरसिंग, 142 सींगदार भुरला		
12		12	144 सुनली सोमारिया, 155, केकु सद्दु.		
13		13	157 सुरसिंग फुलसिंग, 170 लालसिंग नाथु		
14		14	171, गीता नाथु, 184, मलकी बाई रामसिंग		
15		15	186, पुनीया शंकर, 196, नहजू बी किशन		
16		16	197, मेथली बाई थावसिंह, 113/1 साजिद खान		

ग्राम पंचायत : गोंटिया

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गोंटिया	1	1 (सन्या थायला) 12/1 (प्रकाश वेस्ता)	अ.जा.	01
2		2	13 (शंकर हरसिंग) 23 (जेबला हन्टीया)	अ.ज.जा.	18
3		3	24 (छमबु वजरिया) 31 (तुफान्या राधु)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	32 (फैराग्या गला) 41 (रन्नारी सुरजिया)	अनारक्षित	01
5		5	42 (सेकड़ी पुटिया) 50 (महारिया रूमाल)	महिला अ.जा.	-
6		6	52 (कालू गोविन्द) 64 (कुशमीबाई धुलसिंग)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	65 (भाखला जिरभान) 71/1 (ज्योतीबाला संतोष)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	72 (ज्ञानसिंग फुलसिंग) 83 (माया रामलाल)	महिला अनारक्षित	01
9		9	84 (नका रामलाल) 95 (दया जोखला)		
10		10	97 (रेहदीबाई तेलसिंग) 107 (राहलीबाई मंशाराम)		
11		11	109 (रानु नानला) 117 (सन्तरी टुमन्या)		
12		12	118 (रूमाल रूखड़ीया) 128 (धवली छगल्या)		
13		13	129 (भुना भीमला) 135 (केन्डा गारदिया)		
14		14	137 (भलामटी धुबड़ा) 147 (जाहरिया राल्या)		
15		15	149 (पिंजारी छगन) 157 (सोहंगु हामजी)		
16		16	158 (गाठिया हामजी) 165 (रेसली सेकड़ा)		
17		17	167 (गंठेवटी खजरा) 177 (बिशन्या टेमरिया)		
18		18	178 (जगन नहारसिंग) 192 (भावसिंग छगन)		
19		19	193 (अनारसिंग पाच्या) 204 (सुमज्या गवारिया)		
20		20	205 (रूमजा गावरिया) 226 (भूरला भीका)		

ग्राम पंचायत : धुलकोट

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	धुलकोट	1	1 (मंशाराम छितु) 91 (मोहन बाला)	अ.जा.	-
2		2	92 (निलाबाई हिरालाल) 170 क (गुटीबाई गणस्या)	अ.ज.जा.	18
3		3	172 (जरदार खां खजुखां) 233 (ताहेरअली अकबरअली)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4		4	234 (घनश्याम बालुप्रसाद) 312 (कुंजीलाल राजाराम)	अनारक्षित	02
5		5	316 (प्रभाबाई रामकिशन) 382 (नेन्द्रसिंह कल्याणसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	383(सरदारसिंह बलरामसिंह) 460 (सायबा मिचरा)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	460/ख (जागला डेडिया) 498 एवं 1 (कैलाश)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
			21 (दमड़िया भिमसिंग) डेरका डोगरसिंह		
8		8	22 (प्रताप शाहदरिया) 114 (सुबीबाई खासड़िया)	महिला अनारक्षित	01
9		9	116 (नंदाबाई पांडिया) 182 (बिलडी सिंगा)		
10		10	184 (रेमसिंह अमरसिंह) 265 (ज्ञानसिंह रेमसिंह)		
11		11	265 ख (कमलीबाई हेमसा) 371 एवं 01 (हुसिया तेलस्या-81 ख सियानी मदन, नानु हरसिंग)		
12		12	83 (हिरालाल रायसिंग) 158 (नाहरू धना)		
13		13	159 (मोमदिया जामसिंह) 230 (गुलाबसिंह धर्मा)		
14		14	231 (कमलीबाई अमरसिंह) 290 (टकल्या शंकर)		
15		15	291 (मुन्नाबाई पाचीलाल) 354 (वनाबाई नेवजी)		
16		16	355 (भुलिया कोडिया) 413 (झेतरा गलु)		
17		17	414 (मेंहदीबाई पारसिंग) 492 (छितु धुधरा)		
18		18	01 (सुन्दरसिंग गोविंदा) 78 (किलरसिंग नेवजी)		
19		19	79 (चकना नेवजी) 149 (वेरसिंह लिमड़िया)		
20		20	150 (तेरसिंग लिमड़िया) 241 (गाठिया तिरा)		

ग्राम पंचायत : ढाबला

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ढाबला	1	2 (सोल वदा) 17 (सुमली छोट्या)	अ.जा.	01
2		2	18 (भाटु दगड़्या) 33 (भंगी रूपाजी)	अ.ज.जा.	17
3		3	34 (सिलदार रेबान) 52 (नरी रूपसिंह)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	53 (रूकड़ी रतन) 73 (लटु जाधया)	अनारक्षित	02
5		5	74 (सुकी भूरू) 99 (लछया नरसिंग)	महिला अ.जा.	01
6		6	100 (डेमा रजान) 118 (अनाजिया अनारसिंग)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	119 (गंगाराम नहारया) 132 (बोहरिया हाजी)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	133 (रूली खजला) 144 (लछया राधु)	महिला अनारक्षित	01
9		9	145 (अनसिंह दगड़्या) 160 (बनी नानाजी)		
10		10	163 (दोहरी बुदया) 181 (सड़ीबाई छगन)		
11		11	183 (दूरसिंह छगन) 199 (सीवला फुलजा)		
12		12	200 (ऐमसिंह फुलषा) 219 (औंकार बजारिया)		
13		13	220 (बजरिय गुमान) 238 (चमकाबाई तिख्या)		
14		14	239 (मोतीराम धनसिंग) 252 (मालसिंह नहारसिंह)		
15		15	254 (खजान भाचरया) 266 (बदा जंगी)		
16		16	269 (कुवरसिंह नानसिंह) 284 (भोलाराम नूरा)		
17		17	285 (जेराम नूरा) 304 (अनसिंह भलजी)		
18		18	305 (काशीराम भलजी) 322 (सुमानसिंह नटा)		
19		19	325 (रूपसिंह गेन्द्या) 348/ख (बनीबाई केसराम)		
20		20	349 (नवलसिंह राधाकिशन) 374 (रूखड़िया खुमसिंग)		

ग्राम पंचायत : अंजनगांव

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अंजनगांव	1	02 (प्रताप गणपत) 11 (बाबुलाल लखा)	अ.जा.	01
2		2	12 (रूखमाबाई तेजू) 21/1 (थावरिया मगन)	अ.ज.जा.	13
3		3	22 (दमड़िया गादिया) 30 (नकटीबाई दगड़ीय)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	31 (सरजन दगड़िया) 37 क (सुकलीबाई लछया)	अनारक्षित	01
5		5	38 (गुलाब धना) 50 (दितलीबाई रायसिंह)	महिला अ.जा.	01
6		6	51 (साबला रायसिंग) 63 (दूरसिंग सोन्या)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	65 (सायरीबाई गणपत) 74 (आसीराम रूलजी)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	75 (केशा रलजी) 83 (शोभाराम सकरिया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	84 (बोदरीया सकरीया) 91/क (मीचु भूवान)		
10		10	92 (जंगलीबाई कुतरीया) 98 (पातुबाई रायसिंग)		
11		11	99 (जामसिंग भोल्या) 106 (धुदीबाई नानसिंग)		
12	उमरिया	12	01 (रायसिंह लालसिंह) 08 (हरसिंह हारू)		
13		13	09 (भतया मंतीया) 16/क (रणजीत सुरज्या)		
14		14	17 (रायसिंह इडला) 23 (सखाराम रीछिया)		
15		15	25 (भूरला दित्या) 35 (लालू रेवसिंह)		

ग्राम पंचायत : देवनल्या

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	देवनल्या	1	02 (रामलीबाई गटा) से 17 (तुलसीराम आठिया) तक	अ.जा.	01
2		2	18 (सुभला भटा) से 39 (अमना बिशन) तक	अ.ज.जा.	19
3		3	40 (पुनमचन्द गोकुल) से 72 (सुन्दरबाई सोम्मरिया) तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	73 (छगन मांग्या) से 98 (खुमा खजान तक)	अनारक्षित	-
5		5	99 (सुखलाल सरादिया) से 113 (दगड़ीया नाना) तक	महिला अ.जा.	-
6		6	114 (इरादिया अमरसिंह) से 135 (भुक्कन भलसिंह) तक	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	136 (टुटरिया गणस्या) 154 (पिलकड़ीया जामसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	155 (नानसिंग किशन) 176 ((पुटीबाई झंझाड़)	महिला अनारक्षित	-
9		9	178 (गदल्या भाया) 195 (कुरमसिंह भावरिया)		
10		10	198 (जहाग्या रूपसिंह) 219 (गीनाबाई माध्या)		
11		11	222 (दितली वेरसिंह) 239 (खला कोटवाल)		
12		12	240 (धुधरा भीका) 269/ग (रजान गन्या)		
13		13	1 (मंद फुलसिंग) 24 (हेदरिया बहादर)		
14		14	25 (गादरीया औंकार) 9/ग (रायसिंग सिलदार)		
15		15	9/च (गेन्दिया मगन्या) 27 (रायसिंग फुलसिंग)		
16		16	28 (दावलसिंग हटीया) 17 (लच्छा बोगड़ीया)		
17		17	18 (झुनाबाई गिलदार) 31 (किरता वजीर)		
18		18	35 (वेहलिया सातिया) 7 (लक्ष्मण गणस्या)		
19		19	8/क (बाटू गणस्या) 22 (रेसला काल्या)		
20		20	24 (भोल्या वेस्ता) 43 (छतरीया आनसिंग)		

ग्राम पंचायत : देजला

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	देजला	1	01 (माकली बाई दरज्या) 11 (सुकमा कमलसिंग)	अ.जा.	01
2		2	12 (नानका वालजी) 22 (दशरीबाई कोटवाल)	अ.ज.जा.	16
3		3	24 (नुरिया नानसिंग) 32 (नामी गंगाराम)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	34 (पातली तेरसिंग) 40 (सुरबाई जागीराम)	अनारक्षित	-
5		5	41 (गुरलाल कागल्या) 56 (झलूबाई सकाराम)	महिला अ.जा.	01
6		6	58 (रेशमबाई मकड़िया) 62 (संगीता देवसिंग)	महिला अ.ज.जा.	08
7		7	63 (नाश्या मोटला) 69 (टुकड़ीबाई रेलजा)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	70 (रजान गुलाब) 76 (वरलीबाई गरासिया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	77 (धुलसिंग बाथु) 85 (मीराबाई प्यारसिंह)		
10		10	86 (महग्या नाना) 94 (जमना कैलाश)		
11		11	95 (बाली मुवाशिया) 102 (देवली रायमल)		
12		12	103 (जिरभान गमरसिंग) 110(कमली नानसिंह)		
13		13	112(तेरसिंग कुल्यां) 120 (मंजु प्रकाश)		
14		14	121 (भायला पहाड़ीया) 130 गुड़ी निम्बाराम)		
15		15	132 (बाथल्या नाना) 140 (ऊमा कन्या)		
16		16	141 (गोट्टु बहादर) 145 (रविता फिरला)		
17		17	146 (वेलसिंह भलजी) 4 (सुरमी सुखलाल)		

ग्राम पंचायत : गलतार

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गलतार	1	01 (गुलसिंग रेजला) 11 (कैलाश शोभाराम)	अ.जा.	-
2		2	12 क (रामसिंग रूपजी) 24 (गुमान रूपसिंग)	अ.ज.जा.	11
3		3	25 (सुभान खुश्याल) 41ग (दिलीप गेंदालाल)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	42 (रूपसिंह गुलाब) 56 (राजू बोंदरसिंह)	अनारक्षित	-
5		5	59 (केरिया मालसिंग) 67 अमरसिंग रामसिंग)	महिला अ.जा.	-
6		6	68 (पातल्या जान्या) 76ख (दिनेश इडला)	महिला अ.ज.जा.	06
7		7	77 क (दगड़या बुधा) 88 (गोपाल सामवा)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	89 क (मुन्ना गमरिया) 95 घ (छगन दल्या)	महिला अनारक्षित	-
9		9	100 (मंगलीबाई गंगल्या 113 (फुलसिंग नानसिंग)		
10		10	114 (सन्तु दलसिंग) 124 (नहारसिंग गोरेलाल)		
11		11	125 (रड़त्या दलसिंह) 393 (घमली मालु)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वाडों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बोरखेड़ा	1	01 (कुन्दलीबाई देवेन्द्रसिंह) 13(मीराबाई भवानसिंह)	अ.जा.	-
2		2	14 (झबरसिंह भगवानसिंह) 23 ब (राधाबाई नाथु)	अ.ज.जा.	13
3		3	24 (डनसीबाई नाथु) 35 (रामलीबाई केरीया)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	36 (मैथली रतन) 48 (प्यारीबाई फूलसिंह)	अनारक्षित	-
5		5	49 (सुकलाल फूलसिंह) 62 (सुमलीबाई भोगड़ा)	महिला अ.जा.	-
6		6	63 (काना भावला) 72 (भारतसिंह खेलसिंह)	महिला अ.ज.जा.	7
7		7	73 (रूखड़िया सेकड़िया) 83 (गुलाब केरीया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	84 (रानूबाई महेन्द्र) 92 (ध्यानसिंह कनसिंह)	महिला अनारक्षित	-
9		9	93 (महिकाल मुनस्या) 101 (रामलाल बगलिया)		
10		10	102 (बंसीह बागलिया) 110 (रायसिंह अनसिंह)		
11		11	111 (बोंदरी तेरसिंह) 124 (बाल्या किशन)		
12		12	125 (रायसिंह प्रेमसिंह) 133 (नाकला केरीया)		
13		13	134 (नबली केरीया) 144 (गुलसिंह पहाड़सिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वाडों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	करही	1	01 (मंशाराम भूरला) 10 (खजानसिंह टुटला)	अ.जा.	-
2		2	13 (मंगलसिंह शंकर) 23 (गोटू शंकर)	अ.ज.जा.	20
3		3	25 (फाटिया दित्या) 37 (साहदर पातल्या)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	38 (पातल्या दित्या) 49 (वालीबाई नाहरीया)	अनारक्षित	-
5		5	51 (नकला नहारसिंग) 60(वेस्तीबाई गल्या)	महिला अ.जा.	-
6		6	61 (गिल्या गंजा) 73 (कदम रेमा)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	74 (वेरसिंह रेमा) 85 (कस्तूरीबाई वेरसिंह)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	86 (सूरज्या बटिया) 97 (भला प्रेमसिंह)	महिला अनारक्षित	-
9		9	98 (नाथु प्रेमसिंह) 110 (सोमला कालू)		
10		10	111 (भलका गुलाल) 121 (काहरीबाई छतरसिंह)		
11		11	122 (जाहदीबाई मान्या) 849 (रेमसिंह वेरसिंह)		
12	नंद्री	12	1/ख (नानसिंग इस्मल) 15 (घिस्या गना)		
13		13	16 (हाबला भदा) 41 (नूरलीबाई सिगदार)		
14	न्यामतपुरा	14	4 (जामसिंग चैन्या) 11 (छतरसिंग गलु)		
15	बाणगंगा	15	01/क (रेवलीबाई नानला) 12 (रमेश नाना)		
16		16	13 (घिसिया धुबी) 17 (रेयली सरदार)		
17		17	24 (अन्टा सना) 31 (गुलाब वागरीया)		
18		18	32 (गन्दीया बछ्या) 39 (गेंदिया गुलसिंग)		
19		19	40 (छेन्डा जंगलीया) 46 (ढेबा जंगल्या)		
20		20	47 (गोपाल जंगल्या) 53(कालिया इटठल)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मोगरगांव	1	01 (कुसमाबाई बनस्या) 11 (गमतिबाई सुकलाल)	अ.जा.	01
2		2	12 (भागड़ीबाई रामसिंह) 24 (वागरीया दला)	अ.ज.जा.	14
3		3	25 (रेसमीबाई रूपसिंह) 34 (बंजारीबाई झमराला)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	35 (छतरसिंह रूलजी) 54 (बसंताबाई लक्ष्मण)	अनारक्षित	05
5		5	56 (आशाराम नथु) 62 (नानीबाई फत्तू)	महिला अ.जा.	-
6		6	63 (विठ्ठल घीसीलाल) 70 (बंकट नथु)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	70/1 (टंट्या बंकट) 81 (नन्दु जयराम)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	82 (जयराम मानसिंह) 97 (सेठानीबाई मंगलसिंह)	महिला अनारक्षित	03
9		9	98 (हरिश उमला) 107 (नवसीबाई कन्हैया)		
10		10	108 (शंकरसिंह कवरसिंह) 119 (गंगाराम भोलसिंह)		
11		11	120 (श्रीराम भोलसिंह) 133 (भागलीबाई धीरा)		
12		12	134 (कलाबाई चतरू) 148 (रामकली प्रकाश)		
13		13	149 (बखतावर राजाराम) 164 (रामेश्वर गणपत)		
14		14	165 (छीतरीया सीकदन) 183/1 (साहबाई शोभाराम)		
15		15	184 (रूलीबाई बीलदार) 192 (सोयतीबाई छतरसिंह)		
16		16	193 (भूज्या हरसिंह) 203/क (दिनेश जुवानसिंह)		
17		17	204 (नन्दू झेतारा) 213 (चमार अमरसिंह)		
18		18	214 (नानी सीताराम) 220 (टेमा फूलसिंह)		
19		19	221 (आलसिंह फूलसिंह) 232/क (केसरी रमेश)		
20		20	233 (दला गणस्या) 363/ख (लक्ष्मीबाई जगराम)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गढ़ी	1	01 (गुणीबाई बिलोरसिंह) 12ख (सुकमाबाई उदयसिंह)	अ.जा.	01
2		2	13 (काशीराम नेवजी) 25 (आदली काश्या)	अ.ज.जा.	18
3		3	25/1 (प्यारसिंह आपसिंह) 37/3 (अमरसिंह मांगीलाल)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	38 (सिलदार भल्या) 45 क(अर्चनाबाई नानकराम)	अनारक्षित	01
5		5	46 (एड् भिल्या) 60 (तेजु सुलतान)	महिला अ.जा.	-
6		6	61 (कैलाश सीताराम) 79 ख (भूरा अनसिंह)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	84 (सुमलीबाई फतेसिंह) 95 (मांगीलाल गंगाराम)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	97 (मधुराबाई भील्या) 114 (जगन लाछिया)	महिला अनारक्षित	01
9		9	116 (गुलामअली मुंशी) 128 (लालसिंह बहादर)		
10		10	130 (बहादर नहाला) 140 (काना कालिया)		
11		11	142 (सोमारिया पिदिया) 161/1 (भगड़ा अमरसिंह)		
12		12	162 (लूदरिया अनसिंह) 175 (भावसिंह बुदिया)		
13	(सोमदिया)	13	1 (ठगली परसराम) 14 (गंगाराम नराज्या)		
14		14	15 (तेरसिंह नराज्या) 27/1 (कुवरसिंह कुटवाल)		
15		15	31 (टेपलीबाई सेकड़ा) 42 सीदल्या भूरा)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16		16	43 (बाकली बाई हिमालिया) 56/1 (रेलवी हजारी)		
17		17	57 (शंकर नाया) 70 (कालू रावजी)		
18		18	71 (नथली फुलसिंह) 84 (जीरू नहारसिंह)		
19		19	86 (रणछोड़ नहारसिंह) 98 (सुखलाल गुलाब)		
20		20	99 (जलारीया गुलाब) 109 (गोरेलाल तेरसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गुलझिरा	1	01 (सवादीबाई रूपसिंह) 6 ग (सिगदार चमार)	अ.जा.	-
2		2	8 (पाच्या आपसिंह) 12 (चुमरीबाई रायसिंग)	अ.ज.जा.	10
3		3	13 (वेरला भंगी) 16क (राकेश मुसा)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	17 (सुकलीबाई कन्या) 22क (अमरसिंग भावसिंग)	अनारक्षित	-
5		5	23 (रूपचंद गंधाम) 28 क (वांगरीया कुतरीया)	महिला अ.जा.	-
6	(खैरकुण्डी)	6	29 (छोटिया फुलसिंग) 34क (कमलेश अमरसिंग)	महिला अ.ज.जा.	05
7		7	35 (ज्वानसिंह हरपाल) 38क (बदश्या नान्या)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	39 (सिलदार जीरबान) 40क (रामलाल शोभाराम)	महिला अनारक्षित	-
9		9	41 (बहादुर नहारसिंह) 47क (गग्यादास सुकलाल)		
10		10	49 (झेतरी केकड़िया) 229 क (छानकीबाई परसराम)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सेजला	1	01/2 (दवलसिंह मुनस्या) 17 (दवल नानका)	अ.जा.	-
2		2	18 (मांगीलाल रामचरण) 32 (हिरालाल भूरू)	अ.ज.जा.	12
3		3	33 (डूडीबाई झारसिंह) 47 (शोभाराम रूगनाथ)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	49 (कैलाश रतन) 59 (नीला गरीबदास)	अनारक्षित	01
5		5	60 (छितरिया भील्या) 71/1 (पंडु दवलसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	72 (सरदार नवलसिंह) 84 क (सुरजभानू दशरथ)	महिला अ.ज.जा.	06
7		7	85 (मदन नवलसिंह) 99 (ग्यानसिंह नानलिया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	100 (सुन्दर सीताराम) 115 (चमार मोत्या)	महिला अनारक्षित	01
9		9	116 (जामसिंह गुमान) 132 (गुलाब गेंदिया)		
10		10	133 (रामलाल गेन्दीलाल) 150 (दैसिंह धुन्धरा)		
11		11	151 (आबला धुन्धरा) 166 (जवानसिंह रूगनाथ)		
12		12	166/1 (उमन धुमसिंह) 178 (भाग्या थावरया)		
13		13	179 (अनारसिंह मुलजी) 182 (सुरजबाई दवल्या)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	राजपुरा	1	1(हरलाल सदिया) 14क (कैलाश शोभाराम)	अ.जा.	-
2		2	15 (रमेश दलपत) 27क (सोरठ जवाहर)	अ.ज.जा.	7
3		3	29 (जमना चन्दु) 41 (भीमसिंग भवरसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	43 (दगडु बाउसा) 58 (धर्मा मंगलसिंह)	अनारक्षित	3
5		5	60 (रामा टिरया) 82 (मैना रणजीतसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	83 (सेठाणी चैनसिंह) 99 (रणझोड़ फकीरा)	महिला अ.ज.जा.	4
7		7	100 (पदम फकीरा) 123क (मुन्या मोटला)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	128 (खरस्या गुलाबसिंह) 142क (छगन गुलाबसिंह)	महिला अनारक्षित	1
9		9	143 (भौगड़ा खुमसिंह) 162क (स्याणी विजय)		
10		10	165 (रिछु रायसिंह) 176 (नानली छीतु)		
11	(करयापुरा)	11	1 (बाला नन्दीया) 11 ख (गुलाबसिंह औंकारसिंह)		
12		12	12 (आशाराम बालाराम) 24 (बाबुलाल हिरया)		
13		13	25 (कमली धन्नालाल) 112 (गमरसिंह नवलसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मोहना	1	1 (प्रवीण कमलसिंह) 12 (सुखलाल बालु)	अ.जा.	2
2		2	15 (सन्तोष गंगाराम) 26 क (बाबुलाल मांगीलाल)	अ.ज.जा.	16
3		3	28 (डोंगरसिंह कुतरीया) 41 (सुखदेव औंकार)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	43 (बाबु मांगीलाल) 53 (कुंवर बाई नथु)	अनारक्षित	2
5		5	54 (नानीबाई राल्या) 63 (मनोहर राजाराम)	महिला अ.जा.	1
6		6	64 (बोंदरसिंग दरियाव) 82 (छोगालाल मंगा)	महिला अ.ज.जा.	8
7		7	86 (नानला सोमला) 94 (चुन्नीबाई रायला)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	95 (तुकाराम शोभाराम) 109 (काशीराम मंगा)	महिला अनारक्षित	1
9		9	110 (सुमनबाई बाबुलाल) 121 (शेरसिंग रेसला)		
10		10	123 (शंकरलाल मोतिलाल) 137 (तुमेरसिंग पुन्या)		
11		11	138 (सिताराम माधव) 149 गुलाबसिंह धनसिंग)		
12		12	150 (शेरसिंग सरवण) 167 (आशाराम मोत्या)		
13		13	169 (सकरिया शोभाराम) 232 (मोहनसिंग जालम)		
14	बलवाड़ी	14	1 (जामसिंग काना) 5/1 (सिताराम केशिया)		
15		15	6 (मंशाराम बाबुलाल) 11 (ज्ञानसिंह सुन्दरिया)		
16		16	12 (रूपसिंग सुन्दरीया) 23 (तेलसिंग काना)		
17		17	24 (धनसिंग हादु) 33/1 (भुरसिंग गिलदार)		
18		18	34 (अनिल हुकुमचन्द) 44 (आशाराम हादु)		
19		19	47 (कारीबाई छेदा) 51/1 (प्रतापसिंग फूलसिंग)		
20		20	52 (ककमाबाई साईबा) 105 (रूसा जायमल)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	कुम्हारबैड़ी	14	1 (राजु ऊंकार) 14 (केशरी बाई शेरसिंग)	अ.जा.	1
2		2	15 (गुमान्या केरीया) 30 (दितली हटिया)	अ.ज.जा.	19
3		3	31 (छतरसिंह हटिया) 48/1 (गुलाबसिंग गलसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	49 (मिश्रीबाई तुलसीराम) 65 (भीनाबाई नानसिंह)	अनारक्षित	-
5		5	67 (सुबा दमड़िया) 81/1 (राहली घुरक्या)	महिला अ.जा.	-
6		6	82 (टकल्या जिरबान) 95 (साबली रीछा)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	97 (ढेड़ी लाल्या) 111 (केकड़ी लक्ष्मण)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	113 (रेलकी गणस्या) 133 (नाहला गुलाब)	महिला अनारक्षित	-
9		9	134 (सुमल्या सोमला) 145/1 (डेबा रीछा)		
10		10	146 (गोडिया बाथू) 164 (कुवरसिंह सुभान)		
11		11	165 (चेना गरास्या) 181/1 (राहदलबाई रन्दी)		
12	मालखेड़ा	12	02 (ईसराम दगड़या) 15 (डोगरसिंह भिल्या)		
13		13	16 (सुरसिंग नानसिंग) 26 (काली भावल्या)		
14		14	16क (सीताराम सकन) 40 (वालसिंह मांगु)		
15		15	40क (दयाराम वालसिंह) 50 (जानु अनारया)		
16		16	51 (वतनसिंह खुमसिंह) 61क (मकराम बनसिंह)		
17		17	62 (वतीय जवानसिंह) 71 (फतनसिंह खुमसिंह)		
18		18	72 (सायरी नानस्या) 83 (दसल्या समला)		
19		19	84 (भियानसिंह मोहन्या) 95 (रजान जंगल्या)		
20		20	95/1 (ईकराम नानसिंह) 97च (भायटा राधु)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बाड़ीखुर्द	1	1 (मिनासी महेन्द्र) 26(सुरसिंह डोंगरसिंह)	अ.जा.	-
2		2	27 (भूरसिंह डोंगरसिंह) 46(सरस्वतीबाई सड़या)	अ.ज.जा.	14
3		3	47(पूनम मोहन) 57 (रमेश परसराम)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	59 (नारायण राजाराम) 74 (हीरालाल चुन्नीलाल)	अनारक्षित	03
5		5	76(छगन बारकू) 89 (भीका श्रवण)	महिला अ.जा.	-
6		6	90 (मोहन गुलाबसिंह) 111क (कैलाश गणपती)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	112 (मंगत गोपाल) 129/1 (रामकरण परसराम)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	130 (प्रतापसिंह फल्लु) 147/1 (छज्जु मिट्टू)	महिला अनारक्षित	02
9		9	148 (शोभाराम मिट्टू) 167 (गणेश रामलाल)		
10		10	168(भागीरथ सीताराम) 184 (परसराम भंगाजी)		
11		11	185(दुरप्ता धनसिंह) 199ए(शेरसिंह राधेश्याम चौहान)		
12	(बलखड़बू)	12	1(गेंदालाल नत्थु) 11 (राजाराम मंगत)		
13		13	12 (पंढरी मंगत) 28 (औंकार उमराव)		
14		14	30(शिवकुमार प्रतापसिंह) 46(नंदराम रतन)		
15		15	47 (मांगीलाल रतन) 66 (जमना घीसीया)		
16		16	67 (अमना रूपसिंह) 85 (रूखड़ीया भावला)		
17		17	86 (गोरेलाल बेचला) 102 (भुवानसिंह नवलसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वाडों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पलासकुट	12	1(महेश कुमार सखाराम) 11/क (नवलसिंह कुमार)	अ.जा.	01
2		2	12 (नानला रेशला) 20 (गीनस्या केन्टीया)	अ.ज.जा.	18
3		3	21 (जगदीश नानस्या) 30 (इबराम रेसिया)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	31 (पूटिया रामा) 43/ग (सेमा भाया)	अनारक्षित	-
5		5	44 (भाया बठड़ा 53 (टुणीबाई तेरसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	54 (कीटीया जीरबान) 71 (छोटुबाई कालु)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	72 (भलीबाई मना) 94 (होलकरया मधरिया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	95 (दुडक्या नाथु) 99 (रतन भुवान)	महिला अनारक्षित	-
9		9	101 (पानुबाई पैराग्या) 117 (लफा डेगरिया)		
10		10	118 (गुन्जी लिमजी) 128(अलादीबाई मोरसिंह)		
11		11	129 (व्यापारीबाई वेरसिंह) 140 (वेचाण डोग्या)		
12		12	141 (डुस्या डोग्या) 154 (सारूबाई होलकरया)		
13		13	155 (बंजारीबाई जाड़िया) 165(लकड़िया पारसिंह)		
14		14	166 (हजारया नाना) 172 (छगन गन्दास)		
15		15	173(रामज्या शंकर) 188 (कालुराम गुलसिंह)		
16		16	189(हजा दाऊद) 200 (नाना रन्छोड़)		
17		17	220 (रेमसया रेंजला) 230 (रामा नारू)		
18		18	231 (रेवसिंह नारसिंह) 246 (नानला रामसिंह)		
19		19	248 (जयराम सीमा) 268 (भागीराम ज्ञानसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वाडों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मांडवखेड़ा	1	1(रंजना अनिल) 15 लाड़कीबाई ध्यानसिंह	अ.जा.	-
2		2	16 (सुखलाल रामसिंह) 36 (रामलाल बिलमन)	अ.ज.जा.	18
3		3	37 (सुमेर सडु) 54 (औंकार शंकर)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	55 (अमरसिंह रूखड़िया) नुरली बाई रतन	अनारक्षित	02
5		5	76 (मेहकाल लट्टु) 97 (बुदेसिंह लट्टु)	महिला अ.जा.	-
6		6	98(दशरथ धनसिंह) 114ख (मैथली तेरसिंह)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	115(भूरली फत्या) 133 (बुदी नानसिंह)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	134 (रामरतन) 148 (मकड़ी रामसिंह)	महिला अनारक्षित	01
9		9	149 (खुमसिंह केरिया) 160क(गुलसिंह सुखलाल)		
10		10	162(महेन्द्र नहारसिंह) 174क (कृष्णा नसरू)		
11		11	175(गणस्या जान्या) 185/1(डोंगरसिंह नानसिंह)		
12		12	186(नहारसिंह नत्थु) 197 (रामबाई लक्ष्मण)		
13		13	198 (शयदीबाई कुटवाल) 209/क (मांगीबाई कुमार)		
14		14	210 (रोसी रेसी) 223क (धुलसिंह चमार)		
15		15	224(रिछड़ी डेबु) 236ख (विमलाबाई बमलसिंग)		
16		16	237 (बाटु ईगरा) 251 (धन्या मंगल्या)		
17		17	252(बीना रूमाल) 263ख (बालीबाई ईगरा)		
18		18	264(ध्यानसिंह वेस्ता) 274ख (बचा मोटला)		
19		19	275/2 (सवलीयो मोना)281 (रूलजी गमीरा)		
20		20	283(मोहन थानसिंह) 326 (लच्छया रूमसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भग्यापुर	1	1(बबीता लक्ष्मण) 15/1 (दितल शोभागसिंह)	अ.जा.	01
2		2	16 (लोनिया सुपडिया) 36 (अशोक श्रीकृष्ण)	अ.ज.जा.	13
3		3	37(जमना राधेश्याम) 55 (रामसिंग शोभागसिंह)	अन्य पिछड़ा वर्ग	01
4		4	56(भागलबाई मांगीलाल) 80 (रमेश गेंदालाल)	अनारक्षित	05
5		5	81 (चम्पाबाई मांगीलाल) 98(धनुबाई हिरालाल)	महिला अ.जा.	-
6		6	99(सुरजबाई ओमप्रकाश) 126 (धुलिया गुलाल)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	127(बापु उमराव) 152 (सलीताबाई प्रहलाद)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	153 (वारिस इसहाक) 164(हबीब गुलाबखां)	महिला अनारक्षित	03
9		9	165(हमीरनबी मुस्तफा) 179(मांगीलाल भीकाजी)		
10		10	183 (गोदावरी नथु) 203ख (मगन सीताराम)		
11		11	204 (औंकार मांगीलाल) 226 (मुलचंद रघुनाथ)		
12		12	227(गणेश तुकाराम) 248 (पंढरी कड़वा)		
13		13	249(नीलाबाई झापु) 270(कलीम अजीज)		
14		14	271(राजाराम रामासा) 292 (जीवन नहारसिंह)		
15		15	293 (औंकारबाबु) 315ख(प्रकाश सोमा)		
16		16	322(रामलाल शंकर) 366(सुनाताबाई मोहन)		
17		17	367(अमरसिंह बालु) 400 (फकीरा गेंदालाल)		
18		18	401(ध्यानसिंह फत्तु) 459 (कैलाश रामलाल)		
19	(पंचम्बा)	19	01(पेमला पातल्या) 18 (अनिल शोभाराम)		
20		20	19 (सिकरिया टकलिया) 30ग (मगनसिंह कास्या)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भातुड़	1	1 (लखन रमेश) 17/1 (विरेन्द्र शिवनारायण)	अ.जा.	-
2		2	18 (मीरा रामसिंह) 36 (तीताराम नथु)	अ.ज.जा.	8
3		3	37 (नवल नथु) 50 (सुरसिंह केकडिया)	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	51 (जानकी छितु) 65/2 (नूरजा शंकर)	अनारक्षित	4
5		5	66 (छतरसिंह रूमला) 75 (धनसिंह रिछु)	महिला अ.जा.	-
6		6	76 (धन्नालाल रिछु) 90(टिटी रूखडिया)	महिला अ.ज.जा.	4
7		7	91 (चमार रामसिंग) 128(सोनू आसाराम)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	(चन्दावड़)	8	01 (धर्मा बाल्या) 26 (सारोबाई चतरू)	महिला अनारक्षित	2
9		9	30 (गंगाबाई तेजा) 54 (सोदरबाई रामा)		
10		10	57 (समोतीबाई गोविन्द) 80 (कड़वा मिया)		
11		11	81 (अहिल्याबाई धन्या) 100(मेहलब शोभाराम)		
12		12	104 (बदलीबाई गमन्या)185 (जगदीश शिवराम)		
13	(यशवंतगढ़)	13	1(गणस्या मन्या) 10 (सामरया पेमला)		
14		14	11(नाथु मंगला) 17(झापड़ी गंगाराम)		
15		15	18 (अन्तु दलसिंह) 29 (साबुत गंगाराम)		
16		16	31 (नवलसिंह जगन) 41 (रायसिंग रामसिंग)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बन्हैर	8	1(रमेशसिंह उमराव) 25 (मुन्शीराम नत्थु)	अ.जा.	3
2		2	26(मोहब्बत गणपत) 50 (गुलाबबाई एडु)	अ.ज.जा.	10
3		3	51 (रणजीत पुनाजी) 62 (सुन्दरबाई कालु)	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4		4	63 (जयराम कालु) 89 (समोती फत्तु)	अनारक्षित	5
5		5	91(नारायण कालुराम) 109(नन्दराम रणछोड़)	महिला अ.जा.	2
6		6	110(ठाकुर नत्थु) 127(बुध्या बिशन)	महिला अ.ज.जा.	5
7		7	128 (ध्यानु किशन) 148 (दगडु झापड़िया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8		8	149 (बाबुलाल भिका) 170(राधेश्याम सखाराम)	महिला अनारक्षित	2
9		9	172 (सुन्दरलाल चंपालाल) 193(जगदीश नत्थु)		
10		10	194 (तुकाराम गोविन्द) 215/1 (रणछोड़ नत्थु)		
11		11	216(शंकर भिकारिया) 254(जगदीश शिवा)		
12		12	255(मोतीराम बोखार) 267(शांतिलाल नारायण)		
13		13	01(सोनू भावरिया) 301(जानकारी बाऊ)		
14		14	302(आजु रतन) 323(रेखा सदाशिव)		
15		15	326(प्रताप दामा) 350ख (दुलीराम एडु)		
16		16	351(चेतराम शोभाराम) 379(बमनी जोरसिंग)		
17		17	380 (साईराम झामु) 406 (अमान हिरा)		
18		18	407/3(धन्ना सुजा) 429(दुबा दल्लू)		
19		19	430/1 (थापरिया जसवन्त) 450 (भूरीबाई गोपी)		
20	मुलठान, जैतपुर	20	45(नराण नत्थु) 448 (सपना नराण)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बागदरी	1	1(ठाकुरसिंह ध्यानसिंह) 27(रामरतन शंकर)	अ.जा.	-
2		2	28 (रामसज्जन शंकर) 45(नैनसिंह लक्ष्मण)	अ.ज.जा.	11
3		3	47 (भारतसिंह रणजीतसिंह) 65 (मनिष पंढरी)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	66 (हागरू रामलाल) 90 (दिपिका छतरसिंह)	अनारक्षित	1
5		5	91(बोंदरसिंह बावरिया) 105 (पार्वतीबाई रतनसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	106(प्रतापसिंह गणपत) 197(बलवीरसिंह मालसिंह)	महिला अ.ज.जा.	6
7	(नागरखेड़ी)	7	1(हिरमल रमेश) 17क (ललित प्रदुमल)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	18 (रन्छोड़ नत्थु) 32 (आनंदबाई राजेन्द्र)	महिला अनारक्षित	-
9		9	33 (भीका मोत्या) 46 (आश शैलेन्द्र)		
10		10	47 (गोंदिया धना) 62 (नन्दनीबाई उमाशंकर)		
11		11	63(मांगीलाल छगन) 78 (सीताराम मांगीलाल)		
12		12	79 (जसल्या सुरसिंह) 693(कैलाश छगन)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अंबाखेड़ा	1	1(तरवर्या घुसाई) 13(शंकर भलस्या)	अ.जा.	-
2		2	14(भंगी गमरीया) 25क (अमरसिंग जालम)	अ.ज.जा.	19
3		3	26 (दिव्या कागणीया) 31ग(जमनाबाई पहाड़सिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	33(भीमा छुलक्या) 43 (हुस्यारसिंग नसिंग)	अनारक्षित	-
5		5	44(कुमार नरसिंग) 49क(रायला झुबला)	महिला अ.जा.	-
6		6	50(गणपत नुरजी) 160 (जानु इसराम)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	61 (राणका मोहन) 69 (मिचरीबाई छतरसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	70(पहाड़सिंग ओंकार) 82 (साहदी लिम्बु)	महिला अनारक्षित	-
9		9	83(रामबाई गिलदार) 96 (रेलजी रूखा)		
10		10	97(राजेन्द्र बाबुलाल) 103क (बालु प्रेमसिंह)		
11		11	104(नानला ज्ञानसिंह) 118 (गुलाब सोम्मरिया)		
12		12	119(मुरक्या पुना) 124(सुमलीबाई घुरक्या)		
13		13	126(जायला घुरक्या) 137 (जुलकरीया सकरीया)		
14		14	138 (होलकरीया सकरीया) 145 सोमरीया गोंदिया)		
15		15	150(मंगलसिंग ऊंकार) 160(सुकमाबाई थावरिया)		
16		16	161(पातलीबाई नासरीया) 169(जंगलीबाई नानसिंह)		
17		17	171(कन्दरया सुरमान) 186(जिरभान पहाड़सिंग)		
18		18	187(गंगाराम सुरज्या) 198 (वाक्या फुगरीया)		
19		19	199(तेलस्या फुगरीया) 121ग (झिनाबाई भुवानसिंग)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मोहनपुरा	1	1(जगन केरिया) 15(रूखमाबाई शेरु)	अ.जा.	1
2		2	16(सुबा भावला) 30(प्यारसिंग नानसिंग)	अ.ज.जा.	17
3		3	31(सायरीबाई मुरार) 47(गजा रूपसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	46(देवसिंग नाकु) 66(भगवती श्रीराम)	अनारक्षित	2
5		5	67(चम्पाबाई कन्या) 75/2 (दशरथ उमदा)	महिला अ.जा.	-
6		6	77 (भीमसींग चमार) 84/1(कस्तुरी बाई जालसिंग)	महिला अ.ज.जा.	9
7		7	84/2(मदन बाथु) 100(भावला रणजित)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	101(राल्या हागरीया) 115/3(विधा शिवनारायण)	महिला अनारक्षित	1
9		9	117(रामेशचन्द्र हेमराज) 127(रतन भुरीया)		
10		10	128(सुमन धनसिंग) 145(दिनेश शिवचरण)		
11		11	146(कैलाश छगन) 162 (गेन्दाबाई हाबड़ा)		
12		12	164(चमार लुमरीया) 178(सेलकी अनारसिंह)		
13		13	179 (पितु भावसीया) 190 (धनसिंह मीचरा)		
14		14	191(सालु झेतरा) 205 (ध्यानसिंग लालसींग)		
15		15	206 (भुवानसिंग रूपसिंग) 219 (नथी रामसिंग)		
16		16	220(सोमला धनसिंग) 234(मालसिंग नरसिंग)		
17		17	235(रूमाल अनारसिंग) 149/2 (कलसिंग अनारसिंग)		
18		18	250(अनारसिंग सदरीया) 264/1(सजन हरसींग)		
19		19	265(दरबार नानका) 274 (रजाक लिमस्या)		
20		20	275(अकली रजान) 329(प्रकाश सुभाष)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बलखड़खुर्द	1	1(पान कालु जमरे)11(घुरक्या हाटेसिंग)	अ.जा.	-
2		2	12(ज्ञानीबाई भुवानसिंग) 19(केशरी मुंशीया)	अ.ज.जा.	11
3		3	20 (नथीबाई दशरिया) 31(भारत बुटसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	32 (सेकड़ीबाई भंग्या) 48 (झुमाबाई नाथु)	अनारक्षित	-
5		5	49 (केरिया नादु) 64(लाड़का गुलाब)	महिला अ.जा.	-
6		6	65(हारलीबाई कनसींग) 73 (प्रताप सालम)	महिला अ.ज.जा.	6
7	(वसाली)	7	01(रूखड़ीबाई प्यारसिंग) 12(ज्वानसिंग गटु)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	13(भंगड़ा गबला)20 (पातली भावसींग)	महिला अनारक्षित	-
9		9	21 (देस्या रामसिंह) 33 (केकड़िया नानका)		
10		10	34(गुलाब सुखलाल) 46(छतरसिंग चुनकिया)		
11		11	47(सखाराम चुनकिया) 72(गणपत मालु)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नांदिया	1	1(जामा इस्मल) 12 (डुमा भावसिंग)	अ.जा.	-
2		2	13 (रेवसिंह नारसिंह) 27(राजाराम छोटेलाल)	अ.ज.जा.	11
3		3	28 (टेरक्या मालसिंह) 42 (महेन्द्र पन्चला)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	43 (अबला किरता) 60 (अब्दल जिरमान)	अनारक्षित	-
5		5	61(शिवराम गटु) 71 (खुमला फेरंग्या)	महिला अ.जा.	-
6		6	72(जाड़िया नाथु) 84(डुडी देबा)	महिला अ.ज.जा.	06
7		7	85(कालूसिंह नाकु) 100/1 (लालजिया सुरबान)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	102(चन्दरसिंह गुला) 117(सिंगा सोमारीया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	118(राजा सिंगा) 130 (रामसिंह भारता)		
10		10	131(कुमार लकड़िया) 144/1 (सुकलाल गुलाब)		
11		11	145(गंगाराम गुलाब) 187(इकराम ताहरिया)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रायसागर	1	1 (कालू जेराम) 21क (सिकदान चन्या)	अ.जा.	-
2		2	22(टुटा नथु) 34 (सीला चटया)	अ.ज.जा.	14
3		3	36 (राजाराम रूल्या) 42(बठड्या रूलमा)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	43 (खुमस्या भेना) 5 (बालीबाई बल्मा)	अनारक्षित	01
5		5	52 (भायला पुंजा) 65क (जाड़या हूमा)	महिला अ.जा.	-
6		6	66 (सिताराम हुसन्या) 70ख(सिकंदर कालु)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	71 (कुतरया हमा) 74क(गबरसिंग लालसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	75 (अमरसिंग हमा) 85(हजारया रन्डोड़)	महिला अनारक्षित	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9		9	85ख (झुला गुटिया) 90 (भंगी मल्या)		
10		10	91 (गुमन्या मल्या) 94क(धुरकीया मुसा)		
11		11	95(छतरसिंग नानट्या) 101(नान्या भला)		
12		12	102 (नवलसिंग तेलसिंग) 111(कैलाश काटा)		
13		13	112 (भाटिया काटा) 134 (रड़बीबाई दमड़या)		
14		14	135 (तुफान कालु) 151ख (नहारसींग दलसिंग)		
15		15	152(ककरिया डुटाला) 174(सुरसिंग सिताराम)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	देवझिरी	1	1(गजानंद दला) 11 (झुनाबाई जवानसिंह)	अ.जा.	-
2		2	12 (चमार सुकल्या) 21अ (प्रताप गुलाब)	अ.ज.जा.	13
3		3	22 (सोमवारिया भूरू) 32 (विजय सुरपाल)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	33(फुलकी नत्थु) 39/क (इडला गलसिंह)	अनारक्षित	-
5		5	41(मेथली अनारसिंह) 49 (अनारसिंह लुदिया)	महिला अ.जा.	-
6		6	51 (केली भुवानसिंह) 55ख (देवराम अमरसिंह)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	56 (बिन्दा हिरा) 58ग (भुरी कुलसिंह)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	58घ (जुगड़ा खुमसिंह) 65 (रघुनाथ खुमसिंह)	महिला अनारक्षित	-
9		9	66(चमार खुमसिंह) 70क (अन्या हरसिंह)		
10		10	73(पहाड़सिंह थारू) 82 (सिंगदार सुरपाल)		
11		11	83 (तेरसिंह भंग्या) 93 (गुलसिंह नानसिंह)		
12		12	94 (रेमसिंह जैयमल) 103 (रेमसिंह गेन्द्या)		
13		13	104 (भुरीबाई अमरसिंह) 127(चन्द्रसिंह मुतरीया) 586(रूमसिंह भंग्या).		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बहादरपुरा	1	1(किशन मोत्या) 29 (आशाराम पोपट)	अ.जा.	-
2		2	30 (गणपत मोतीराम) 60क (रूखड़ी हाजी)	अ.ज.जा.	18
3		3	61(चन्द्रसिंह प्यारसिंह) 83/2 (भिलू टुकड़या)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	84/1 (जतुबाई पंढरी) 104 (सुशिला राग्या)	अनारक्षित	02
5		5	105(हिरालाल ठाकुर) 128 (महेश मथरालाल)	महिला अ.जा.	-
6		6	129 (हुकुम जगन्नाथ) 146 (विमलुबाई बिहारी)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	147 (अहिल्याबाई राजराम) 159(गमरसिंह रत्थु)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	160(भावसिंग नत्थु) 178 (लक्ष्मी राधेश्याम)	महिला अनारक्षित	01
9		9	179(मांगीलाल गोविन्द) 197 (मदन रामा)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10		10	198 (बल्लु दर्याव) 214 (गजराज सुखलाल)		
11		11	215(लोकेश मंशराम) 229क (रतनसिंग रूमसिंग)		
12		12	230 (बक्या दौला) 235/2 डोंगरसिंग बिसन)		
13		13	236/1 (रायसिंग डोंगरचंद) 244(गुलाबसिंग मडया)		
14	(काकड़िया)	14	246/1(केशरसिंह रामसिंह) 256/2(डोंगरसिंग बिसन)		
15		15	259(सरदार हाखी) 268 (गोखरसिंह दलसिंग)		
16		16	269 (औंकार दलसिंग 284क (कपल मांगीलाल)		
17		17	285(ढोयनीबाई भंगी) 296(रतनसिंह मालजी)		
18		18	297(झंझाड़ कोल्या) 313/1 (किशन हदी)		
19		19	314/1(बिल्लोरसिंह केदु) 330(शान्तिलाल भोल्या)		
20		20	331(बेनचीबाई हवलदार) 373क (ग्यारबाई काशीराम)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मदनीखुर्द	1	1(सज्जनसिंह भारत) 6/1 (गजराज रिछु)	अ.जा.	-
2		2	7 (सुनिता प्यासिंग) 13 (कदरसिंग सूकल्या)	अ.ज.जा.	18
3		3	14 (बेरसिंग सुकल्या) 21/3 (रेसिंग दौला)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	22(बना दौला) 34 (भूथरया रडत्या)	अनारक्षित	-
5		5	35(झेतरया हरला) 45 (भगड़ी गजरया)	महिला अ.जा.	-
6		6	46(लालसिंग रडत्या) 54 (मूरार बिलमण)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	55(भिलू कलमी) 63/4 (खुमसिंग बदरया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	65(सुमली सालम) 72(रामकुवर कोलू)	महिला अनारक्षित	-
9		9	73(गोदावरी अर्जुन) 80 (लक्ष्मी रामचंद)		
10		10	81(सिंगदार गंजी) 91/1 (बंशी नरसिंग)		
11		11	92(भावला अनसिया) 108(मोतेसिंग कलजी)		
12		12	109(कलजी अनसिंग) 118(जगन रिछु)		
13		13	122 (अर्जुन मिठया) 130(दशरी नहारसिंग)		
14		14	131(सलादी सकरया) 137(शमी धनज्या)		
15	मदनीबुजुर्ग	15	138(रतन केरया) 152 (भोदू फुकरया)		
16		16	153 (झेदा फुकरिया) 152 (रूपली बद्रीलाल)		
17		17	165(धुरक्या चमार) 173 (चम्पाबाई सुकलाल)		
18		18	174(जगली खजान) 190 (सरदार जपया)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रसगांगली	1	1 (बांगरीया गिलदार) 19(गेमसिंह किसन)	अ.जा.	-
2		2	20 (सुखलाल कलसिंह) 36(मोहनसिंह चेन्दा)	अ.ज.जा.	20
3		3	37 (चेंदा सोममारीया) 56(जामसिंह पातलिया)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4		4	57 (गिल्या नहारसिंह) 71 (मौकड़ीबाई जगन्नाथ)	अनारक्षित	-
5		5	74(बनाबाई पातलिया) 89(भागसिंग नहारसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	91 (मालसिंह मलजी) 109 (पांडिया तुलिया)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	110 (गेलिया तुलिया) 121(डोंगरिया फुलसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	122(कुटवालनी सुतार) 138(वेरसिंह शंकर)	महिला अनारक्षित	-
9		9	139(तेरसिंह शंकर) 160(मांगीलाल समदु)		
10		10	163 (किशन कालु) 181क (गणेश तृप्या)		
11		11	182 (नाटु बलीया) 190 (न्दु गन्या)		
12		12	191 (कटरसिंग मांगीलाल) 206 (नानसिंग थावरिया)		
13		13	207(झिंगलीबाई लालसिंग) 226 (रामदास जामसिंह)		
14		14	227(नकलीबाई किसन) 241 (अलीबाई गारदिया)		
15		15	242(चूकन रूपसिंह) 254 (रायलीबाई औकार)		
16		16	255(छतरसिंह नहारसिंह) 271 (गंगाराम रामसिंग)		
17	(महारेल)	17	01(रमलीबाई राधेश्याम) 13(महेन्द्रसिंह हीरू)		
18		18	14(जवानसिंह हीरा) 18ग (सुरसिंह रलजी)		
19		19	22 (केशरी मन्ड्या) 45 (भूरसिंग नहारसिंह)		
20		20	46 (दूरसिंह नहारसिंह) 58ख (कालू गुलाब)		

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दाउतखेड़ी	1	0(विनोद अमरसिंह) 17/2 (भगवानसिंह नारायण)	अ.जा.	1
2		2	18 (धापीबाई नारायण) 30 (नरसिंह खेता)	अ.ज.जा.	9
3		3	31(रूखमणी चतरू) 47 (भगवानसिंह सगड़ा)	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	49 (ध्यानसिंह बंनस्या) 67(सायराबाई रघुनाथ)	अनारक्षित	4
5		5	68(रंगबाई सीगदार) 89(पाण्ड्या रड़वा)	महिला अ.जा.	-
6		6	91(गजरीबाई रड़वा) 108 (बलीराम नत्थू)	महिला अ.ज.जा.	5
7		7	113(केलाबाई नाहरसिंह) 133(बालीबाई जवाहर)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	134(मुन्शी बुरहान) 143/2 (नन्नु रामा)	महिला अनारक्षित	2
9		9	144(बालीबाई रामा) 161/1 कवीताबाई मांगीलाल)		
10		10	164(गजरीबाई गुलाब) 176/1(सोदरबाई बाबुलाल)		
11		11	177(कमल मोजीलाल) 187(पुना फत्तु)		
12		12	188(शंकर हरेसिंह) 195/1 (नन्दु झामसिंह)		
13		13	197),(समराम झामसिंह) 209/1 (बनेसिंह गुरूमुख)		
14		14	211(हिरालाल गुलाब) 220(तोताराम अमरसिंह)		
15		15	225(रामीबाई नन्दराम) 234/1 (कैलाश किशन)		
16		16	237(श्यामलाल गल्लू) 251(छतरसिंह प्रताप)		
17		17	252(हंशय जामसिंह) 266क (हिरूबाई सखाराम)		
			512(सपनाबाई मुकेश) 930 (राजकुमार बाबूलाल)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बागदरा	1	10 (भारत गजन) 28क (ईसराम)	अ.जा.	-
2		2	29(हरना वेस्ता) 41(धनसिंह भील्या)	अ.ज.जा.	16
3		3	42 (मुनस्या भील्या) 55 (जियाराम सुकलाल)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	56 (हिराबाई कुवरसिंह) 69 (मोहल मैकाल)	अनारक्षित	01
5		5	70 (खुमसिंह नरू) 89 (सागरी नत्थू)	महिला अ.जा.	-
6		6	90(छगन रिछु) 100(हजारिया अपसिंग)	महिला अ.ज.जा.	08
7		7	102 (शंकर थावसिंह) 111(सेकड़ीबाई कालु)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	112(सुकलाल कालु) 121क (गंगलीबाई गलरया)	महिला अनारक्षित	01
9		9	122(झेतरीबाई लुदिया) 135 (जगल्या मालु)		
10		10	136 (दशरीया बीसन) 187 (रघुनाथ खुमान)		
11		11	151 (लोंगीबाई खुमान) 156(मथलीबाई बाथु)		
12		12	163(जुवानसिंह नालजा) 176 (मंगलीया अमरसिंह)		
13		13	177 (कैलाबाई रिछु) 187 (नवलसिंह रडत्या)		
14		14	188 (धुदरीबाई दलसिंह) 199क (बहादर जोग्या)		
15		15	201 (अनारसिंह जोग्या) 212 (नत्थू कालु)		
16		16	213 (घुधरीबाई रेमला) 223 (नत्थु रायमल)		
17		17	224 (लाडुकीबाई कन्हैया) 702अ (गेंदलीबाई दलसिंह) ए(दयाराम दितला).		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	काबरी	1	1(गिरधारी सुखलाल) 39क (संजा हिरू)	अ.जा.	01
2		2	41 (कबीर झिनला) 76 (जखला शंकर)	अ.ज.जा.	17
3		3	79 (गिलदार नरसिंह) 114 (अकाश जगल्या सावले)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	115 (सायना चिन्दु) 157 (नाया भावला)	अनारक्षित	02
5		5	158 (मांजरिया गिन्या) 181 (इनाबाई शांतिलाल)	महिला अ.जा.	01
6		6	182 (वालू कनी) 216 (बच्ची दुस्या)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	217 (पिदा गला) 246 (बना हिरा)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	247 (सनारिया हिरा) 284(काछली ईस्मल)	महिला अनारक्षित	01
9		9	288ख (रिगनीया रतन) 299 (गुटीया धुतमा)		
10		10	302 (चावरिया गुटीया) 324(भंगी जामसिंग)		
11		11	326 (पहाड़सिंह वेरसिंह) 359 (अंग्रेजा हेंदला)		
12		12	360 (हिरमल जगल्या) 399 (रिंजा नानका)		
13		13	400 (नानका गला) 446(बाबुबाई रूपसिंह)		
14		14	447 (टेपरीबाई माला) 474 (अता गना)		
15		15	475 (सायमल रिछा) 495 (माधु अनाड़्या)		
16		16	496(जान्या देविसिंह) 516 (बाला गांजरिया)		
17		17	518(गटल्या गुलाब) 543 (तेजली रडवा)		
18		18	544 (सुरसिंह मंश्या) 573 (सिलदार लक्ष्मण)		
19		19	574 (गिलदार लक्ष्मण) 600 (उमरा शंकर)		
20		20	601 (गाथीया शंकर) 623च (नान्याबाई विकरम)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अम्बा	1	243 (उषा किशन) 253 (मगली रता)	अ.जा.	-
2		2	254 (भायटा वेचाण) 271 (पलकी प्रकाश)	अ.ज.जा.	20
3		3	272 (महंगु गुलाब) 279 (छकला भिमसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	280(तेरसिंग आदिया) 289 (कनस्या भिमला)	अनारक्षित	-
5		5	291 (चुखी भुण्टा) 308 (बुटसिंग जिरवान)	महिला अ.जा.	-
6		6	309 (भिमसिंग गुंजारिया) 317 (नानुराम सरादिया)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	318 (ढेमा सरादिया) 332(सुडी घेरसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	333 (रिछा गणस्या) 347 (पुटया हमा)	महिला अनारक्षित	-
9		9	348 (नायजा बावरिया) 360 (गुलसिंग बुदला)		
10		10	361 (बाठी वेहरया) 368 (फकिरा निमजी)		
11		11	369 (भायला भुरा) 331 (गुटीराम कुमार)		
12		12	398 (सनाबाई देवसिंग) 484/1(बनिबाई सन्तु)		
13	(कुम्भी)	13	40क(चंदाबाई गंगाराम) 109 (बंगाली रायसिंग)		
14		14	110 (रायसिंग रूमा) 121 (गनन्तीबाई गुटिया)		
15		15	122 (नायको गादरिया) 134 (ढेमा रिछा)		
16		16	135 (पठानसिंग रूलजी) 147 (नानजा अनसिंग)		
17		17	148 (रूमालसिंग झेतारा) 156 (नूरा गला)		
18		18	158 (ध्यानसिंह छितरिया) 171 (अमास्या तेरसिंग)		
19		19	172 (ढेमसिंग सारदिया) 182 (जुवानसिंग भायसिंग)		
20		20	183 (महंगु धनजी) 193 (झमराली कदरिया)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भगवानपुरा	1	1(वेस्तीबाई बांगरीया) 60 (गोविन्द किशन)	अ.जा.	1
2		2	64 (छिबरीया चमार) 103 (रमेश दरियाव)	अ.ज.जा.	16
3		3	104 (हजारिया दरियाव) 143 (भुराबाई मालसिंह)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	144 (मंशाराम नारसिंह) 178 (रेखाबाई रूमाल)	अनारक्षित	3
5		5	179 (गयनाबाई रगला) 228 (राध्या घुरक्या)	महिला अ.जा.	-
6		6	230 (हजारया घुरक्या) 273 (होशियारसिंह रायला)	महिला अ.ज.जा.	8
7		7	274 (नारसिंह झेदरिया) 304 (फुलसिंह प्रताप)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	305 (झिनक्या गुलसिंह) 341 (इस्मल गुरज्या)	महिला अनारक्षित	2
9		9	343 (जामसिंह नानसिंह) 374(होशियारसिंह मुकुदसिंह)		
10		10	334 (बुदीबाई रेमशचंद) 3767(अनारसिंह गंगाराम)		
11		11	378(गठलीबाई रंछोड़) 413(रजान झंझाड़)		
12		12	414 (झंझाड़ प्रेमसिंह) 472 (तेललस्या गंदास)		
13		13	474 (ठणीबाई सोमरिया) 513घ (शांतिलाला राजपुरिया)		
14		14	02(रेवसिंह मांगीलाल) 53 (जसमाबाई रजान)		
15		15	53ख (हाशिराम रजान) 60/2 (मुरसिंह मांगीलाल)		
16		16	42क (सुनिल बियानसिंह) 159 (गिलदार खुमानसिंह)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17		17	160(नवलसिंह रूखड़िया) 228क (जामबाई पुन्या)		
18		18	1(तेरसिंह नानसिंह) 242 (धवल्या रूपसिंह)		
19		19	243(अजीज दायमखॉ) 813क (जितेन्द्र पंचानन)		
20		20	47 (सुनिल राजु) 990 (आरिफ खां मंशुरखां)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पिपरीपाला	1	1 (हिराबाई लालसिंह) 17 (भुवानसिंह सेकड़िया)	अ.जा.	-
2		2	18 (अनारबाई दरियाव) 30 (नानसिंह भिमसिंह)	अ.ज.जा.	15
3		3	31 (रानुबाई लाड़का) 39 (चंपाबाई बिलामसिंह)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	40 (ईस्माईल खजान) 47 (विक्रमसिंह गुलामसिंह)	अनारक्षित	-
5		5	49 (नाशिया भुचर) 56 (दितल्या कुलिया)	महिला अ.जा.	-
6		6	57 (सखाराम कुलिया) 63 (नजीर गुलाम)	महिला अ.ज.जा.	8
7		7	64 (अंजुबाई सुखलाल) 74 (रिछु नुरा)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	76 (गजरा केरिया) 84 (बागुसिंह धुंधरिया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	85(थावलीबाई भारसिंह) 98 (चमार दशरथ)		
10	(बामणपुरी)	10	02(लोहगुबाई राजाराम) 13 (हेदललीबाई दागा)		
11		11	14 (नाना गाड़ा) 26 (दहज्या रामसिंह)		
12		12	27 (काशीराम रेवला) 33क(टेमरिया सच्छू)		
13		13	35 (भुरलीबाई रेजला) 42(नुरा रूपसिंह)		
14		14	43(रहमल रूपसिंह) 48 (भेरला भुरला)		
15		15	50 (केबीबाई नासरीया) 61 (धारागि तेरसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गारी	1	1(गुरलाल बासी) 13 (लंगहीबाई नाथु)	अ.जा.	-
2		2	14 (रायसिंह मोहन) 29 (ममता इतन)	अ.ज.जा.	15
3		3	30(हरपाल गला) 43/1 (सिंगदार नबला)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	44 (खराबसिंह राल्या) 58क(भुरू नहारसिंह)	अनारक्षित	01
5		5	59 (कालू नहारसिंह) 68ग (चमार गुलसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	69 (रंभा भोगा) 83 (राजू पुन्या)	महिला अ.ज.जा.	08
7		7	85 (भंगड़ा मगत्या) 93क (प्यारसिंह जेमला)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	94 (रड़त्या भूरला) 105/1 (राली बाई गमरया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	105/2 (सन्तुबाई वेरसिंह) 113 (रणजीत भंगड़ा)		
10		10	114 (फुंदा सेकड़ीया) 121 (सायला देवलसिंह)		
11		11	122 (कदरसिंह धुंधरा) 130/2 (दिपला कालू)		
12		12	131 (भायला पहाड़सिंह) 143 (रामा नरसिंह)		
13		13	144 (खुमान डुडला) 153/4 (लालू अमरसिंह)		
14		14	154(नवसिबाई नान्जू) 167/4 (सुकलाल मेरसिंह)		
15		15	168 (गीनूबाई बनसिंह) 178 (नाकु हरसिंह)		
16		16	180 (दया मेहताब) 194(करण मोटला)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पिपलझोपा	1	0(सखाराम तुफानसिंग) 20 (भजन किशोर)	अ.जा.	1
2		2	21(कालीबाई भिमसिंग) 32घ (मास्टर छित्तु)	अ.ज.जा.	16
3		3	33(तुफानसिंग नहारसिंग) 46 (मांगु रामसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	47 (विक्रम जहांगीर) 66 (दुकलीबाई माकड़िया)	अनारक्षित	03
5		5	67 (रूल्या माकड़िया) 88 (सुरंगीबाई जामा)	महिला अ.जा.	-
6		6	89 (किशन मेथला) 101 ख (हासीराम मकराम)	महिला अ.ज.जा.	08
7		7	102 (विश्राम गटा) 115 (औंकार पुन्या)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	116 (ढापलीबाई दुमन्या) 132 क (जानुबाई नास्टा)	महिला अनारक्षित	02
9		9	133 (दगड़ीया गिलदार) 152 ख (चेना भावसिंग)		
10		10	153 (साहलीबाई खालु) 169 (नहारसिंग घुसाई)		
11		11	170 (रेशलीबाई सुरेश) 199क (त्रिलोकचंद धन्नालाल)		
12		12	200 (धारसिंग छतरसिंग) 222 क (दुर्गाबाई शांतिलाल)		
13		13	223 (राजेन्द्र शंकरराव) 238 क (हुसन्या भायला)		
14		14	239 (भायला महाकाल) 266 (आनंदराम बंशीलाल)		
15		15	167 (बलीराम कालू) 287 ख (गिरधानसिंह हजारीया)		
16		16	288 (गजेन्द्र बालकृष्ण) 304 (धुलसिंग रिछा)		
17		17	305 (दसलीबाई गजा) 332 (कोटवाल नहारसिंग)		
18		18	333 (रूनाबाई कोटवाल) 415 (धुरलीबाई ध्यानसिंह)		
19	(राजमली)	19	1 (कोचीबाई सुकलाल) 10 ख (चिन्दीबाई बजारीया)		
20		20	11 (शायमल दुरसिंग) 14 क (संतोष गेमसिंह)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	धरमपुरी	1	1(बारका हमज्या) 10 (बागल्या फत्तु)	अ.जा.	-
2		2	11(नानटिया इस्मल) 21 क (बुदली अमसरीया)	अ.ज.जा.	12
3		3	22 (किसन भीलजी) 34 (कालीबाई गणा)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	35 (बीसन कागण्या) 45 (लहरीया दुरग्या)	अनारक्षित	-
5		5	46 (वाछीया न्यादर) 54 (रेमला शंकर)	महिला अ.जा.	-
6		6	55 (रंगारीबाई मंगल्या) 71 (साहबाई भलका)	महिला अ.ज.जा.	06
7		7	72 (गोरीबाई खुमसिंग) 79 (अलादीबाई छामा)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	80 (भंगी मंगल्या) 87 (राजाराम गुलाबसिंग)	महिला अनारक्षित	-
9		9	88 (मदनसिंग ठूस्या) 94 (जतन जामसिंग)		
10		10	95 (रिस्तम जामसिंग) 104 (नहारसिंग सोमारिया)		
11		11	105 (आटूबाई लस्या) 114 (जवानसिंग रायसिंग)		
12		12	118 (सुवालीबाई बालम) 130 (रेमला मुसला)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	झगड़ी	1	0(रूकमाबाई केदारसिंह) 7 (मांगीलाल मुनश्या)	अ.जा.	01
2		2	8(धुंधरीबाई मलसिंह) 14 (प्रेमसिंह राजु)	अ.ज.जा.	17
3		3	15 (गुलाबसिंह लाडका) 27 (रामू जयराम)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	28 (नूरया भाटु) 35 (ज्वानसिंह बालु)	अनारक्षित	-
5		5	36 (सायबा बालु) 43क (सदू मोटला)	महिला अ.जा.	-
6		6	44 (गणपत सुकलाल) 57 (सुभान हरसिंग)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	58 (हुपेन्द्र हरसिंह) 70 (रेवलसिंग गुलसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	72 (छगन डेबरा) 78 (मेहताब अमरसिंग)	महिला अनारक्षित	-
9		9	79 (गुलाबसिंह सौदान) 89 ख (जामा जैराम)		
10		10	90 (वागल्या रूपला) 99ध (विजय मोहन)		
11	(ताराबावड़ी)	11	1(चंदरसिंह भारता) 10 (सोमवारिया पीड़िया)		
12		12	11 (पीड़िया नानसिंह) 18 (काली नानज्या)		
13		13	19 (मोहनसिंह पहाड़सिंह) 27 (गुमानसिंह भूवानसिंह)		
14		14	28 (राजली ध्यानसिंह) 37 (नाकु मुसा)		
15		15	38 (सदु पहाड़सिंह) 50 (रामलाल केरिया)		
16		16	51 (भल्या बद्या) 71 (रूपसिंह रूगनाथ)		
17		17	72 (दसरया चन्द्रा) 73/11 (सड़या उन्दरीया)		
18		18	73/12(हजारी तिरन्या) 332 (धुमसिंह कदा)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	दामखेड़ा	1	1 (रूखड़ीबाई केमलसिंह) 24 (ध्यानसिंह नहारसिंह)	अ.जा.	-
2		2	26 (भावसिंह भोलू) 56 (विक्रमसिंह नाथु)	अ.ज.जा.	17
3		3	57 (दारसिंह नाथु) 77 (धमलीबाई सुखलाल)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	78 (कालू नूरा) 107 (रड़त्या हरसिंह)	अनारक्षित	03
5		5	108 (प्रतापसिंह हरसिंह) 131 (धमलीबाई रामा)	महिला अ.जा.	-
6		6	132 (चमारसिंह हागरीया) 150 (पुटीबाई पुन्या)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	151 (किसन पुन्या) 169 (खुमसिंह दवलसिंह)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	170 (खुमसिंह वेस्ता) 195 (जंगलाल सोकल्या)	महिला अनारक्षित	01
9		9	196 (सदरिया सोकल्या) 216 (सुरपाल रामसिंह)		
10		10	217 (सुरपाल मालसिंह) 234/5 (लुदरिया भीमसिंह)		
11		11	235 (सोमला धनिया) 256 (लताबाई हुकुमसिंह)		
12		12	257 (सीताराम शंकर) 275 (कैलाबाई रूखड़िया)		
13		13	277 (करन रामसिंह) 296 (भागीरथ बाबू)		
14		14	298 (संतोष औंकार) 326 (बेबीबाई चंदुसिंग)		
15		15	327 (केदरिया रूपसिंह) 343 (भुरलीबाई बुखा)		
16	(दामखेड़ाफा)	16	344 (बुदीबाई पुन्या) 365 (सीलूबाई सुन्दरसिंह)		
17		17	366 (खुमसिंह आपसिंह) 394 (नानसिंह मुतरिया)		
18		18	395 (ज्वानसिंग मुतरिया) 324 (मडिया मुतरिया)		
19	(लालपुरा)	19	425 (नकला हरपाल) 451 (रामकोरबाई सुरपाल)		
20		20	453 (बीनाबाई नत्थु) 466 (गुलाब मालसिंग)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	आमल्यापानी	1	1 (जाडला मुसला) 20 (टेट्टु जतिया)	अ.जा.	01
2		2	21 (रमु धसकड़) 34 (गुजीबाई धनसिंग)	अ.ज.जा.	17
3		3	35 (टकल्या धनसिंग) 45 (खुमसिंग नरसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	46 (चतरिया अनाज्या) 59 (भिलु भुवान)	अनारक्षित	-
5		5	60 (मांगतीबाई काशीया) 71 (सुबान भावसिंग)	महिला अ.जा.	-
6		6	72 (भावसिंग केकड़िया) 90 क(कनीबाई शंकर)	महिला अ.ज.जा.	09
7		7	91 (जसलीबाई रामसिंह) 106 (रायसिंग मालसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	107 (तेलसिंग बेलजी) 119 (नवलिया पातल्या)	महिला अनारक्षित	-
9	(थुल्यापानी खुडी अम्बा)	9	1(रायदि साहल्या) 4 (डेवरिया भाचरिया)		
10		10	5 (मंजु नेपाल) 8 (धुरसिंग मगन)		
11		11	9 (नानसिंग केकड़िया) 12 क (गुडीया प्रेमसिंग)		
12		12	13 (अन्तुबाई हमीर) 15 (रायलीबाई नकला)		
13		13	16 (रूमला चमारिया) 18 (ध्यानसिंग केरीया)		
14		14	19 (शोभाराम भुनी) 22 क (बच्चनसिंग जुवानसिंग)		
15		15	23 (खेली भावला) 29 (दित्या भुवान)		
16		16	30 (सुकलीबाई कन्दला) 34 क (मंगु नवलया)		
17		17	35 (रावला मनसीया) 39 (केकु नाथा)		
18		18	41 (रूमलीबा भारसिंह) 74 (हमीर बाला)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भुलवान्या	1	1(प्रेमसिंह गेमसिंग) 11 ग (तुकाराम नानला)	अ.जा.	-
2		2	12 (गंगराम पालस्या) 25 (लोहज्या बालजी)	अ.ज.जा.	19
3		3	26 (पारली छतरसिंग) 42 (सोहगुबाई रामसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	43 (गुजारिया गोपाल्या) 56 (रामसिंग डेबरा)	अनारक्षित	01
5		5	59 (रमीबाई आपसिंग) 72 (सुभा नरसींह)	महिला अ.जा.	-
6		6	73 (शायबा सुमा) 86 (भीलीबाई जीरभान)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	88 (बदा जीरभान) 104 (माहरिया ज्ञानसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	105 (मुसला रेबा) 120 (लाठीया हाबजी)	महिला अनारक्षित	-
9		9	121 (हरसिंह हजी) 134 (नाया दिना)		
10		10	135 (फकरिया अमरसिंह) 161 (मदनलाल तोताराम)		
11		11	163 (सारबाई प्यारसिंग) 179 (सुनील साहदरिया)		
12		12	181 (छतरसिंग मिचरा) 203 (अनारसिंह गुलसिंह)		
13		13	204 (रानुबाई काल्या) 215 (छोगीलाल रजान)		
14		14	217 (गीता लोहारिया) 226 (बाटीबाई काल्या)		
15		15	227 (बाटीबाई बठड़ा) 241 (काल्या जोधा)		
16		16	243 (बाबुलाल वाहरिया) 255क (आताराम रेमसिंग)		
17		17	256 (गनीबाई तीरा) 269 (बिहारी सुमा)		
18		18	270 (चोमला नाना) 286 (हुकुमचन्द खजान)		
19		19	287 (जांहगा वेस्ता) 308 क (रूमालिया सुरला)		
20		20	309 (नहारसिंह भुरमल) 347 (दुरसिंह मांगल्या)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	कदवाली	1	1(काशीराम बहादर) 12 (छेंडीया राधु)	अ.जा.	-
2		2	13 (नानकीबाई सुमज्या) 24 (बदीया भूरजी)	अ.ज.जा.	13
3		3	25 (प्रेमसिंग जंगल्या) 35 (छतरसिंह हरि)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	36 (सेवासिंह हरि) 47 (खजान छितु)	अनारक्षित	-
5		5	48 (भूरला औंकार) 55 (बूधा मान्या)	महिला अ.जा.	-
6		6	56 (रामा मान्या) 62 (नाना सरदार)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	63 (भावसिंग मुल्या) 71 (रेंजला गन्या)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	72 (सायदीबाई डेबा) 84 (गाठिया दादड़ीया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	85 (बदा गाठिया) 94 क (लोहदा पुटिया)		
10	नहारखोदरा	10	01 (दुस्या थारु) 07 (ज्ञानसिंग रबा)		
11		11	8 (गिलदार हागरीया) 18 (रावल्या कान्या)		
12		12	19 (जिरगा सुकल्या) 24 (आलीबाई छतरसिंह)		
13		13	25 (कालू जिरबान) 33 (भावसिंह खजान)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अनकवाड़ी	1	1(बाबु अलाउद्दीन) 17 क (मनोहर मांगीलाल)	अ.जा.	01
2		2	18 (जुम्मा गबरू) 37 (गोरेलाल नाकु)	अ.ज.जा.	10
3		3	37 ख (राधारमण सरवनी) 57 ख (मुन्नी नानकराम)	अन्य पिछड़ा वर्ग	04
4		4	58 (मंगु नथु) 67 (गीताबाई कवरसिंग)	अनारक्षित	05
5		5	68 (गोदावरी जगदीश) 83 (दशरथ कालु)	महिला अ.जा.	01
6		6	85 (रामसिंग प्रभु) 104 (बिलरसिंग सेवलसिंग)	महिला अ.ज.जा.	05
7		7	105 (मुन्ना लकड़या) 117क (श्यामसुन्दर हेमराज)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	02
8		8	118 (सुरमी पदम) 131 (सुरेश दुलीचंद)	महिला अनारक्षित	02
9		9	133 (प्रहलाद केवल्या) 152(सुरेश दुनीचंद)		
10		10	155 (देवा धुरा) 178 (नमु गबरू)		
11		11	179 (गायत्री शिवशंकर) 196 (प्रेमलता रामसिंग)		
12		12	197 (राजनाथ काशीनाथ) 212 (प्रेमलता रमेशचंद)		
13		13	213 (कमलाबाई बालकृष्ण) 225 (सेठाणी जवारमा)		
14		14	226 (सेठाणी सरीचंद) 240 (हिरा गुरमुख)		
15		15	241 (श्रीकृष्ण दयाराम) 264 क (नरसिंग गणपत)		
16	(गोपालपुरा)	16	1क(सीताबाई शोभाराम) 18 ग (नानकराम धन्नालाल)		
17		17	19 (घिस्या झितर) 35 ग (भुवान भावसिंग)		
18		18	39 (खातुन कालु) 52 (गुरली रातु)		
19		19	53 (मथुरा बाबु) 178 (सत्तार नमा)		
20	(लोन्हरा रतनपुर)	20	1क (नाथु घुघरिया) 2 (अर्जुन औंकार)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	उमरिया	1	1(सरीता रेमसिंग) 17 (भावसिंग धन्या)	अ.जा.	-
2		2	18 (धुधरीबाई भाचरीया) 38 (मालुबाई रीछा)	अ.ज.जा.	20
3		3	39 (सायरीबाई दितल्या) 59/1 (सावित्री जिलरसिंह)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	60 (दुरजन रेंजला) (82 ख (रंछोड़ फुलसिंग)	अनारक्षित	-
5		5	83 (रूपसिंह राधु) 104/1 (छतरसिंह गुटीया)	महिला अ.जा.	-
6		6	105 (मिचा गुटीया) 121/1 (सियागीबाई नारमसिंग)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	124 (कस्सा भदा) 147 (किशन मोती)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	151 (बिशन धन्या) 177 (सिलदार हटिया)	महिला अनारक्षित	-
9		9	178 (रूकमा गोगा) 195 (रूमालिया सुरभान)		
10		10	196 (शोभाराम गन्या) 211 (देवसिंह झमरा)		
11		11	212 (छमबु बहदा) 225 (मसरी भावसिंग)		
12		12	226 (जिरीया गुल्या) 245 (भुली आकसिंह)		
13	(सातपाटी)	13	176 (सन्तु फुलसिंग) 392 क (गाठीया कास्या)		
14		14	393/1 (सकाबाई कालु) 410/1 (भुवानसिंग भायला)		
15		15	412 (कासीराम जामसिंग) 424/3 (जगदीश ज्ञानसिंग)		
16		16	425 (मनी मंगला) 439 (टंटिया जतारिया)		
17		17	441 (आजमी महारिया) 455 (दमडिया अनसिंग)		
18		18	457 (नानसिंह रीछा) 472/1 (मुंगा फेरांग्या)		
19		19	473 (सुकला छेड़िया) 475/6 (वेभलीबाई मद्रास)		
20		20	476 (राहली जामसिंग) 600 (धुगरीया हजारीया)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	खापरजामली	1	1(फुदिया नेवज्या) 21 (चुनीबाई जामा)	अ.जा.	01
2		2	22 (गटु जोगी) 41 (रामसिंग सोमला)	अ.ज.जा.	19
3		3	42 (खुमसिंह कलजी) 68/1 (निम्बा फकरा)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	70 (कुवरसिंह सोमला) 85 (गोविन्द रूघनाथ)	अनारक्षित	-
5		5	86 (तिखला वज्या) 117 (सेकड़ीबाई वालजी)	महिला अ.जा.	-
6		6	118 (मगण्या जेरमा) 604 (आदा फाटा)	महिला अ.ज.जा.	10
7	(रूपगढ़)	7	2 (ठगलीबाई गमरसिंह) 7 (जिरबान बावरीया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	08 (टेमरीबाई भावरिया) 12क (मनस्या चमार)	महिला अनारक्षित	-
9		9	13 (सुडकीबाई नानसिंह) 14 (रामा मनस्या)		
10		10	15 (मिसल राधु) 19 (शंकर आदया)		
11		11	20 (सुभा कोटवाल) 22 (आदल्या मलजी)		
12		12	23 (हुन्या अमास्या) 23 ख (इकु पहाड़िया)		
13		13	24 (सवरिबाई खुमसिंह) 30 (कुसुमाबाई गेंदिया)		
14		14	31 (सोमराबाई सोमारिया) 34 स (चम्पाबाई नेवला)		
15		15	36 (किसन जतू) 40 क (रमीबाई आसाराम)		
16		16	41 (चुनकली डोगरिया) 47 क (रेवलसिंग रामदास)		
17		17	48 व्यापारी रूलजी, 56 (अमास्या नरसिंह)		
18		18	57 (प्यारसिंग रूपसिंग) 64 घ (प्यारसिंग देड़ा)		
19		19	65 (मिसल जामसिंह) 72 ग (जेना कालु)		
20		20	73 (नानल्याबाई माया) 274 (केदली रूमसिंग)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	जामन्यापानी	1	1(मुन्नीबाई ध्यानसिंग) 17 (विश्राम टकल्या)	अ.जा.	01
2		2	18 (सोनाबाई वेस्ता) 30 (रतन अमरसिंग)	अ.ज.जा.	19
3		3	31 कुल्या गुलाबसिंग) 45 (मिट्टु नाटु)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	46 (कालु चेना) 63 (मालीबाई धनसिंग)	अनारक्षित	-
5		5	64 (कालु भाटु) 249/55 (पप्पु लक्ष्मण)	महिला अ.जा.	-
6	(बन्दुर)	6	1 (माली गोरेलाल) 23 (कनसिंग मोटला)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	24 (मनिया मोटला) 36 (जवानसिंग नवलसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	38 (दयाराम सुखलाल) 47 (रामसिंग धनसिंग)	महिला अनारक्षित	-
9		9	48 (मन्या गुलाबसिंग) 61 (भगड़ा धन्या)		
10		10	62 (प्यारसिंग भंगड़ा) 76 (गोरेलाल छगन)		
11		11	77 (मगन भुवानसिंग) 89 क (जामसिंग मंगल्या)		
12		12	90 (सुखलाल वेस्ता) 101 (जेतसिंग मन्या)		
13		13	102 (भुरला चैनसिंग) 109 (मुन्ना केकड़िया)		
14		14	110 (केकड़िया रूखड़िया) 121 (रामा नानसिंग)		
15		15	122 (मदली नानसिंग) 131 (दवलसिंग गजरा)		
16		16	132 (सकरीबाई किसन) 144 (सुनिल कसरीया)		
17		17	145 (लालसिंग रब) 157 (गंगाबाई वेस्ता)		
18		18	158 (खुश्याल भुवानसिंग) 166 (कालीबाई सुमरया)		
19		19	168 भावसिंग वाकला) 179 क (रामसिंग सुकल्या)		
20		20	181 (चुनीबाई नुरा) 187 (नरसिंग खुमान)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	शरड़पुरा	1	1 (हजारीया मोरला) 8/1 (गारबीबाई डकला)	अ.जा.	-
2		2	10 (पिंजारीबाई मंगल्या) 19 (सन्तराबाई चन्दर)	अ.ज.जा.	14
3		3	20 (इन्दरसिंग गुलसिंग) 31 (नानसिंग रायसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	32 (सिरोटीबाई कालु) 38क(रूखड़िया कलरसिंग)	अनारक्षित	01
5		5	41(माहरिया हजारीया) 47 (फदा नुरीया)	महिला अ.जा.	-
6		6	48 (सकरिया मोतिया) 57 (भायसिंग जाकिया)	महिला अ.ज.जा.	07
7		7	58 (बियानसिंह केदा) 71क (हरलीबाई भिमसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	73 (रामदास भीमसिंह) 91क (राकेश रतनसिंग)	महिला अनारक्षित	01
9		9	93 (पुलिया सिंगा) 101क (मुकेश गंगाराम)		
10		10	102 (केना भाचरिया) 114क (कविता भुरसिंग)		
11		11	115 (पेमा जायसिंग) 127 (बजारिया धवल्या)		
12		12	130(लालू ज्ञानसिंग) 143 (सकु नरसिंग)		
13		13	144 जतरीया नरसिंग) 156(कालू बिल्दार)		
14		14	157 (रंगा बिल्दार) 165 (कोटवाल दलु)		
15		15	166 (सकाराम राधु) 278 (सावित्री श्यामलाल)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सरवरदेवला	1	1(गोपाल तोताराम) 16 (गंगाबाई जयराम)	अ.जा.	-
2		2	17 (पंडी जयराम) 25 (रमेश मांगीलाल)	अ.ज.जा.	9
3		3	26 (श्यामीबाई हमीरा) 39 (रमेश रणछोड़)	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	40/1 (श्याम उमेशचन्द्र) 53 (मोत्या दशरथ)	अनारक्षित	4
5		5	54(रामपाल खेमा) 65 (गजरा भंगड़ा)	महिला अ.जा.	-
6		6	66 (हाबड़िया केरीया) 83 (झेतरा रीछु)	महिला अ.ज.जा.	5
7		7	85(रायमल नासरीया) 95 (लीलू नावसिंग)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	98(दीपा देवा) 112 (कमलाबाई गेंदिया)	महिला अनारक्षित	1
9		9	116(शांताबाई मंगत्या) 137 (शांताबाई मांगीलाल)		
10		10	141/1 (भोला प्यारसिंग) 154 (समोतीबाई गुलाब)		
11		11	165(कमली बाई मांगीलाल) 169ख(मारूणीबाई मनिया)		
12		12	171(गणसु दाऊ) 183 (कालू पृथ्वी)		
13		13	185 (राजाराम धर्मा) 196क (गोपाल मेघराव)		
14		14	201(कस्तुरी बाई बुधा) 221क (धनसिंग देवेसिंग)		
15		15	222(रिच्छु नाहला) 233 (नाकु सरदार)		
16		16	235(डुडीबाई सरदार) 260 (गुलाब कालू)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बड़ी	1	1 (मंशाराम नानसिंह) 4 (हाबु मोना)	अ.जा.	1
2		2	4क (भायला हाबु) 20ख (ज्ञानसिंग सोमला)	अ.ज.जा.	17
3		3	21 (काली कुमार) 30च(रेमला तिखिया)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	31 (बाड़ीया देवजी) 36ख(सिलदार आदया)	अनारक्षित	-
5		5	40 (चमार रामसिंह) 51ख (गुरतड़ी ध्यानसिंग)	महिला अ.जा.	1
6		6	51ग (होशियार शंकर) 65ड (पांड्या मनकर)	महिला अ.ज.जा.	8
7		7	66(गारदिया मालजी) 71 (सदाशिव चेंदिया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	72(मोहंगीबाई शंकर) 83 (खुमसिंग वेस्ला)	महिला अनारक्षित	-
9		9	84(भौगड़ा बेसला) 96च (रन्छोड़ जेमाल)		
10		10	97(हरसिंह गुलाब) 106ग (तीरमल हामा)		
11		11	108 (कनी झंझाड़) 118ग (डोंगरसिंह झबरिया)		
12		12	120 (बहारिया खाजन) 125(बना टेटिया)		
13		13	126(ईडा नहारसिंग) 138ग(नेवला भुवानिया)		
14		14	140(अनसिंग भायसिंग) 149ख (हरसिंग रायसिंग)		
15		15	150 (केली हरपाल) 162ख (रेवाराम टुकड़िया)		
16		16	163(खुमा हारसिंग) 176(तेरसिंग नहाला)		
17		17	177 (कलारसिंग नहाला) 194क(सन्तुबाई रेजला)		
18		18	195 (सोमला पहाड़सिंग) 218(सतीबाई रामसिंग)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सिरवेल	1	1(भुवानसिंग धुलसिंग) 26(वलीया गुटीराम)	अ.जा.	-
2		2	27(टकलीबाई तुफान्या) 68(वदीया नवल्या)	अ.ज.जा.	17
3		3	69 (नाथु भूरला) 97 (भुवान गुलाबसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	98 (पदम मंगल्या) 118 (कालु रायला)	अनारक्षित	3
5		5	120 (सुमरसिंग रायला) 146(काल्ली ढपा)	महिला अ.जा.	-
6		6	147(दुलकीबाई सुमसिंग) 171(गुडिया लकड़िया)	महिला अ.ज.जा.	9
7		7	173(पंडया ज्ञानसिंग) 195(खजान गरासिया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	196 (बंजारिबाई भारसिंग) 230(दुरसिंग कोटवाल)	महिला अनारक्षित	1
9		9	231(सोहंगी बाई भावल्या) 255क(हरिनारायण हावसीराम)		
10		10	256 (गुलाबसिंग धनिया) 279क (यशवंतसिंह सुमला)		
11		11	282(लिलीबाई भुमराव) 288ख (सुरंगलीबाई खंडया)		
12		12	289(मंगलसिंग बुधा) 298(रिछा बहादर)		
13		13	299 (कासिराम बहादर) 328(कलाबाई मादु)		
14		14	330(जगन भुरला) 370/1(सुरली डुडवे जिरबान)		
15		15	372(रतनलाल मांगीलाल) 404(उलाली दलसिंग)		
16		16	406(सखाराम सुखलाल) 435(कैलाश बुंदा)		
17		17	436(भिका कन्हैया) 469 (सरस्वती रामलाल)		
18		18	470(कलसिंग वेस्ता) 511क (भावसिंग गटला)		
19		19	512(मांगणीया मांगीलाल) 541/1(कुमायड़ी पहाड़िया)		
20		20	542(साधु भुंडा) 846(जसी गुलामजीया)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	लाहोरपानी	1	1(महांग्या बालू) 15ख(भागिया गरबड़िया)	अ.जा.	-
2		2	16 (सुरसिंह रायमल) 28 ख(सुखा भीमा)	अ.ज.जा.	14
3		3	29(वतिबाई ममिया) 40(दुस्या गणस्या)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	41(झंझाड कुतरिया) 53(लक्ष्मीया धिचला)	अनारक्षित	2
5		5	54(इडा धिचला) 58(नवलसिंह धनसिंह)	महिला अ.जा.	-
6		6	59(डोंगरिया फुन्दिया) 70क (जगदीश कंडिया)	महिला अ.ज.जा.	7
7		7	71(वाहरिया गटु) 86 (टेमरिया हरसिंह)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	87(हरसिंह पडल्या) 96ग (रेवलसिंह दामा)	महिला अनारक्षित	1
9		9	97(शेरसिंह लकड़िया) 104 (कवरसिंह माया)		
10		10	105 (लछा पेमा) 195(गोरेलाल गोपालिया)		
11	बोकरान्या	11	1(बाटी महांग्या) 10ख (नकल्या सोमाजी)		
12		12	11(रावल्या छरिया) 18(जमनाबाई रूपसिंह)		
13		13	19(शुमलीबाई शंकरिया) 25क (दरयाव गुलाब)		
14		14	26(नाना मकन्या 33क (रमेश जामसिंह)		
15		15	34(सरजन कहरिया) 43घ(शुरमीबाई मुन्ना)		
16		16	44(युनुस एडुखान) 55ब(अन्तीबाई रिनिया)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	देवाड़ा	1	0(बिहारी आपसिंग) 40क (पारासिया दलाता)	अ.जा.	1
2		2	46(रूमला गारदोया) 62(चमुबाई लुहार)	अ.ज.जा.	19
3		3	63(रेमा मंगी) 82क(भारत छतरसिंग)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	83 (भुरली बाधु) 106 (रेवलसिंग छतरसिंग)	अनारक्षित	-
5		5	107 (गारदिया मागा) 190(माल धुधरा)	महिला अ.जा.	1
6	(हमीरपुरा)	6	1(मोतिया कनसिंग) 12(केशसिंह गुलसिंग)	महिला अ.ज.जा.	9
7		7	13(नहाला गोठू) 20(फाटिया कारिया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	20क (कनीया नाथु) 29 (रेजला मोटला)	महिला अनारक्षित	-
9		9	30(मोटला मालसिंग) 67(ग्यारसिंग झिंग)		
10		10	69(जामसिंग सुखलाल) 16क (रमबाई रेमस्या)		
11		11	17(थावलीबाई हिरा) 50ख (रेवला मांग्या)		
12		12	12 (रड़ती भोला) 84ख (सुपाराम मंगा)		
13		13	185(भीमसिंग रेजान) 184(गजाबाई दलसिंग)		
14		14	185(जेमाल रूमजी) 208(मुरखिया फूलसिंग)		
15		15	209(कुवरसिंग फुलसिंग) 226क (सुरसिंग बेचाण) क 1(जगदीश डुमसिंग) 2क(राधु दगड़िया)		
16		16	3(विक्रम ईस्मल) 13क (छेंदु मेहताब)		
17		17	14(चंदरसिंग कालु) 27क (गुरज्या साभल)		
18		18	29(बजारिया मालसिंग) 80क (सायबा कुवरसिंग)		
19		19	82(सालम सरदार) 105(झेतरा सुकल्या)		
20		20	106(वेस्टीबाई रामा) 121(अरबातिया मुतरिया)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	गुजरबावड़ी	1	1(रायसिंह हजरिया) 12 (मोजी हिरा)	अ.जा.	1
2		2	12क (झगा टेबड़ा) 29 (ओंकारिया बलासिंग)	अ.ज.जा.	19
3		3	30 (छिन्डा रूमजी) 44(भंगी बरजू)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	45(लालसिंह टेटिया) 56(भिमसिंग गना)	अनारक्षित	-
5		5	57(छतरसिंह शंकर) 68ग(काशिराम मोहन)	महिला अ.जा.	-
6		6	69(हाडगा भंगी) 78(गरासिया वागरिया)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	79(खूमसिंह गरासिया) 90क (इनुबाई गुलाबसिंह)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	91(हदा भुजा) 104(रेशला सुरसिंह)	महिला अनारक्षित	-
9		9	105(मांगीलाल विट्ठल) 118ख (संजु भिकला)		
10		10	126(कनसिंह सुखराम) 139(भारतसिंह धुंधरिया)		
11		11	140(छतरसिंह धुंधरिया) 157(सादखा सानिया)		
12		12	158 (भायड़ा भलजी) 163(डुडिया भलजी)		
13	(गुमठा)	13	1(रायसिंह फुलसिंह) 18 (मंगलसिंह गिलदार)		
14		14	19(चिरकली हाडगा) 35 (भाया नारायण)		
15		15	36 (धुधरा नानाजी) 46 (खुमानसिंह वेस्ता)		
16		16	47 (रेमसिंह जिगला) 62(सुखलाल भावला)		
17		17	63(गजराबाई रणछोड़) 74(शेरसिंह भिमा)		
18		18	75(रामेश्वर भीमा) 72 (शांतिलाल गगलिया)		
19		19	97 (दगड़िया रायमल) 125 (गिलदार भूरला)		
20		20	127 (राया केनिया) 191 (दुरसिंह हाडगा)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सुखपुरी	1	1(भारती महेन्द्र) 17 (पारू अमरसिंह)	अ.जा.	1
2		2	18(कोलूसिंह बोंदर) 39(बसंती चम्पालाल)	अ.ज.जा.	17
3		3	40(तेजू सरदारसिंह)57 (दशरथसिंह रणछोड़)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	58(गुलाबसिंह फत्तिसिंह) 82ख(राजाराम मुकुटसिंह)	अनारक्षित	2
5		5	83 (गिरीवरसिंह मुकुटसिंह) 100(राजाराम गोपालसिंह)	महिला अ.जा.	1
6		6	101(समोती रामलाल)122(घुसाई हगरू)	महिला अ.ज.जा.	9
7		7	123(दगडु हगरू) 145ख(प्रतापसिंह दशरथ)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	146(पर्वतसिंह एडु) 167घ(मंगलसिंह दरियावसिंह)	महिला अनारक्षित	1
9		9	168 (काशिराम राधु) 176ग (पिदिया हरिया)		
10		10	177(रतमसिंह जायमल) 193(कहारसिंह रूखड़िया)		
11		11	194(बिलोरसिंह रूखड़िया) 201क (रूपसिंह वन्या)		
12	चरीपुरा	12	1(फुलसिंह सुरबान) 9 (मंगली बाई सोमारिया)		
13		13	10(चेलका हाबजी) 23 (गुलाबसिंह फुलसिंह)		
14		14	24(रूमजी जामसिंह) 31(नासरीया वहादरिया)		
15		15	32(गारचीबाई हागरीया) 42 (अमनाबाई पुटिया)		
16		16	43(किशन अनजिया) 54क(बिन्दाबाई दुर्गा)		
17		17	55(हजारिया भंगी) 65क (नानला करला)		
18		18	66(भायला रलका) 92क (रेहदीबाई किशन)		
19		19	183(भावला रामसिंह) 191(तेलस्या रामसिंह)		
20	नया बिलवा	20	139(रायसिंह शंकर) 153क (हयाबाई जामा)		

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	जलालाबाद	1	0(श्यामा भुवानसिंह) 11(ज्ञानसिंह फुलसिंह)	अ.जा.	1
2		2	12(ईडा नानसिंह) 21 (हादलीबाई रतला)	अ.ज.जा.	19
3		3	22(ईलामसिंह खजान) 27(नटड़या सुरबान)	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
4		4	28(गंगलीबाई वेरसिंह) 36 (कलसिंह सिगदार)	अनारक्षित	-
5		5	37(हरदास बीरू)45क(बुटीबाई हाबू)	महिला अ.जा.	-
6		6	46(रायसिंह दलसिंह) 54(तान्या भगा)	महिला अ.ज.जा.	10
7		7	55(रेमसिंह भगा) 67 (पुन्या सुरमया)	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	-
8		8	68(बनीबाई सीमा) 107 (संगीता रूसीसिंह)	महिला अनारक्षित	-
9	(महादेव पड़ावा)	9	1(कमलाबाई हरिशरण) 12 (बुटीबाई ईलामसिंह)		
10		10	13(धनसिंह नूरजी) 23(ध्यानसिंह राहदया)		
11	(लिपनीता)	11	24(सकरीबाई सुरसिंह) 33(भुवानसिंह हासल्या)		
12		12	35(हरदास शंकर) 45क (सिलदार डोगरसिंह)		
13		13	46(झंझाडु तेलस्या) 56 (रामलाल रलसिंह)		
14		14	57(भीमसिंह जालम) 61(रेसला पहाड़सिंग)		
15		15	62(गुलसिंह रजान) 66(घुसाई मोरसिंह)		
16		16	67(भावसिंह मोरसिंह) 76(तारया नगया)		
17		17	77(कासीराम चमारसिंह) 92(अंतरसिंह भावसिंह)		
18	(आमसरी)	18	1(वाकलीबाई धुंधरिया) 5 (शेरसिंह हैदरिया)		
19		19	06(हिरालाल गटल्या) 19ख(भिनीबाई अमरसिंह)		
20		20	21(दुरसिंह कालू) 28 (भायला गंगाराम)		

ग्राम पंचायत,
परिशिष्ट-5(अ)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
1	बाकानेर	1	बाकानेर	1	भीमसिंह धन्नालाल	से 19क	बाबु दामा	अ.जा.	0
		2	बाकानेर	20	प्रमुबाई शोभान	से 34क	गुजरा गुलाब	अ.ज.जा.	20
		3	बाकानेर	35	सुंदरबाई भावला	से 49क	बिरजा गुजरा	पि. वर्ग	0
		4	बाकानेर	50	मिट्टु गोविन्दा	से 61क	गजु सुरजा	अनारक्षित	0
		5	बाकानेर	62	बाबुलाल शंभु	से 68ख	बसंती रामसिंह	अ.जा. महिला	0
		6	बाकानेर	69	केशरिया देवा	से 75	सदुबाई अमरिया	अ.ज.जा. महिला	10
		7	बाकानेर	76	सुकराम दगडीया	से 89	पालसिंह बिसनसिंह	पि.वर्ग महिला	0
		8	बाकानेर	90	चुनाबाई हागरिया	से 102	जगन थावरिया	अनारक्षित महिला	0
		9	भवनतलाई	1	बिलमण दुबल्या	से 12	नानुराम नागरिया		
		10	भवनतलाई	13	मुन्नीबाई मांगीलाल	से 28	गेंदु मन्ना		
		11	भवनतलाई	29	घेघरिया भिमा	से 42	राजाराम बुदा		
		12	भवनतलाई	43	गुलकाबाई हारिया	से 54	पुन्या गणपत		
		13	भवनतलाई	55	रामा गणपत	से 64क	केशरसिंह गट्ट्या		
		14	हेलाबाबर	1	मंगल्या रूघनथ	से 9	महादेव श्रवण		
		15	हेलाबाबर	10	बामजा झक्या	से 28	जामसिंह हरचंद		
		16	हेलाबाबर	29	अमरिया जावरीया	से 39	गंगाराम भिलीया		
		17	हिण्डोलामवाडी	1	घेघरिया नागिया	से 12	सावित्रीबाई बद्री		
		18	हिण्डोलामवाडी	13	बिरजा गणस्या	से 25	गुलकाबाई जामा		
		19	हिण्डोलामवाडी	26	देवकरण नानिया	से 45	मुन्ना हजारीया		
		20	हिण्डोलामवाडी	46	कमलीबाई हजारी	से 51	बदरिया नरसिंह		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
2	कुसुम्भ्या	1	कुसुम्भ्या	1	मोत्या सुक्या	से 18	सकाराम गुजरा	अ.जा.	0
		2	कुसुम्भ्या	19	मेनाबाई मालया	से 31	मोहन दयाराम	अ.ज.जा.	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
कुसुम्भ्या	3	कुसुम्भ्या	32	बुदीबाई मन्जा	से 44क	पुन्जा बागजी	पि. वर्ग	0
	4	कुसुम्भ्या	45	अम्बाराम मकुन्द	से 54	जानकीबाई राजला	अनारक्षित	0
	5	कुसुम्भ्या	55	गुलाका शोभाराम	से 72क	सुकरिया दरियाव	अ.जा. महिला	0
	6	कुसुम्भ्या	72/क	सीताराम दरियाव	से 85/क	रामदयाल कुतरिया	अ.ज.जा. महिला	10
	7	कुसुम्भ्या	87	किशन सीताराम	से 99	चम्पालाल तेरिया	पि. वर्ग महिला	0
	8	कुसुम्भ्या	100	छगन मंगु	से 131	सचिन रंगलाल	अनारक्षित महिला	0
	9	कुसुम्भ्या	132	लक्ष्मण शंकर	से 117	रमेश भेरिया		
	10	कुसुम्भ्या	118	चन्दाबाई सुमरिया	से 138	हरेसिंग मगु		
	11	कुसुम्भ्या	139	राजराम नत्थु	से 152	देवीसाज मोहनलाल		
	12	नीमगढ	1	नानका मंग्या	से 20	बाबु शोभान		
	13	नीमगढ	21	गणेश सीताराम	से 42	गोपाल भिल्या		
	14	बड़ा भेडल्या	1	सीताबाई तेरसिंग	से 29	करण मोहन		
	15	बड़ा भेडल्या	32	संजय राजाराम	से 88	हागदिया पुना		
	16	बड़ा भेडल्या	89	नंदराम मालसिंग	से 104	पुना मांग्या		
	17	बड़ा भेडल्या	105	शंकर गोपाल	से 122	अम्बाराम छत्रेटीया		
	18	छोटा भेडल्या	1	लक्ष्मण छोग्या	से 31	गुजरा नान्या		
	19	छोटा भेडल्या	32	भाग्या हागरिया	से 46	भागवान बाल्या		
	20	छोटा भेडल्या	47	प्रताप नंदराम	से 62	कैलाश सुका		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
3	काकडदा	1	काकडदा	1	नानुराम नंदरामजी	से 9	मोरसिंह भीमा	अ.जा.	2
		2	काकडदा	10ख	सुरेश तोरसिंह	से 22	सुगराबी मम्मूशह	अ.ज.जा.	9
		3	काकडदा	25	लक्ष्मण नराण	से 42	कदीर बशीर	पि. वर्ग	2
		4	काकडदा	43	सलमुद्दीन यासीन	से 56	सीताराम सावत्या	अनारक्षित	4
		5	काकडदा	57	नानुराम तेरसिंह	से 71	रफक सलीम	अ.जा. महिला	1
		6	काकडदा	71क	जाकीर नतु	से 85	हनीफ रमजान	अ.ज.जा. महिला	5
		7	काकडदा	86	बाबु लालमोहम्मद	से 94	प्रकाश बाबुलाल	पि.वर्ग महिला	1
		8	काकडदा	95	हसबुल बुदुदु	से 110	बिसमिल्ला हुसैन	अनारक्षित महिला	2
		9	काकडदा	114	किशन गंगाराम	से 135	मुमताज आबिद		
		10	काकडदा	136	मंसुर फकीरमोहम्मद	से 150	मंगतीबाई देवकरण		
		11	काकडदा	151	नत्थुलाल सखाराम	से 169	अल्लाबक्ष अमीर		
		12	काकडदा	170क	फकीरा बुरान	से 190	कमलेशबाई कालुराम		
		13	काकडदा	193	साबुद्दीन बशीर	से 206	मोहन सुलसीराम		
		14	काकडदा	207	गुलाबनबी बाबु	से 228क	काना चैन्या		
		15	काकडदा	229	नानुराम गुलाब	से 243च	दिनेश कनीराम		
		16	काकडदा	244क	मयाराम सीताराम	से 257	मांगीलाल रामसिंह		
		17	काकडदा	257ख	अनिता प्रकाश	से 267ख	फकीरा भिकारी		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
4	मक्षी	1	मक्षी	1	रश्मिबाई भोल्या	से 15	राजाराम राल्या	अ.जा.	0
		2	मक्षी	16	मोल्या गंगाराम	से 30	तेरसिंग गुट्या	अ.ज.जा.	13
		3	मक्षी	31	नरसिंग गुट्या	से 42	कलाबाई कड़वा	पि. वर्ग	0
		4	मक्षी	45	शांताबाई भरत	से 54	दशरथ झरवर	अनारक्षित	3
		5	मक्षी	55	रामसिंग कन्हैया	से 63	नकलबाई झामरिया	अ.जा. महिला	0
		6	मक्षी	64	अमरिया गणपत	से 97	जगन मोरसिंग	अ.ज.जा. महिला	7
		7	मक्षी	98	मैनाबाई रामा	से 116	सिताराम सुखराम	पि.वर्ग महिला	0
		8	मक्षी	117	सुरजाबाई बाबु	से 135	रंगाबाई गेड़िया	अनारक्षित महिला	2
		9	मक्षी	136	गजु गोदिया	से 149	गजरा माल्या		
		10	मक्षी	151	मयाराम माल्या	से 166	अमरसिंग बेल्या		
		11	मक्षी	167	अम्बाराम बेल्या	से 184	केवलया रणजित		
		12	मक्षी	185	राजु केवलया	से 198	नागरिया लालजी		
		13	मक्षी	199	दुलिचंद लालजी	से 218	विरमा सावता		
		14	मक्षी	219	प्रहलाद किरमा	से 236	मदन मानिसंग		
		15	मक्षी	237	गोवर्धन मानिसंग	से 250	रामा दासु		
		16	मक्षी	251	तारिया	से 256घ	कालु शोभाराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
5	मेलखेडी	1	मेलखेडी	1	गयाप्रसाद अंबिका प्रसाद	से 13ख	ममता पुनमचंद	अ.जा.	0
		2	मेलखेडी	13ग	हिरासिंग सुरेश	से 33क	अनारसिंह बाबुसिंह	अ.ज.जा.	15
		3	मेलखेडी	33ख	गंजाबाई गेंदालाल	से 46	अवन्ताबाई अनारसिंह	पि. वर्ग	0
		4	मेलखेडी	47	भगाबाई बाबुसिंह	से 62	राजाराम पुन्या	अनारक्षित	1
		5	मेलखेडी	63	हिरीया राल्या	से 80	काना नरसिंह	अ.जा. महिला	0
		6	मेलखेडी	81	राजाराम बरसिंह	से 100	थावरिया दावजी	अ.ज.जा. महिला	8
		7	मेलखेडी	101	कालु मोरसिंह	से 167	देवकीबाई महेश	पि.वर्ग महिला	0
		8	मोहिदा	1	दलु रूगनाथ	से 18	सजनसिंह टफटाजी	अनारक्षित महिला	1
		9	मोहिदा	19	डोडाबाई ओंकार	से 34	किशन अमरसिंह		
		10	मोहिदा	35	नदानबाई शंकर	से 45	सुखलाल मकुन्द		
		11	मोहिदा	46	कमलाबाई घिस्या	से 55	मडुबाई रूखड़ीया		
		12	मोहिदा	57	कमलाबाई हरिनारायण	से 70	सुमनबाई नंदराम		
		13	मोहिदा	71	सुखराम सुरज्या	से 79	आशाराम श्यामा		
		14	मोहिदा	80	कालु गोपाल	से 90	रसुबाई बनसिंह		
		15	मोहिदा	91	राधेश्याम बोंदर	से 100	सावित्रीबाई दिल्या		
		16	मोहिदा	101	मनोहर हागरिया	से 120	कालीबाई सुखराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
6	सेल	1	सेल	1	सेतुल मोना	से 10	पोपसिंह जगन	अ.जा.	0
		2	सेल	11	चंदाबाई गबरू	से 19	रंगाबाई बिल्लु	अ.ज.जा.	18
		3	सेल	20	गोवरधन नाथ्या	से 30	नानुराम रूपाला	पि. वर्ग	0
		4	सेल	31	मंगल्या रूपला	से 47	शंकर राजाराम	अनारक्षित	1
		5	सेल	48	रतनसिंग प्रताप	से 59	शोभाराम नागरीया	अ.जा. महिला	0
		6	सेल	60	गोविंद नागरिया	से 70	उदिया दवेला	अ.ज.जा. महिला	9
		7	सेल	71	काल्या शोभान	से 83	मोहन बिरबल	पि.वर्ग महिला	0
		8	सेल	85	नानुराम पण्डु	से 96	गंगाराम बुदिया	अनारक्षित महिला	1
		9	सेल	97	सीताराम बुदिया	से 112	भागु बुदिया		
		10	सेल	113	अमरिया दलसिंग	से 125	रूपसिंह रावा		
		11	सेल	126	फुलिया दामा	से 140	भगत मोरसिंह		
		12	सेल	141	गबरू मोरसिंग	से 153	राधेश्याम धिसाजी		
		13	सेल	154	मोहन डालुराम	से 197	महेश जग्गु		
		14	टेमरिया	1	कैलाश पण्डु	से 14	रूगनाथ गोपाल		
		15	टेमरिया	15	नानुराम रूगनाथ	से 31	शोभाराम देवला		
		16	टेमरिया	32	पण्डु देवला	से 46	मोरसिंग दीतिया		
		17	टेमरिया	47	कैलाश फतिया	से 66	लिम्बा मुलिया		
		18	टेमरिया	67	गंगाराम उमराव	से 88	गंगाराम प्रताप		
		19	टेमरिया	89	दरियाव प्रताप	से 99क	गुंदा कल्याण		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
7	आशापुर	1	आशापुर	1	हारीलाल रंगलाल	से 42	सुखडिया रामसिंह	अ.जा.	0
		2	आशापुर	43	कन्हैया झावरिया	से 71	सौदानसिंह निर्भयसिंह	अ.ज.जा.	18
		3	आशापुर	72	सुरेशसिंह भूरुसिंह	से 111	अन्नुबाई बदरिया	पि. वर्ग	0
		4	आशापुर	112	हरचंद बदरिया	से 152	बाबु विकरू	अनारक्षित	2
		5	आशापुर	153	पुंजा सावल्या	से 181	प्रेमा रामसिंह	अ.जा. महिला	0
		6	आशापुर	182	दयाराम रामसिंह	से 215	भुवानीराम हिरालाल	अ.ज.जा. महिला	9
		7	आशापुर	216	गोदावरी राजाराम	से 250	काशीराम मांगीलाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	आशापुर	251	गेंदासिंह बाबुसिंह	से 296	भागीरथ मांगीलाल	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9	आशापुर	298 आशाराम निल्या	से 335	कालुसिंह चंदरसिंह
	10	आशापुर	336 कोलसिंह धनसिंह	से 354	कालुसिंह बाबुसिंह
	11	आशापुर	355 ओंकारसिंह तेरसिंह	से 381/1	शकुंतला खडकसिंह
	12	आशापुर	384 बोंदरसिंह ओंकारसिंह	से 419	सीमाबाई सुभाष
	13	आशापुर	423 मंग्या माल्या	से 448	पण्डु भीमा
	14	आशापुर	449 नन्नु रूघनाथ	से 475	नन्नु नाथ्या
	15	आशापुर	477 सिताराम पुन्या	से 511	डालुराम बाबु
	16	आशापुर	512 राजाराम नरसिंग	से 534	ओंकार परसराम
	17	आशापुर	535 नन्दु धन्नालाल	से 974ख	अवन्ति आशाराम
	18	मनावर	1 लक्ष्मण झामसिंग	से 19	भागाबाई नान्का
	19	मनावर	20 सरवण गणपत	से 86क	विरेन्द्र हरि
	20	राबडघाटी	1 अमरसिंह भिक्या	से 18	मोहन तेरसिंह

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
8	कांकरिया	1	कांकरिया	1 बुदिया थावरिया	से 13	ज्ञानचंद दयाराम	अ.जा.	2	
		2	कांकरिया	14 देवराम बोंदर	से 28	जयराम उमाशंकर	अ.ज.जा.	8	
		3	कांकरिया	29 पुभुराम दयाराम	से 44	रमेश विश्राम	पि. वर्ग	2	
		4	कांकरिया	45 सरसतबाई विश्राम	से 58	हरेसिंह नत्थु	अनारक्षित	4	
		5	कांकरिया	59 कोलाबाई कालु	से 75	लीलाबाई कालु	अ.जा. महिला	1	
		6	कांकरिया	76 भमर पुन्या	से 87	कैलाश गुलचंद	अ.ज.जा. महिला	4	
		7	कांकरिया	88 रामु गुलचंद	से 102	चन्दु मांगीलाल	पि.वर्ग महिला	1	
		8	कांकरिया	103 बाबु कवरा	से 123	गंगाराम बाबु	अनारक्षित महिला	2	
		9	कांकरिया	124 गंगाराम गोविन्द	से 147	नारायण नाज्या			
		10	मिर्जापुर	1 कालु बाबु	से 16	कन्हैया बाबुलाल			
		11	मिर्जापुर	17 बाबुलाल जगन्नाथ	से 26	शकुंतलाबाई लखनलाल			
		12	मिर्जापुर	27 गुलाबबाई हरेसिंह	से 36	रामनारायण मांगीलाल			
		13	मिर्जापुर	37 पुनीबाई रामा	से 52	राजाराम लक्ष्मण			
		14	मिर्जापुर	53 रमेश लक्ष्मण	से 61झ	छगन हरजा			
		15	मिर्जापुर	62 छोगालाल भिल्या	से 74	हरिया रूगनाथ			
		16	मिर्जापुर	75 पुजा गप्पु	से 90	जितेन्द्र तारचंद			

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
9	करोली	1	करोली	1	रुगनाथ रामा	से 15/1	भागवती शांतीलाल	अ.जा.	3
		2	करोली	16	कालु जगन्नाथ	से 40	राजनाथ कालु	अ.ज.जा.	8
		3	करोली	41	मोहन भग्या	से 75	गंगाराम छोगालाल	पि. वर्ग	0
		4	करोली	76	गोरा छोगालाल	से 98	लीला रमेश	अनारक्षित	4
		5	करोली	101	गोविन्द उरजन	से 127	मोहन बालु	अ.जा. महिला	2
		6	करोली	128	राधेश्याम बालु	से 148	विठठल मायाराम	अ.ज.जा. महिला	4
		7	करोली	152	भगवान भिलूसिंह	से 171	गणेश धन्नालाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	करोली	172	मनोहर बाबूलाल	से 198	भुवानीराम बालमुकुन्द	अनारक्षित महिला	2
		9	करोली	199	रेवाराम भंवरजी	से 225/क	दीनेश राजाराम		
		10	करोली	228	अम्बाराम सीताराम	से 253	नन्नु नारायण		
		11	करोली	254	जगदिश बाबुलाल	से 273क	कालु भगवान		
		12	करोली	275	रमेश तुलसीराम	से 295	आनंदराम बीसन		
		13	करोली	296	महेश मुलचंद	से 313	काशीराम कालु		
		14	करोली	314	चेन्या कालु	से 332	बिहारी भील्या		
		15	करोली	333	अंबाराम सोम्मार	से 352	भीमसिंह देवीसिंह		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
10	ईटावदी	1	ईटावदी	1	गीताबाई जोगीलाल	से 24	जयराम नानुराम	अ.जा.	3
		2	ईटावदी	28	कल्लु दित्तीया	से 45	भागीरथ भगल्या	अ.ज.जा.	10
		3	ईटावदी	46	श्रीराम नारजी	से 60	लुंजा रमेश	पि. वर्ग	2
		4	ईटावदी	61	नत्थु रूपसिंग	से 87	राजाराम पुज्या	अनारक्षित	5
		5	ईटावदी	88	कैलाश बाबुलाल	से 112	दौलत कालु	अ.जा. महिला	2
		6	ईटावदी	112क	कन्हैया सीताराम	से 169	गोताबाई हुकुम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	ईटावदी	173	किशोर रूखड़ीया	से 187	कस्तुरीबाई फत्तु	पि.वर्ग महिला	1
		8	ईटावदी	188	राजेश ताराचंद	से 205ख	बाजरीबाई काशीनाथ	अनारक्षित महिला	3
		9	ईटावदी	207	धन्नालाल मांगीलाल	से 235	संजय नंदकिशोर		
		10	ईटावदी	236	गणेश बाउ	से 260	परमानंद मौजिराम		
		11	ईटावदी	261	महादेव प्रभुराम	से 275	गणेश नैनसिंह		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	ईटावदी	12	ईटावदी	276	मांगीलाल दामाजी से 288	भगवान रामलाल
		13	ईटावदी	289	जगदीश सुरेश से 307	तुलसीराम गंगाराम
		14	ईटावदी	308	गुलाबचंद सीताराम से 327	कुष्णलाल शोभाराम
		15	ईटावदी	328	भुवानीराम गंजा से 339ख	सुनिल प्रेमचंद
		16	ईटावदी	340	त्रिलोकचंद ठाकुर से 359	कमल शेरू
		17	ईटावदी	361	प्रहलाद भिल्या से 387	कुसुमबाई राजा
		18	ईटावदी	388	सुरेन्द्र दयाराम से 417	कन्हैया उमराव
		19	ईटावदी	418	बाबु घिस्या से 446/3	विक्रम घनश्याम
		20	ईटावदी	454	कृष्णलाल नत्थु से	अंत तक

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
11	मातमुर	1	मातमुर	1	रामा पुन्जा	से 18	रुखड़ीया कालुराम	अ.जा.	3
		2	मातमुर	18क	कालुराम फत्तु	से 35	भुरीबाई मांगीलाल	अ.ज.जा.	10
		3	मातमुर	36क	मयाराम नग्या	से 52	सुरज किशन	पि. वर्ग	2
		4	मातमुर	53क	रंगीबाई बिसन	से 63छ	धमेन्द्र सीताराम	अनारक्षित	5
		5	मातमुर	65ख	कैलाश जगन्नाथ	से 90	मनोहर बाबुलाल	अ.जा. महिला	2
		6	मातमुर	90क	गोगलबाई जगन्नाथ	से 109	करण मांगीलाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	मातमुर	112	हरि चम्पालाल	से 132	नरसिंग मांगीलाल	पि.वर्ग महिला	1
		8	मातमुर	133	ओंकार रघुनाथ	से 168	मांगीलाल फत्तु	अनारक्षित महिला	3
		9	मातमुर	109	जगड्डु फत्तु	से 190क	पुनीबाई ओंकार		
		10	मातमुर	190ख	शंकर ओंकार	से 204क	गुल्या शोभाराम		
		11	मातमुर	205	सेवकराम जगन्नाथ	से 277	दिनेश नानुराम		
		12	चक मातमुर	1	जयमल बालु	से 262	रमेश बुदिया		
		13	चक मातमुर	264	कन्हैया गप्पु	से 277	हंसराज गुलाब		
		14	बडवी	1	पुन्या झाझरिया	से 21	हुकुमचंद सुखराम		
		15	बडवी	22	राजाराम दगड़ीया	से 40	निरभय मोयन्या		
		16	बडवी	41	मंशीया केकड़ीया	से 66	नाराण सुक्या		
		17	बडवी	67	कालिया सुक्या	से 87	मोतिलाल सम्भु		
		18	बडवी	88	मंगलसिंह गेंदालाल	से 106	हिरालाल भगवान		
		19	बडवी	108	फकिरा चुन्नीलाल	से 130	तोताराम बसल		
		20	बडवी	131	गजराबाई तुलसीराम	से 146	लक्ष्मीनारायण घिसालाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
12	जलकोटा	1	जलकोटा	1	रूपसिंह मकुन्द	से 16	गणेश शिवराम	अ.जा.	5
		2	जलकोटा	17	सुरेन्द्र सिंह	से 38	कडवा गेंदालाल	अ.ज.जा.	9
		3	जलकोटा	39	केशिया किशन	से 54	तारा बाला	पि. वर्ग	0
		4	जलकोटा	57	सावित्री बाबु	से 78	प्रकाश राजाराम	अनारक्षित	3
		5	जलकोटा	79क	आनंदीबाई	से 88ख	जगदीश दलाजी	अ.जा. महिला	3
		6	जलकोटा	88ग	मोहनसिंह	से 101	रामा मकुन्द	अ.ज.जा. महिला	5
		7	जलकोटा	103	धनसिंह मकुन्द	से 120	मंगुसिंह अमरसिंह	पि.वर्ग महिला	0
		8	जलकोटा	121	नारायण बोखार	से 140	रामा मोत्या	अनारक्षित महिला	2
		9	जलकोटा	141	जातिबाई	से 165	शिवराम छितु		
		10	जलकोटा	165क	धन्नालाल	से 183	लक्ष्मण सुक्या		
		11	जलकोटा	185	रणछोड़ सुक्या	से 200	हरि हिरालाल		
		12	सेमल्दा	1	साहेबसिंह	से 11	श्यामसिंह धुसाई		
		13	सेमल्दा	12	दुर्गाबाई हिम्मत	से 29	पहाड़सिंह सिकदार		
		14	सेमल्दा	30	हरिकुवर बाई	से 45क	कालु मोत्या		
		15	सेमल्दा	45ख	मदन भागीरथ	से 63/1	अम्बाराम दयाराम		
		16	सेमल्दा	63	ताराचंद सखाराम	से 88	शिवराम मगल्या		
		17	सेमल्दा	89	दगडुसिंह मानसिंह	से 167ख	कालु शोभाराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
13	खराडी	1	खराडी	1	रामेश्वर मांगीलाल	से 16क	ज्ञानचन्द मोहनलाल	अ.जा.	4
		2	खराडी	17	सीताराम दयाराम	से 37	शांतीलाल राजाराम	अ.ज.जा.	10
		3	खराडी	37क	मांगीलाल गुमान	से 54	मनोहर भुवानीसिंह	पि. वर्ग	1
		4	खराडी	55	गजराज धनसिंग	से 66	गिरधारी तुकाराम	अनारक्षित	5
		5	खराडी	68	गोवर्धन देसीसिंग	से 83	राजेसिंह छितुसिंह	अ.जा. महिला	2
		6	खराडी	84	टिकम छितुसिंह	से 98	मांगीलाल लक्ष्मण	अ.ज.जा. महिला	5
		7	खराडी	99	कलाबाई मोहब्बत	से 116	कस्तुरीबाई देवचन्द	पि.वर्ग महिला	1
		8	खराडी	118	गोविन्द देवचन्द	से 138	अम्बाराम शंकर	अनारक्षित महिला	3
		9	खराडी	139	काशीबाई बोखार	से 165	दयाराम सुकलाल		
		10	खराडी	166	नानुराम सुखलाल	से 186	कैलाश तुकाराम		
		11	खराडी	187	चैनसिंग घिसाजी	से 218	सीताराम परसराम		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		12	मातन्दा	1	मिसरबाई रूकडिया	से 27	राम्या सुक्या
		13	मातन्दा	28	रूपसिंह कालु	से 54	मंगाबाई रामचन्द्र
		14	मातन्दा	55	गीताबाई कमा	से 73	तुकाराम सुक्या
		15	मातन्दा समस्तपुर	73क	भाईराम दगडिया	से 88	नन्नु गावड
		16	जलकोटी	1	राजकुंवर रामलाल	से 156	सिंग्या शंकर
		17	जलकोटी	157	कैलाश रामलाल	से 184	भागीरथ उमराव
		18	जलकोटी	185	मंगत रणछोड	से 205	नन्दराम बाबुलाल
		19	जलकोटी	206	मगन गुलाब	से 225	राम रूखडिया
		20	जलकोटी लिम्बाडिट.	226	शेरू करणसिंह	से 246	अंत तक

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
14	महेतवाडा	1	महेतवाडा	1	पप्पु रामा	से 35	हरि पुनिया	अ.जा.	3
		2	महेतवाडा	37	रतन देवा	से 75/3	रोशनी राजेश	अ.ज.जा.	10
		3	महेतवाडा	76	जगदीश शंकर	से 86/1	सुभाष दयाराम	पि. वर्ग	2
		4	महेतवाडा	87	श्याणीबाई भगवान	से 99	गणेश खुश्याल	अनारक्षित	5
		5	महेतवाडा	100	लक्ष्मीबाई हरिशचन्द्र	से 128	गोपाल बालुजी	अ.जा. महिला	2
		6	महेतवाडा	129	भगवान फत्तु	से 153	गुलाब मांगीलाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	महेतवाडा	154	सुशिला भोलु	से 184	दुर्गा रमेश	पि.वर्ग महिला	1
		8	महेतवाडा	185	नानुराम मंगल्या	से 219	रासिंग मंगल्या	अनारक्षित महिला	3
		9	महेतवाडा	220	रमेश शिवा	से 237	मानसिंह धन्नालाल		
		10	महेतवाडा	238	जमनाबाई सिगदार	से 262	कमला कोला		
		11	महेतवाडा	263	मुकेशस बाल्या	से 288	बसंती गजानंद		
		12	महेतवाडा	289	मिसरी मंशाराम	से 412	महेश छग्गु		
		13	बडा	1	रामचन्द्र छितु	से 27	मोरसिंह पुना		
		14	बडा	29	गणेश सुकरिया	से 58	रवि चन्द्रसिंह		
		15	बडा	58/1	मोखैसिंह नारायण	से 78/2	धनपाल दौलसिंह		
		16	बडा	79	धनसिंह बिहारी	से 109/2	सुखदेव चम्पालाल		
		17	बडा	111	सोना कन्हैया	से 129क	बोंदरिया मोहना		
		18	गवला	1	जानकीदास महाराज मांगीलाल.	से 23	राधा भगवान		
		19	गवला	24	फत्तु लीमजी	से 48	चंदर काना		
		20	बरडिया	1	पेमा नत्थु	से 12	प्रभु हिरालाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
15	मोहना	1	मोहना	1	मोहन अमरसिंह	से 18	पार्वति जगन्नाथ	अ.जा.	3
		2	मोहना	20	केदारसिंह दौलत	से 51	लाखमिचंद नरसिंह	अ.ज.जा.	10
		3	मोहना	57	मुकेश बोंदर	से 83	हुकुमचंद परसराम	पि. वर्ग	2
		4	मोहना	84	रामेश्याम चंपालाल	से 108	नत्थुसिंह बालुसिंह	अनारक्षित	5
		5	मोहना	110	नैनसिंह मांगीलाल	से 129	बलराम बाबुलाल	अ.जा. महिला	2
		6	मोहना	130	अंतर बागो	से 172	रतन मांगीलाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	मोहना	173	शोभाराम ठाकुर	से 196	भावसिंह देवला	पि.वर्ग महिला	1
		8	मोहना	197	दशरथ जोग्या	से 220	नत्थु चंदराम	अनारक्षित महिला	3
		9	मोहना	221	भगवान नंदराम	से 229	रमेश रामसिंह		
		10	मोहना	229	गिरवर हजारिया	से 254	भीमसिंह बाबु		
		11	मोहना	257	राजु देवसिंह	से 279	निभर्यसिंह सुखदेव		
		12	मोहना	279	क गवराबाई शिवराम	से 299	भग्गु मिथिलाल		
		13	मोहना	299	क काल्लु मिश्रिलाल	से 325	सुखलाल मगल्या		
		14	मोहना	325	क भारत बाबु	से 349	मांगलसिंह नवलब्या		
		15	मोहना	350	गजानंद नवलया	से 365	रामा मांगल्या		
		16	समसपुरा	1	महादेव राजाराम	से 35	रामेश्वर शंकर		
		17	समसपुरा	36	महादेव शंकर	से 71	उमराव नत्थु		
		18	समसपुरा	72	गोबरिया शंकर	से 97	सौभग बाल्या		
		19	समसपुरा	99	बाबु रघुनाथ	से 118	अम्बाराम नत्थु		
		20	समसपुरा	120	कन्हैया लक्ष्मण	से 166	ख कन्हैया सुक्रिया		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
16	बडवेल	1	बडवेल	1	गोविन्द सेवला	से 13	देवला मुलचन्द	अ.जा.	2
		2	बडवेल	14	गीताबाई गंगाराम	से 31	अमीचन्द गप्पू	अ.ज.जा.	10
		3	बडवेल	32	अमरसिंह कान्जा	से 58/1	पवनसिंह भारतसिंह	पि. वर्ग	3
		4	बडवेल	59	कालू सुखलाल	से 72	दयाबाई भुक्कण	अनारक्षित	5
		5	बडवेल	73	श्री राम मांगीलाल	से 82	शिवनारायण हीरालाल	अ.जा. महिला	1
		6	बडवेल	83	सरस्वतीबाई बालुजी	से 91/3	गीताबाई बालाराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	बडवेल	92	रमेश रणछोड	से 111/3	हरिशचन्द्र परसराम	पि.वर्ग महिला	2
		8	बडवेल	112	छननालाल चम्पालाल	से 121	ज्ञानचन्द रेवाजी	अनारक्षित महिला	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	बडवेल	9	बडवेल	122	राजाराम जगनाथ से 149	उमराव देवचन्द
		10	बडवेल	151	बसंत कुमार हुकमचंद से 166	भूरीबाई परसराम
		11	बडवेल	167	गबरू भिल्या से 184	अम्बाराम शंकर
		12	बडवेल	193	रामलाल राजल्या से 209	गंगाराम दर्याव
		13	बडवेल	210	मांगीलाल दरीयाव से 223	रुगजा गोपाल
		14	बडवेल	224	पांचीलाल गोपाल से 237	दशरथ माग्या
		15	बडवेल	238	मंजु अशोक से 252	घनश्याम दिवान
		16	बडवेल	253	गुजरा रावजी से 264	लक्ष्मण घंघरीया
		17	बडवेल	265	मांगीलाल धेधरीया से 281	तोताराम चम्पालाल
		18	बडवेल	282	कन्हैया मांगीलाल से 292	दयाराम चम्पालाल
		19	बडवेल	292क	एहु करसन से 317	कालू गोबरीया
		20	बडवेल	318	मंगत ओंकार से 805	ताराचन्द दयाराम
			पिपल्या	1	डालूराम भयुलाल से 16	रकमचन्द सूखराम

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
17	टेकवाँ	1	टेकवाँ	1	मोहन मांगीलाल	से 16	गंगाराम मंगल्या	अ.जा.	0
		2	टेकवाँ	17	बाबु मंगल्या	से 34/3	कैलाश रामा	अ.ज.जा.	16
		3	टेकवाँ	36	आशाराम सिगदार	से 45	बलराम किशन	पि. वर्ग	0
		4	टेकवाँ	46	गेंदालाल नराण	से 58	बदया डेबा	अनारक्षित	1
		5	टेकवाँ	59	प्रमानंद थवरिया	से 71	काना गोबरिया	अ.जा. महिला	0
		6	टेकवाँ	73	भग्गा बल्लु	से 89	रामेश्वर भागचंद	अ.ज.जा. महिला	8
		7	टेकवाँ	90	श्रीराम भागचंद	से 101	किशन गोबरिया	पि.वर्ग महिला	0
		8	टेकवाँ	102	गोबरिया धन्या	से 114	गेंदालाल दुलीचंद	अनारक्षित महिला	1
		9	टेकवाँ	115	तेरसिंह छितर	से 127	चन्दु गणपत		
		10	टेकवाँ	128	जामसिंह बावरिया	से 146	मानसिंह कन्हैया		
		11	उरवाय	1	बाबुलाल अमरिया	से 26	भादर मोल्या		
		12	उरवाय	29	मांगीलाल बरसिंग	से 44	नंदराम दिया		
		13	उरवाय	47	गोविंद मकुनद	से 68	जयराम शंकर		
		14	उरवाय	70	नारायण सालगराम	से 90	अमरसिंह भावसिंह		
		15	उरवाय	91	नानुराम भावसिंह	से 116	रामचन्द्र भगवान		
		16	उरवाय	118	अम्बाराम साबीया	से 131	विक्रम रामचन्द्र		
		17	उरवाय	133	ताराचंद प्रेमचंद	से 161	सुरमल हरचंद		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
18	गुजरमोहना	1	गुजरमोहना	1	तोल्या शम्भु	से 10/1	कैलाश संतु	अ.जा.	0
		2	गुजरमोहना	10/2	गंगाराम नंदराम	से 23	संगीता चैन्या	अ.ज.जा.	20
		3	गुजरमोहना	29	सरदार मांगीलाल	से 43	नानुराम भुक्कण	पि. वर्ग	0
		4	गुजरमोहना	44	जगन्नाथ दुबल्या	से 56	रामप्रकाश श्रवण	अनारक्षित	0
		5	गुजरमोहना	57	तुलसीराम गुजाबसिंह	से 71/1	रामा पोपसिंह	अ.जा. महिला	0
		6	गुजरमोहना	71/2	दूलिचंद हारू	से 91	सुभाष मगन	अ.ज.जा. महिला	10
		7	गुजरमोहना	92	प्रभु छावरिया	से 105	सुकराम झामरिया	पि.वर्ग महिला	0
		8	गुजरमोहना	106	रामा बागजी	से 116	सोनिया रोशन	अनारक्षित महिला	0
		9	गुजरमोहना	117	नंदराम देवा	से 136	कन्हैया शोभान		
		10	गुजरमोहना	137	गुजरा उमराव	से 153	खेमचंद गुलाब		
		11	गुजरमोहना	154	तोलसिंह बाबु	से 171	सुखराम खुमान		
		12	गुजरमोहना	172	सिताराम राल्या	से 184	गणेश रतन		
		13	गुजरमोहना	185	मकुन्द झब्बु	से 208	बुदा आपसिंह		
		14	गुजरमोहना	209	मंगल्या छगन	से 218/2	रामेश्वर शोभान		
		15	गुजरमोहना	219	हिरालाल बुरख्या	से 237	प्रताप विक्रम		
		16	गुजरमोहना	238	पुनमचंद केकड़ीया	से 258	जगदीश पुजा		
		17	गुजरमोहना	260	कुतरिया मुरार	से 317	सुनिल अमिचंद		
		18	सालीपुरा	1	लक्ष्मण दिल्या	से 21	तुलसा दगड़ीया		
		19	सालीपुरा	22	ज्ञानसिंह मांगीलाल	से 42/2	महेताप मंगु		
		20	सालीपुरा	43	कमलसिंह मंगु	से 97	शांतीलाल अमरसिंह		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
19	बबलई	1	बबलई	1	ज्योति मोतिलाल	से 10	कुवरजी भिल्या	अ.जा.	1
		2	बबलई	10/2	भुरेसिंह पुनमचंद	से 24	नान्या मांग्या	अ.ज.जा.	9
		3	बबलई	25	मानसिंह झामरिया	से 42	हिरालाल छीतर	पि. वर्ग	1
		4	बबलई	43	दशरथ भिक्या	से 63	धरमु हिरालाल	अनारक्षित	3
		5	बबलई	64	चम्पाबाई हिरालाल	से 79	सुकरिया गणपत	अ.जा. महिला	1
		6	बबलई	80	बोंदर मकुन्द	से 100/3	रमेशपाल सुबेदार	अ.ज.जा. महिला	5
		7	बबलई	102	सुरेशचन्द्र उदयराम	से 120/3	बेरसिंग टन्दु	पि.वर्ग महिला	1
		8	बबलई	120/4	दिपक भागीरथ	से 134	ठाकुर धन्नालाल	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बबलई	9	बबलई 134/1	राजेन्द्रसिंह बलवंतसिंह से	149/1 राजाराम मांगीलाल
		10	बबलई 149/2	भादर मंगत्या से	162/2 बाबु मिसरिया
		11	बबलई 163	सोमल्या चम्पालाल से	171/2 जयराम अमिचंद
		12	बबलई 171/3	बल्लु मांगीलाल से	185/3 देवा शंकर
		13	बबलई 187	नंदकिशोर भुरेसिंग से	223 नैनसिंग सुखराम
		14	बबलई 227	शोभाराम नारायण से	238 धन्नालाल सायबा

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
20	सिरस्या	1	सिरस्या	1	छललु फतु	से 14	अमरसिंग छग्या	अ.जा.	1
		2	सिरस्या	15	पन्नाबाई उंकार	से 28	तेरसिंह दित्या	अ.ज.जा.	16
		3	सिरस्या	29	बजु बाबु	से 41/3	गजानंद भुक्कण	पि. वर्ग	0
		4	सिरस्या	41/3	श्याम मिश्रीलाल	से 52	राधेश्याम मांगीलाल	अनारक्षित	0
		5	सिरस्या	53	मंगल्या सिगदार	से 61/2	नंदलाल गेहराल	अ.जा. महिला	1
		6	सिरस्या	64	मांगीलाल भुरिया	से 76	मेघालाल रतन	अ.ज.जा. महिला	8
		7	सिरस्या	77	कन्हैया गुलाब	से 91/1	दिनेश पांचीलाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	सिरस्या	91/2	गुलबी शोभाराम	से 104	जगदीश बाल्या	अनारक्षित महिला	0
		9	सिरस्या	105	तारा बापु	से 113	ताराचंद छब्बु		
		10	सिरस्या	115	भीलु गेंदालाल	से 125	पुंनमचंद रामचंद		
		11	सिरस्या	126	दयाराम सेकड़िया	से 136	फत्या अमीचंद		
		12	सिरस्या	137	उमराव दशरथ	से 149	गुलका रमेश		
		13	सिरस्या	150	रतन दशरथ	से 167	जगन बेचर		
		14	सिरस्या	168	मथुरालाल पुनम	से 178	मंगल दरियाव		
		15	सिरस्या	179	भीमसिंह रामा	से 205	नंदराम मांगीलाल		
		16	ककवाडा	2	मंगल्या रूधनाथ	से 27	मंशाराम धुलया		
		17	ककवाडा	29	घेघरिया केशरिया	से 801	रूकमणी राकेश		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
21	भकलाय	1	भकलाय	1	झबरसिंह मेवालाल	से 18	संगीता सुकरिया	अ.जा.	1
		2	भकलाय	20	शांतिलाल सिरपत	से 39	अन्तर अम्बाराम	अ.ज.जा.	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
	भकलाय	3	भकलाय	40	बजे अमबाराम	से 54	कालीबाई श्यामा	पि. वर्ग	0
		4	भकलाय	55	पेमा मांगीलाल	से 74/2	भागीरथ गप्पु	अनारक्षित	1
		5	भकलाय	75	रेवल फत्तु	से 88	दारासिंह रामसिंह	अ.जा. महिला	1
		6	भकलाय	90	इसराम नान्जा	से 109	लिला अभय	अ.ज.जा. महिला	9
		7	भकलाय	112	बसु मोतेसिंह	से 246	रमकु कैलाश	पि.वर्ग महिला	0
		8	वेकल्या	4	ईश्वरदास कालु	से 27	बाबु रामरतन	अनारक्षित महिला	1
		9	वेकल्या	28	प्रेमसिंह मोरसिंह	से 56	सुखदेव बलराम		
		10	वेकल्या	58	सरपत मांगत्या	से 75	मोतिराम रामाजी		
		11	वेकल्या	76	ज्ञानचंद सीताराम	से 105/2	हुकुम पुनमचंद		
		12	वेकल्या	106/2	काल्या गुलाब	से 121	मेताबाई बन्दु		
		13	वेकल्या	122	पाचुबाई देवीसिंह	से 129/ग	धनसिंह पुनमचंद		
		14	वेकल्या	130	छोगालाल मयाराम	से 145	कन्हेया गुलाब		
		15	वेकल्या	146	गंगा नानक्या	से 170/1	दर्याव फुलसिंह		
		16	वासलीकुंडिया	1	दयाराम किशन	से 18/1	बाबु भागीरथ		
		17	वासलीकुंडिया	19	कमला गुलाब	से 39	भिन्जु गोपाल		
		18	वासलीकुंडिया	40	मांगी नागरिया	से 61	कैलाश कन्हैया		
		19	वासलीकुंडिया	62	बुरक्या छितर	से 75	रामसिंह प्रताप		
		20	वासलीकुंडिया	76	सोमली सिगदार	से 91	अनिल जोगसिंग		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
22	सोमाखेडी	1	सोमाखेडी	1	घेघरिया मांगीलाल	से 19/2	कैलाश सालीकराम	अ.जा.	3
		2	सोमाखेडी	20	फत्तुलाल बाबुलाल	से 41	शांताबाई कल्लू	अ.ज.जा.	10
		3	सोमाखेडी	42	मनोरमा भगवान	से 60	मंगतीबाई धन्नालाल	पि. वर्ग	2
		4	सोमाखेडी	61	रेवाबाई लक्ष्मण	से 71	राधाबाई सुखदेव	अनारक्षित	5
		5	सोमाखेडी	72	गीताबाई सुखदेव	से 82	ओमप्रकाश सीताराम	अ.जा. महिला	2
		6	सोमाखेडी	83	राधाबाई कृष्णा	से 114	राधेश्याम मांगीलाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	सोमाखेडी	115	चम्पालाल अनोकचन्द	से 134	श्याणीबाई मांगीलाल	पि.वर्ग महिला	1
		8	सोमाखेडी	135	जगदीश चम्पालाल	से 165	दिनेश रामसींग	अनारक्षित महिला	3
		9	सोमाखेडी	166	मंगु गप्पु	से 195	रमेश मांगीलाल		
		10	सोमाखेडी	197/1	गीताबाई शंकरलाल	से 210	सुखदेव पुनमचन्द		
		11	सोमाखेडी	211	भुक्कण बाल्या	से 228	शेलेन्द्र गजानन्द		
		12	सोमाखेडी	228क	जगदीश शंकरलाल	से 250	अमजद कादीरखॉन		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	सोमाखेडी	13	सोमाखेडी	251	सेजाबी मुनीर	से 270	राकेश राधेश्याम
		14	सोमाखेडी	272	सीताराम हीरालाल	से 295	गुलाबसिंह जोगीलाल
		15	सोमाखेडी	295/1	जोगीलाल चन्दरिया	से 319	राधेश्याम सुकराम
		16	सोमाखेडी	321	दित्तु मोहन	से 349/2ग	सिंग्या कन्हैया
		17	सोमाखेडी	350	मोत्या सिताराम	से 375/क	रीछाबाई वेरसिंग
		18	चिखली	2/4	विजय कुमार केशर	से 22	धन्नालाल मदन
		19	चिखली	23	पूनमचंद मदन	से 49/1	सुनिता लखन
		20	चिखली	51	शान्ताबाई चंदर	से 62/क	संजय ओंकार

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
23	बागदरा	1	बागदरा	1	सुनिता प्रकाश	से 9	ममता मुकेश	अ.जा.	0
		2	बागदरा	10	बसंतीबाई सुखलाल	से 21	धमेन्द्र बाबु	अ.ज.जा.	18
		3	बागदरा	22	बहादर कुतरिया	से 35	धमेन्द्र करणसिंह	पि. वर्ग	0
		4	बागदरा	36	गीताबाई बाबुलाल	से 51	निशा सतीश	अनारक्षित	2
		5	बागदरा	52	सियाराम नरसिंह	से 65	मायाबाई दिनेश	अ.जा. महिला	0
		6	बागदरा	66	भेरिया विश्राम	से 92	रामेश्वर	अ.ज.जा. महिला	9
		7	आवल्या	1	दयाराम नरसिंह	से 12ख	संजय पुनमचन्द	पि.वर्ग महिला	0
		8	आवल्या	13	रामसिंह नंदराम	से 25	चन्दकलाबाई भादर	अनारक्षित महिला	1
		9	आवल्या	25/1	झुमकीबाई किशन	से 38	ज्योतिबाई अर्जुनसिंह		
		10	आवल्या	39	संजीराबाई मोरसिंह	से 54/3	साधना अम्बाराम		
		11	आवल्या	55/1	नथीबाई छोगालाल	से 66	बबीता महेश		
		12	आवल्या	67	सुरेश प्यारसिंह	से 83	कलाबाई करणसिंह		
		13	आवल्या	84	बच्चन सुखलाल	से 95	सुशिला ज्ञानचन्द		
		14	आवल्या	96	गौराबाई रेवाराम	से 109/1	जितेन्द्र पुंजा		
		15	आवल्या	110	कैलाश गुलाब	से 161	राजेश रतनसिंह		
		16	नवरंगपुरा	1	इंदरसिंह छित्तु	से 21	रामकन्या ताराचन्द		
		17	नवरंगपुरा	22	प्रेमसिंह रायसिंह	से 37क	राजेश मुन्नालाल		
		18	नवरंगपुरा	38	कमलासिंह देविसिंह	से 53	लक्ष्मीबाई विष्णु		
		19	नवरंगपुरा	54	श्यामलाल थावसिंग	से 70/2	संतोषबाई बाबुलाल		
		20	नवरंगपुरा	72	पुनमचंद फत्तु	से 85	संजुबाई सुनिल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
24	गुलावड	1	गुलावड	8/1	ओमप्रकाश हरिशंकर	से 47/1	नारायण गोपीलाल	अ.जा.	7
		2	गुलावड	47/2	हरीसिंह गोपीलाल	से 74	कमलाबाई सिताराम	अ.ज.जा.	10
		3	गुलावड	75	विष्णु रामेश्वर	से 108	श्यामीबाई अंतरसिंह	पि. वर्ग	0
		4	गुलावड	111	फुलकुवर नत्थु	से 137	गजानंद देवचंद	अनारक्षित	3
		5	गुलावड	138	रामुबाई शिवा	से 165	हुकुमचंद लक्ष्मण	अ.जा. महिला	4
		6	गुलावड	166	शांताबाई लक्ष्मण	से 194/1	गजानंद तुकाराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	गुलावड	196	रामा मांग्या	से 221/1	सुखलाल कानु	पि.वर्ग महिला	0
		8	गुलावड	222	चतरसिंग गुलाबसिंह	से 240	छगन सायबा	अनारक्षित महिला	2
		9	गुलावड	241	गना प्यारा	से 2-66	कंचन भोमा		
		10	गुलावड	267	ग्याना नत्थु	से 282	भिव्या मनिराम		
		11	गुलावड	283	कैलाश लक्ष्मण	से 303/2	रामप्रसाद भिल्या		
		12	गुलावड	303/2	मांगीबाई भिल्या	से 323	गोपालकृष्ण धन्नालाल		
		13	गुलावड	324	बलराम द्वारका	से 342	गंगाराम घिसालाल		
		14	गुलावड	344	कन्हैया बाबुलाल	से 369	गणेश मांगीलाल		
		15	गुलावड	370	हरीनारायण ओंकार	से 397	मदनलाल नत्थुलाल		
		16	गुलावड	398	शोभाराम रामचंद्र	से 415	बसंती दिनु		
		17	झिरन्या	4	पवन गजानंद	से 25/1	नन्नु लालसिंह		
		18	झिरन्या	25/2	जितेन्द्र अमरसिंह	से 59	मांगीलाल मुरार		
		19	झिरन्या	60	मयाराम नन्नु	से 90	गोदावरी सकाराम		
		20	झिरन्या	92	अमरसिंह शोभदास	से 116	डालुराम गोपाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
25	कवडिया	1	कवडिया	1	निर्मला गुलाबसिंह	से 25	हेमलता जगदीश	अ.जा.	6
		2	कवडिया	26	भुवानीराम सीताराम	से 59	सुखदेव शोभाराम	अ.ज.जा.	10
		3	कवडिया	59/क	हरिशचंद्र शोभाराम	से 79	जगदीश अनोकचंद	पि. वर्ग	0
		4	कवडिया	80	मिसरबाई धन्नालाल	से 93	प्यारेलाल हीरा	अनारक्षित	4
		5	कवडिया	94	नत्थु दामाजी	से 113	सावित्री उमेद	अ.जा. महिला	3
		6	कवडिया	114	गवराबाई शोभाराम	से 135	रेवाबाई गेंदालाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	कवडिया	136	शांताबाई बाबुलाल	से 162	सीताराम नत्थु	पि.वर्ग महिला	0
		8	कवडिया	163	लक्ष्मी मांगीलाल	से 183	शान्ता फत्तु	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवडिया	9	कवडिया	184 नत्थु गप्पु	से 215	गणेश दवला
	10	कवडिया	217 रेवा दौलत	से 239	छोगालाल झापु
	11	कवडिया	240 लक्ष्मण पन्नालाल	से 258	लक्ष्मी गोपाल
	12	कवडिया	259 नत्थु दला	से 280	मोतीलाल हरिभाउ
	13	कवडिया	282 भगवान गजानंद	से 300	प्रेमबाई बाबुलाल
	14	कवडिया	301 पुष्पाबाई फत्तु	से 309	शोभाराम नारायण
	15	कवडिया	310 हंसराज फकीरा	से 457/क	हरिराम नारायण
	16	कुण्डिया	1 बल्लु बनसिंह	से 29	कैलाश गोपाल
	17	कुण्डिया	30 हंसराल जगन्नाथ	से 45	भगवान सुखलाल
	18	कुण्डिया	46 भागवती धन्नालाल	से 67	कालुराम भुक्कण
	19	कुण्डिया	68 रामचंद कालु	से 89	राखी रामेश्वर
	20	कुण्डिया	90 सीताबाई बाबु	से 205	सुमेर रतन

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	
26	मोहद	1	मोहद	1	दिनेश जयराम	से 12	भगवानसिंह बलवंतसिंह	अ.जा.	5
		2	मोहद	13	नेमिचंद नरसिंह	से 24	अमरसिंह चैनसिंह	अ.ज.जा.	7
		3	मोहद	25	राधेश्याम धन्नालाल	से 41/2	झबरसिंह मांगीलाल	पि. वर्ग	0
		4	मोहद	42	मार्तंडराव लक्ष्मणराव	से 58	लाल्या डेडा	अनारक्षित	2
		5	मोहद	59	कालुराम बाल्या	से 70	कालुराम मन्या	अ.जा. महिला	3
		6	मोहद	71	गोपीलाल छिता	से 96	ऐडिया बुदिया	अ.ज.जा. महिला	4
		7	मोहद	97	बागसिंह बुदिया	से 105/1	सदाशिव रामलाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	बडदिया	3	दामा टंडिया	से 15	केकडिया जोगीलाल	अनारक्षित महिला	1
		9	बडदिया	16	नत्थु गुलाबसिंह	से 37	रमेश मांगीलाल		
		10	बडदिया	38	गोपालसिंह मांगीलाल	से 47	करणसिंह झापुसिंह		
		11	बडदिया	48	राजेन्द्र भगवान	से 59/2	प्रहलाद भोलुसिंह		
		12	बडदिया	59/3	ज्ञानसिंह भोलु	से 74	प्यारेलाल बाल्या		
		13	बडदिया	79	सुखदेव धन्नालाल	से 96	गोविन्दसिंह भगवान		
		14	बडदिया	98	भोलुसिंह शोभासिंह	से 105/1	ठाकुरसिंह रूपसिंह		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
27	चोली	1	चोली	1	त्रिलोकचंद गेंदालाल	से 32	तिलोक चम्पालाल	अ.जा.	3
		2	चोली	32क	धनकुवरबाई दौलत	से 61	मांगीलाल देविसिंह	अ.ज.जा.	10
		3	चोली	62	औकार यादवसिंह	से 96	केवलसिंह रतनसिंह	पि. वर्ग	2
		4	चोली	97	नारायणसिंह मोहनसिंह	से 130	गजानन्द डालुराम	अनारक्षित	5
		5	चोली	131	पुरणसिंह सागरसिंह	से 165	शिवराम टिकाराम	अ.जा. महिला	2
		6	चोली	165क	केशरबाई किशनलाल	से 197	बलराम डोगरसिंह	अ.ज.जा. महिला	5
		7	चोली	199	प्रेमसिंह सेवाराम	से 223	मनोरमाबाई किशनसिंह	पि.वर्ग महिला	1
		8	चोली	224	बंसतीबाई यादवसिंह	से 267	कैलाश भाना	अनारक्षित महिला	3
		9	चोली	268	लटुबाई शिवा	से 316	लक्ष्मीबाई गंगासिंह		
		10	चोली	317	अमृतसिंह गंगासिंह	से 356	रामलाल मांगीलाल		
		11	चोली	357	किशोरसिंह सखाराम	से 387	विजयसिंह दर्यावसिंह		
		12	चोली	387क	नारायणसिंह दौलतसिंह	से 427क	महेश राजाराम		
		13	चोली	427ख	पार्वती रामलाल	से 452	मुकेश चुन्नीलाल		
		14	चोली	455	रामसिंह जंगल्या	से 501	प्रविण नरेन्द्र		
		15	चोली	501क	कौशल सखाराम	से 535	कृपाराम खुश्याल		
		16	चोली	336क	बहादर ओंकार	से 580	झबरसिंह भोलु		
		17	चोली	581	इंदरसिंह बहादुर	से 615	पुरनसिंह ओंकार		
		18	चोली	616	गुलाबसिंह दगडु	से 660	बहादुरसिंह भीम		
		19	चोली	660ख	अर्जुन जगदीश	से 700	झिनुबाई मांगीलाल		
		20	चोली	701	रडत्या मदन	से 720	माधवसिंह रडत्या		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
28	मोगांवा	1	मोगांवा	1	गुलाबसिंह भवानीराम	से 20	ताराचंद शोभाराम	अ.जा.	3
		2	मोगांवा	21	रतन चैनसिंह	से 34ख	मोताबाई श्यामा	अ.ज.जा.	8
		3	मोगांवा	34ग	नानुराम मांगीलाल	से 48	मेवालाल ठाकुरलाल	पि. वर्ग	1
		4	मोगांवा	49	मदन गोविंद	से 64	अम्बाराम गोप्या	अनारक्षित	4
		5	मोगांवा	66	राधेश्याम चंपालाल	से 84	धीसालाल गंगाराम	अ.जा. महिला	2
		6	मोगांवा	85	सीताबाई श्रीराम	से 97	अजुदयाबाई राजाराम	अ.ज.जा. महिला	4
		7	मोगांवा	100	अनोकसिंह बाबुसिंह	से 113क	सौभागचंद ठाकुरलाल	पि.वर्ग महिला	1
		8	मोगांवा	114	राधेश्याम सीताराम	से 124	लीलाबाई गणपत	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	मोगांवा	9	मोगांवा	128	भगवान दामाजी से 143	घनश्याम धिसाजी
		10	मोगांवा	144	बाबुलाल पन्नालाल से 157	जीवराज भोलुजी
		11	मोगांवा	159	सावंतसिंह रामाजी से 177	कुवरजी मांगीलाल
		12	मोगांवा	178	रामलाल सिताराम से 187	महादेव नरायण
		13	मोगांवा	189	परसराम भुरेलाल से 205	बसंतीबाई ख्यालीराम
		14	मोगांवा	206	भागीरथ बाबुलाल से 215	शांताबाई चंपालाल
		15	मोगांवा	216	बनुबाई बख्तावरसिंह से 233	राजाराम रेवाजी
		16	मोगांवा	234	करणसिंह पर्वतसिंह से 248	गुलाबबाई रामा

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
29	झापडी	1	झापडी	2	केशर बाई तोताराम	से 14/1	सीताराम भीका	अ.जा.	5
		2	झापडी	14/2	कमला भावसिंह	से 32	रुकमणीबाई धन्नालाल	अ.ज.जा.	9
		3	झापडी	33	रुकमणी शिवलाल	से 46	सुखदेव गणपत	पि. वर्ग	0
		4	झापडी	48	द्वारकीबाई बाघसिंह	से 72	शिवलाल लालचन्द	अनारक्षित	4
		5	झापडी	74	गंगाबाई चुन्नीलाल	से 98	पारूबाई गुलाबसिंह	अ.जा. महिला	3
		6	झापडी	99	नाजीराबाई बाबुलाल	से 111क	ज्ञानचन्द शोभाराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	झापडी	111ख	कृष्णचन्द्र शोभाराम	से 140	कमलसिंह बाबुसिंह	पि.वर्ग महिला	0
		8	झापडी	141	लालसिंह कालुसिंह	से 159	राधेश्याम मांगीलाल	अनारक्षित महिला	2
		9	झापडी	160	रमेश सिताराम	से 177	कुवर रतन		
		10	झापडी	178	बुलचन्द गंगाराम	से 203	फुलचन्द सियाराम		
		11	झापडी	203ख	नथीबाई राजू	से 221	रामचन्द्र गन्या		
		12	झापडी	222	भागचन्द गन्या	से 238	हिरालाल छोगालाल		
		13	झापडी	239	उमराव फत्तु	से 272	शेखगिरी कृष्णगिरी		
	हरसगांव			3	खुमान पिता भीला	से 15	गीताबाई गोविन्द		
	हरसगांव			15क	कैलासगीर रघुवीर	से 22/1	अम्बाराम सीताराम		
	हरसगांव			23	नर्मदाशंकर पढरी	से 34	शंकरलाल हिरालाल		
	हरसगांव			35	जगदिश पुराजी	से 47/1	चुन्नीलाल बुद्धा		
	हरसगांव			47/2	रमुबाई हभिरसिंह	से 64/3	भीकु मिश्रीगीर		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
30	चिन्दडिया	1	चिन्दडिया	1	शेरसिंह गोविन्द	से 27	भागवतीबाई भोलू	अ.जा.	4
		2	चिन्दडिया	28	सीताबाई मोतीराम	से 39	मांगीलाल बाबु	अ.ज.जा.	7
		3	चिन्दडिया	40/1	भुवानीराम पन्नालाल	से 52	जानकीबाई पुनमचंद	पि. वर्ग	0
		4	चिन्दडिया	54	घनश्याम नारायण	से 65	मांगीबाई मंगत्या	अनारक्षित	2
		5	चिन्दडिया	66	जानकीबाई श्रीराम	से 75	अयोध्याबाई गोपीचंद	अ.जा. महिला	2
		6	चिन्दडिया	76	गीताबाई नरायण	से 88	भगवान फकीरा	अ.ज.जा. महिला	4
		7	चिन्दडिया	94	राधेश्याम दुर्गाशंकर	से 122	बाबु सीताराम	पि.वर्ग महिला	0
		8	चिन्दडिया	123	रामरतन हरि	से 36/6	कालुराम शोभाराम	अनारक्षित महिला	1
		9	चिन्दडिया	136/1	राधेश्याम भीतरू	से 150/2	हरी अम्बाराम		
		10	चिन्दडिया	151	मुकेश सखाराम	से 176	किशोरसिंह भोलू		
		11	चिन्दडिया	177	झबरसिंह हिरालाल	से 190/2	कैलाश पदम		
		12	चिन्दडिया	191	नंदाबाई मुरार	से 213/1	चंदरसिंह जान्दा		
		13	चिन्दडिया	214	द्वारकीबाई बोखार	से 296/9	दारासिंह शोभाराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
31	समराज	1	समराज	1	दौलतसिंह सिगदार	से 15	भारसिंह दरियावसिंह	अ.जा.	7
		2	समराज	15क	कालु रतन	से 29	इंदरसिंह शोभाराम	अ.ज.जा.	10
		3	समराज	31	रेशमबाई तोताराम	से 48	रूपसिंह दुलीचंद	पि. वर्ग	0
		4	समराज	49	राधेश्याम घिसालाल	से 55क	गणेश सुखराम	अनारक्षित	3
		5	समराज	56	गजानंद लक्ष्मण	से 70	उमराव कालु	अ.जा. महिला	4
		6	समराज	71	रामेश्वर ठाकुर	से 88	यशवंत जगन	अ.ज.जा. महिला	5
		7	समराज	89	भुरेलाल छोगालाल	से 102	पुनमचंद गोकुल	पि.वर्ग महिला	0
		8	समराज	102क	भुरी छितर	से 115ख	तारा किशन	अनारक्षित महिला	2
		9	समराज	116	हंसराज नरसिंग	से 128क	लोभेसिंह फततुसिंह		
		10	सांगवी	1	मिलन महेश	से 26क	ताराचंद बाबुलाल		
		11	सांगवी	28	कैलाश गोपीचंद	से 41	किशोर भुवानीराम		
		12	सांगवी	41क	बद्री सिताराम	से 68	धनीबाई पुनिया		
		13	सांगवी	69	रेवाबाई ऐडु	से 84	गणेश श्रवण		
		14	सांगवी	85	तेजुबाई बाबु	से 95	हिम्मतसिंह कालुसिंह		
		15	सांगवी	96	गोगलबाई सिताराम	से 113क	जगदीश लक्ष्मण		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
समराज	16	सांगवी	114	मरूबाई बोखार	से 236	गजानंद कन्हैया
	17	ढापला	1	नंदलाल शिवदीन	से 17	रूखमणी सुभाष
	18	ढापला	18	रेखाबाई सुखदेव	से 38क	बहादर दरियाव
	19	ढापला	40	सखाराम गणपत	से 52क	कुसुम सुखदेव
	20	ढापला	53	लाडकीबाई मांगीलाल	से 122	संतोष पुजा

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
32	ठनगाँव	1	ठनगाँव	1	जशोदा लक्ष्मण	से 31	मोहन भगवान	अ.जा.	4
		2	ठनगाँव	31क	अमरसिंग करणसिंह	से 65	घनश्याम लक्ष्मण	अ.ज.जा.	10
		3	ठनगाँव	66	राधेश्याम लक्ष्मण	से 124	गौरीशंकर मयाराम	पि. वर्ग	1
		4	ठनगाँव	125	गोपाल मयाराम	से 140	सीताबाई फततु	अनारक्षित	5
		5	ठनगाँव	141	रामलाल गजानंद	से 170	चंपालाल छितर	अ.जा. महिला	2
		6	ठनगाँव	171	लक्ष्मण राजाराम	से 200	जमनाबाई रामलाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	ठनगाँव	201	सीताबाई फतु	से 222	सियाराम गंगाराम	पि.वर्ग महिला	1
		8	ठनगाँव	224	गोपाल नब्या	से 249	गजानंद सियाराम	अनारक्षित महिला	3
		9	ठनगाँव	250	कौशल्याबाई नत्थु	से 269	धनुबाई भगवान		
		10	ठनगाँव	271	तुलसी ब्रजलाल	से 294	छगन सियाराम		
		11	ठनगाँव	295	सुकदेव करसन	से 312	मांगीलाल सकाराम		
		12	ठनगाँव	313	सजनबाई भगवान	से 334	बिहारीलाल नरायण		
		13	ठनगाँव	335	विट्ठल नारायण	से 364	संतोष पुनमचंद		
		14	ठनगाँव	366	नारायण गप्पुजी	से 396	गोकुल दामु		
		15	ठनगाँव	398	हिरूबाई रेवाजी	से 425	घीस्या मांग्या		
		16	ठनगाँव	427	केशरबाई धन्या	से 453	समोतीबाई शंकर		
		17	ठनगाँव	454	सीताबाई लाल्या	से 477	बिहारी निल्या		
		18	ठनगाँव	479	रामकुवरबाई सुक्या	से 896	कालु पेमा		
		19	नजरपुर	4	लटुबाई तेरसिंह	से 54	मिश्रीबाई सावल्या		
		20	नजरपुर	55	मांगीलाल हरेसींग	से 281	ममताबाई गिरधारी		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
33	लाडवी	1	लाडवी	1	धुनबाई आशाराम	से 25	शंकुबाई रामलाल	अ.जा.	1
		2	लाडवी	26	बलराम धनिया	से 61	देवीसिंह भीलुसिंह	अ.ज.जा.	10
		3	लाडवी	62	हीरालाल बावराजी	से 108	कंचनबाई मंशाराम	पि. वर्ग	4
		4	खारिया	1	मीठाबाई भावसिंह	से 30	बलिया छितर	अनारक्षित	5
		5	खारिया	31	लालु छितर	से 50	सावित्री सरदार	अ.जा. महिला	1
		6	खारिया	51	सोनाबाई धनसिंह	से 81	कमलाबाई मोहनसिंग	अ.ज.जा. महिला	5
		7	मलक्षाखेडी	1	मगन पदया	से 53क	लीलाबाई धारासिंह	पि.वर्ग महिला	2
		8	नवलपुरा	1	अनोखीलाल रतनलाल	से 10क	अशुतोष मनोहरलाल	अनारक्षित महिला	3
		9	नवलपुरा	11	मनोहर मांगीलाल	से 20	रामकिशन घीसाजी		
		10	नवलपुरा	20/1	राधेश्याम कड़वाराम	से 34क	विक्रम भील्या		
		11	नवलपुरा	34ख	रूपसिंग अमरसिंह	से 48/2	गुलाबसिंह पुनाजी		
		12	नवलपुरा	49	दुर्गा लक्ष्मण	से 80/2	कमल बिहारी		
		13	नवलपुरा	81/1	मांगीलाल सेकरीया	से 109	सुशीलाबाई हरिराम		
		14	नवलपुरा	110	गणेश नारायण	से 140	धनसिंह केशरसिंह		
		15	नवलपुरा	140/1	अजय चंपालाल	से 172	गणेश डालुराम		
		16	केरियाखेडी	1	अनारसिंह मांगीलाल	से 20ख	राहुल सुभाष		
		17	केरियाखेडी	21	सुभाष महिपत	से 47	गोंदाबाई गलिया		
		18	केरियाखेडी	48	रेमाबाई बंशीलाल	से 74	गुलाबसिंह सोहबसिंह		
		19	केरियाखेडी	75	गोविन्दसिंह सोहबसिंह	से 424	महेश रामचन्द		
		20	बागकेरियाखेडी	1	तोल्या चन्दा	से 20ख	लोकेन्द्र शम्भु		
	बागकेरियाखेडी	21	अ.गनी खुदाबक्श	से 125	राजाराम बाबु				
			राजपुरा						

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
34	जलुद	1	जलुद	1	विश्वनाथ पंढरीराथ	से 8/1	गोरीशंकर बलीराम	अ.जा.	6
		2	जलुद	9	सोनाबाई देवीसिंह	से 18	बदामसिंह शेरसिंह	अ.ज.जा.	10
		3	जलुद	19/1	लक्ष्मीबाई भिलुसिंह	से 27	यशवंतसिंह भगवानसिंह	पि. वर्ग	0
		4	जलुद	28	सुमनबाई मल्लुसिंह	से 39	हरिओम सुखराम	अनारक्षित	4
		5	जलुद	40	शेरू बाबु	से 56	कलाबाई नत्थु	अ.जा. महिला	3
		6	जलुद	57	शोभाराम कन्हैया	से 67	भिलु गोप्या	अ.ज.जा. महिला	5
		7	जलुद	68	राजाराम रघुनाथ	से 75/1	मनोज भगवान	पि.वर्ग महिला	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जलुद	8	जलुद	76	लक्ष्मीबाई रघुनाथ से	86 सदाशिव भिलु अनारक्षित महिला 2
	9	जलुद	87	चम्पाबाई औंकार से	95 स्याणीबाई राधेश्याम
	10	जलुद	96	शिवलाल सडुलाल से	106 अम्बाराम श्यामा
	11	जलुद	107	ताराचन्द शंकर से	118 सुखदेव झापडिया
	12	जलुद	118/1	कडवाजी कैलाश से	123/46 लखन बाबु
	13	जलुद	124	गुरूचरणदास बालमकुन्द से	138 दयाराम पुनमचन्द
	14	जलुद	139	बालाराम लालचन्द से	बी/18 परसन्नकुमार हनुमन्था
	15	आसुखेडी	1	बलदेव सुखदेव से	53 विद्या नगेन्द्र
	16	आसुखेडी	53/3	प्रभाकर नारायण से	सी 6 परमेश्वर मानेश्वर
	17	मर्दान्या	1	धनुबाई भगवान से	र 4 विजय रामनाथ
	18	मर्दान्या	सी 3	कविता चन्द्रभान से	के 2 अनिल बालमकुन्द
	19	मर्दान्या	के 3	खुमानसिंह जामसिंह से	म 8 प्रमोद निरंजन
	20	मर्दान्या	ल 12	मनोहर डबलप्रसाद से	व्हीएन 25 जैसिंह पुनमचन्द

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)	
35	छोटीखरगोन	1	छोटीखरगोन	1	हिरालाल किशन	से	22घ	रमेश मोहन	अ.जा.	7
		2	छोटीखरगोन	22च	सुखदेव रमेश	से	29क	सरदार रामेश्वर	अ.ज.जा.	10
		3	छोटीखरगोन	29ख	डरावरसिंह रामेश्वर	से	32ख	अम्बाराम कालु	पि. वर्ग	0
		4	छोटीखरगोन	33	दौलत अम्बाराम	से	52	शेरसिंह राजाराम	अनारक्षित	3
		5	छोटीखरगोन	53	गोपालसिंह पप्पुसिंह	से	93	जगदीश गिरधर	अ.जा. महिला	4
		6	छोटीखरगोन	94	बिहारी गोप्या	से	134	दुर्गाप्रसाद बालाप्रसाद	अ.ज.जा. महिला	5
		7	छोटीखरगोन	135	शफी मो. नुर मो.	से	175	सुशीला राजाराम	पि.वर्ग महिला	0
		8	छोटीखरगोन	175क	गोपाल बाल्या	से	187	महेश गोविन्द	अनारक्षित महिला	2
		9	छोटीखरगोन	187ठ	भंवरसिंह भारतसिंह	से	230	भगवान हेमाजी		
		10	छोटीखरगोन	231	ज्ञानचंद चुन्नीलाल	से	258	पारूबाई धनसिंह		
		11	छोटीखरगोन	259	अशोक बाबुलाल	से	304	गजा छित्तु		
		12	छोटीखरगोन	305	कैलाश हिरालाल	से	341/2	सरदासिंह महेताब		
		13	छोटीखरगोन	341/3	सुनील प्रताप	से	384	प्रकाश बाबुलाल		
		14	छोटीखरगोन	385	सरदार गोविन्द	से	422	कैलाश बालाराम		
		15	छोटीखरगोन	423	किशोर लक्ष्मण	से	465	गोपाल भोलु		
		16	छोटीखरगोन	466	गोविन्द नरसिंह	से	505	मोहन जगन्नाथ		
		17	छोटीखरगोन	506	तिलोक गुलाबचंद	से	551	गोपाल रामेश्वर		
		18	छोटीखरगोन	551/1	मोहन रामेश्वर	से	605	कैलाश गोविन्द		
		19	छोटीखरगोन	606क	रमेश गोविन्द	से	650	कृष्णा पुनमचन्द		
		20	छोटीखरगोन	651	दिनेश सुखराम	से	872	शिवराम मिश्रीलाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
36	सुलगाँव	1	सुलगाँव	1	कन्हैया मांगीलाल	से 26	रामगिरी कपुरगिरी	अ.जा.	3
		2	सुलगाँव	27	रमेशगिरी डालुगिरी	से 47	अमरसिंग काना	अ.ज.जा.	10
		3	सुलगाँव	49	रामनारायण गणपत	से 64	श्रीराम मोतीलाल	पि. वर्ग	2
		4	सुलगाँव	65	प्रिमीला संतोष	से 86	नारायण सिताराम	अनारक्षित	5
		5	सुलगाँव	87	फत्तु दगडु	से 103	मदनसिंह सिगदारसिंह	अ.जा. महिला	2
		6	सुलगाँव	105	कैलाश मांगीलाल	से 120	सिताराम रामा	अ.ज.जा. महिला	5
		7	सुलगाँव	121	कनकसिंह दरियावसिंह	से 145	श्रवण राधेश्याम	पि.वर्ग महिला	1
		8	सुलगाँव	146	ओमप्रकाश धन्नालाल	से 156	गणपत बाबुजी	अनारक्षित महिला	3
		9	सुलगाँव	156क	रामलाल बालुजी	से 176	अशोक नत्थु		
		10	सुलगाँव	177	सुखलाल जोगीलाल	से 198क	शिवराम छित्तु		
		11	सुलगाँव	199	कमल पांचीलाल	से 215	दरियाव जोग्या		
		12	सुलगाँव	215ख	रामा मकुन्द्र	से 238	शांताबाई		
		13	सुलगाँव	238क	कमल हरी	से 254	कालीबाई करसन		
		14	सुलगाँव	255	मधुबाई प्रभुराम	से 276	मांगीबाई सुखलाल		
		15	सुलगाँव	277	गंगाबाई दयाराम	से 291	रामेश्वर बालुजी		
		16	सुलगाँव	292	नत्थु बोखार	से 311क	गीरीश पण्डरीनाथ		
		17	सुलगाँव	311ख	रामेश्वर पण्डरीनाथ	से 328	राजुबाई छगनलाल		
		18	सुलगाँव	329	अनारबाई शंकर	से 347	नकल्या भोलु		
		19	सुलगाँव	348	अम्बाराम गोपाल	से 364	सुखलाल रणछोड़		
		20	सुलगाँव	365	नयनसिंह रणछोड़	से 395क	लसमा मुकेश		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
37	पथराड खुर्द	1	पथराड खुर्द	1	दिनेश नत्थु	से 53	चुनीलाल सडु	अ.जा.	4
		2	पथराड खुर्द	53क	बाबु सडु	से 86क	राहुल अरूण	अ.ज.जा.	10
		3	पथराड खुर्द	87	बाबु गोकुल	से 111ग	गजराज रणछोड़	पि. वर्ग	1
		4	पथराड खुर्द	112	नत्थु मुकुन्द	से 134क	कालुराम विश्राम	अनारक्षित	5
		5	पथराड खुर्द	134ख	शंकरलाल कालुराम	से 162ख	गिरजाबाई खाण्डेराव	अ.जा. महिला	2
		6	पथराड खुर्द	164	रघुनाथ श्रवण	से 197	संतोष रघुनाथ	अ.ज.जा. महिला	5
		7	पथराड खुर्द	197क	गजानंद बालु	से 221क	हरिराम अमरचंद	पि.वर्ग महिला	1
		8	पथराड खुर्द (पु)	1	कडवा कनकसिंह	से 23	पुनाबाई बालुराम	अनारक्षित महिला	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	पथराड खुर्द	9	पथराड खुर्द (पु) 24	राधाबाई काशीराम से 47	दिनेश नारायण
		10	पथराड खुर्द (पु) 48	मीराबाई परमानंद से 80/1	उमराव सीताराम
		11	पथराड खुर्द (पु) 81	दिनेश आमरिया से 225	नत्थुराव भीला
		12	पथराड खुर्द (पु) 226क	मोहनलाल चुन्नालाल से 250	रमेश लक्ष्मण
		13	पथराड खुर्द (पु) 251	लक्ष्मीबाई हेमराज से 279	रामलाल शोभाराम
	गोगावों	1	बल्लुसिंह विजयसिंह	से 31	रेशमबाई भगवान
	गोगावों	32	अंतरसिंह कुवरसिंह	से 77क	पप्पु रामा
	गोगावों	78	सीताराम मानसिंह	से 111	गंगाराम टुटा
	गोगावों	112	तोताराम मांगीलाल	से 134	कलाबाई श्रवण
	गोगावों	136	जयराम गप्पु	से 190क	चन्द्रनारायण विद्यानंद
	चिराखान	1	मांगीलाल रामचन्द्र	से 25	शंभु बालाराम
	चिराखान	26	कपुरबाई बालाराम	से 57	अनारसिंग रूपसिंग

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
38	धरगाँव	1	धरगाँव	1	सुमेरसिंह चन्द्रसिंह	से 40/2	धन्नालाल परसराम	अ.जा.	3
		2	धरगाँव	41/1	शोभाराम जोगीलाल	से 78/2	हिराबाई चैनसिंह	अ.ज.जा.	10
		3	धरगाँव	82	धनसिंह तेजसिंह	से 124/1	कुसुमबाई छोगीलाल	पि. वर्ग	2
		4	धरगाँव	124क	दुर्गाबाई जीवनसिंह	से 146	जगन्नाथ हिरालाल	अनारक्षित	5
		5	धरगाँव	146/1	सीताराम छीतु	से 204	ज्ञानचंद मांगीलाल	अ.जा. महिला	2
		6	धरगाँव	205	असगरीबाई सत्तारखों	से 243	योगेन्द्रसिंह धनसिंह	अ.ज.जा. महिला	5
		7	धरगाँव	244	कृष्णाबाई विश्वनाथ	से 286	कलाबाई मोहनसिंह	पि.वर्ग महिला	1
		8	धरगाँव	287	सीताबाई भवरसिंह	से 413	गेंदाबाई गंगाराम	अनारक्षित महिला	3
		9	धरगाँव	414	अमरसिंह सीगदारसिंह	से 458	भागुबाई बोखार		
		10	धरगाँव	460	लाडकीबाई लालुराम	से 491	प्रेमबाई बाबुलाल		
		11	धरगाँव	492	कस्तुरीबाई रामजी	से 538	राजेन्द्रसिंह शोभागसिंह		
		12	धरगाँव	539	लोकेन्द्रसिंह मिश्रसिंह	से 587	चुनिया परसिया		
		13	धरगाँव	588	कलाबाई छज्जुलाल	से 636	बालमुकुंद भक्कण		
		14	धरगाँव	638	लक्ष्मीबाई नत्थुजी	से 672	सुशिलाबाई भगवान		
		15	धरगाँव	673	रामेश्वर धन्नालाल	से 713	शंकर गुलाबचंद		
		16	धरगाँव	716	सरसतबाई भगवान	से 787क	राजेश श्रीराम		
		17	धरगाँव	788	धीसालाल औंकारलाल	से 855	फुलचंद बोखार		
		18	धरगाँव	858	ताराबाई लक्ष्मण	से 921	शंकर तेजसिंह		
		19	धरगाँव	922	फूलसिंह दित्या	से 969	दुर्गा कालु		
		20	धरगाँव	972	दिनेश राजाराम	से 1010	भददु पातल्या		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
39	करोदिया	1	करोदिया	1	सतीश हरिनारायण	से 28	कन्हैया प्यारचंद	अ.जा.	4
		2	करोदिया	32	मांगीबाई ख्यालीराम	से 61	हरकचंद रामाजी	अ.ज.जा.	10
		3	करोदिया	62	नारायण बालुजी	से 81/क	कैलाश रामलाल	पि. वर्ग	1
		4	करोदिया	81ख	कृष्णचंद्र रामाजी	से 96	कन्हैया छगन	अनारक्षित	5
		5	करोदिया	98	गणपत शोभाराम	से 123	गजानंद जगननाथ	अ.जा. महिला	2
		6	करोदिया	124	सुखदेव जगन्नाथ	से 136	सिताराम राजाराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	करोदिया	137	नारायण गणपत	से 154	सदाशिव रामाजरा	पि.वर्ग महिला	1
		8	करोदिया	155	देवकीबाई रामेश्वर	से 169	सुखदेव लालचंद्र	अनारक्षित महिला	3
		9	करोदिया	172	गोविन्द रूपचंद	से 190	रामलाल भिल्या		
		10	करोदिया	191	मुकेश अम्बाराम	से 208/क	रेखाबाई दिलिप		
		11	करोदिया	209	मंगत्या सडीया	से 197	मालतीबाई कृष्णचंद		
		12	सुल्तानपुरा	1	मानसिंह रामु	से 20	बाबुलाल हुकुमचंद्र		
		13	सुल्तानपुरा	24	मालसिंह दरियाव	से 47	पननालाल फत्तु		
		14	सुल्तानपुरा	47/1	गोपाल मंगलया	से 55/2	जगदीश दरियाव		
		15	सुल्तानपुरा	56	जगदीश रामा	से 70/1	गोपाल बुदिया		
		16	सुल्तानपुरा	70/2	मनोहर गोपाल	से 89	नारायण धन्नालाल		
		17	सुल्तानपुरा	89/क	नानुराम धन्नाला	से 103	पुनमचंद्र रूपसिंह		
		18	सुल्तानपुरा	104	शांताबाई कैलाश	से 113	बालु हिरालाल		
		19	सुल्तानपुरा	114	बलवंत बालमकुन्द	से 128	दुल्लिचंद मुकुन्द		
		20	सुल्तानपुरा	130	कमलाबाई कालु	से 155	संतोष भोलुजी		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
40	नान्द्रा	1	नान्द्रा	1	सत्येन्द्र नारायण	से 38	राधेश्याम मांगीलाल	अ.जा.	5
		2	नान्द्रा	39	धन्नालाल बेचर	से 73	ताराचंद गणपत	अ.ज.जा.	10
		3	नान्द्रा	74	भुवानीराम द्वारका	से 113	रामचन्द्र नत्थु	पि. वर्ग	0
		4	नान्द्रा	114	राधेश्याम रेवाजी	से 143	भगवान रामा	अनारक्षित	5
		5	नान्द्रा	148	आशा इन्द्र	से 190	रामेश्वर बालुजी	अ.जा. महिला	3
		6	नान्द्रा	196	कालु नहारसिंग	से 236	जावेद पप्पु	अ.ज.जा. महिला	5
		7	नान्द्रा	238	आमना बाबु	से 291	वासुदेव नत्थु	पि.वर्ग महिला	0
		8	नान्द्रा	292	लक्ष्मीनारायण मोहन	से 336	आशिष पुनमचन्द्र	अनारक्षित महिला	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	नान्द्रा	9	नान्द्रा 337	भगवान सीताराम से 379	लेखराम फतुलाल
		10	नान्द्रा 380	जगन्नाथ चुन्निलाल से 411/2	भगवान अमरिया
		11	गढी 1	चौद मो. धिस्या से 47	निल्या श्रवण
		12	गढी 48	सागरबाई शोभाराम से 95	सकुरखॉ धिस्या
		13	गढी 96	फुलचंद प्यारा से 129ग	राधेश्याम घनश्याम
		14	गढी 129घ	कैलाश बालाराम से 417	रामसिंह गणपत
			टिगरीयांव 1	सुरेश बाबुलाल से 9	सोनाली सुनिल
	चौगावॉ	15	1	ममता गुडड से 36	महादेव शंकर
	चौगावॉ	16	37	जगदीश देवाजी से 75	रेखा रामचन्द्र
	चौगावॉ	17	76	कुननबाई शेरू से 120	कडवा गोविन्द
	चौगावॉ	18	121	रामलाल पुना से 169	मनोहर कालु
	चौगावॉ	19	170	कालु बनिया से 209	अम्बाराम नत्थु
	चौगावॉ	20	210	बनसीबाई बालाराम से 442	गायत्री पुनमचन्द

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
41	देवपिपल्या	1	देवपिपल्या	1क	बालुराम हिरालाल	से 16	जमनाबाई रामा	अ.जा.	5
		2	देवपिपल्या	17	अनोकचंद मांगीलाल	से 44	भगवान देवगीर	अ.ज.जा.	8
		3	देवपिपल्या	46/1	जगदीश मंगत्या	से 64क	गणेश तोत्या	पि. वर्ग	0
		4	देवपिपल्या	65	गणेश हिरालाल	से 72	मगनबाई मिट्टु	अनारक्षित	2
		5	देवपिपल्या	74	रणछोड़ रूखडुजी	से 92	रूखमणी देवा	अ.जा. महिला	3
		6	देवपिपल्या	93	हरचंद गणपत	से 113	मांग्या छितर	अ.ज.जा. महिला	4
		7	देवपिपल्या	114	नत्थु जीवा	से 131	धन्या बाल्या	पि.वर्ग महिला	0
		8	देवपिपल्या	133	कड़वीबाई ताराचंद	से 231	मुकेश आत्माराम	अनारक्षित महिला	1
	बोरदा	9	1	जसोदाबाई राजाराम	से 21	दुर्गाबाई मार्तनराव			
	पालदा	10	3	भुरेखा प्यारा	से 29	गेंदाबाई नत्थु			
	पालदा	11	30	चुन्नीलाल मांगीलाल	से 50	राधेश्याम मंगत्या			
	पालदा	12	52	बाबुलाल छितर	से 73	तुकाराम जगन			
	पालदा	13	75	नानुबाई तेजा	से 96क	बाल्या गप्पु			
	पालदा	14	97	राजकुवर जगदीश	से 108थ	बलराम शोभाराम			
	पालदा	15	108द	गोविन्द किशन	से 115	बल्लु सालम			

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
42	मंदौरी	1	मंदौरी	1	भगवान पुनमचंद	से 13	उमाशंकर पांचीलाल	अ.जा.	2
		2	मंदौरी	13क	हरिराम पांचीलाल	से 31	भगवान मोतीराम	अ.ज.जा.	5
		3	मंदौरी	33	खुमानसिंह राल्या	से 52	सुखलाल शोभाराम	पि. वर्ग	1
		4	मंदौरी	53	शोभाराम पुनमचंद	से 67	शंकरलाल दगडु	अनारक्षित	2
		5	मंदौरी	68	श्रीपति गणपत	से 81	रेवाबाई मोतीराम	अ.जा. महिला	1
		6	मंदौरी	83	रामेश्वर दशरथ	से 102	लक्ष्मण जगन्नाथ	अ.ज.जा. महिला	3
		7	मंदौरी	103	जसवंत गुलाबचंद	से 122क	शोभाराम खेमा	पि.वर्ग महिला	1
		8	मंदौरी	123	घीसालाल अमरचंद	से 142	बुदिया सखाराम	अनारक्षित महिला	1
		9	मंदौरी	143	सीताराम कुरिया	से 161	तेरसिंह जुबानसिंह		
		10	मंदौरी	161क	सुकराम रमेश	से 179	शेरू फत्तु		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
43	भुदरी	1	भुदरी	1	रत्नाबाई गप्पु	से 30	शांताबाई आंकार	अ.जा.	1
		2	भुदरी	30क	लिलाबाई भागीरथ	से 55क	मुकेश नत्थुलाल	अ.ज.जा.	10
		3	भुदरी	56	सीताबाई धनश्याम	से 77	रायसिंह श्यामा	पि. वर्ग	4
		4	भुदरी	78	मिडिया परसराम	से 109	सुन्दरबाई हिरालाल	अनारक्षित	5
		5	भुदरी	110	मंगलसिंह जयसिंह	से 134	जेत्या हरचंद	अ.जा. महिला	1
		6	भुदरी	136	हदियालालचंद	से 164/ख	नंदु भागीरथ	अ.ज.जा. महिला	5
		7	भुदरी	166	सरसत धुमसिंह	से 187	कालीबाई पप्पु	पि.वर्ग महिला	2
		8	भुदरी	188	फुलसिंह रूपचंद	से 224	झबरसिंह नत्थु	अनारक्षित महिला	3
		9	भुदरी	225	मांगीबाई नत्थु	से 230	माधु रूखडु		
		10	भुदरी	231	सारोबाई कवरसिंह	से 254	फुन्दा बाबुलाल		
		11	भुदरी	257	भगवान चुन्नीलाल	से 282	मोहनलाल झालाराम		
		12	भुदरी	285	नेमिचंद हिरालाल	से 307	बाबु बोंदर		
		13	भुदरी	309	नथी बाबुलाल	से 334	काशीराम हिरालाल		
		14	भुदरी	335	किशन भगीरथ	से 267/2क	ताराचंद अमिचंद		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	भुदरी	15	भुदरी 267/2/ख	महेश अनोकचंद	से 392	रायचंद बाल्या
		16	भुदरी 394	नेमिचंद बाल्या	से 417	भिकमचंद कालु
		17	भुदरी 419	नल्लु टुटला	से 456	रूपेश किशन
		18	माथन्या 1	आशाराम बाबु	से 31	हरेसिंह धन्नालाल
		19	माथन्या 32	झांगलीबाई धन्नालाल	से 55/2/ख	वासुदेव रमेश
		20	अहिल्यापुरा 1	पुनीबाई लक्ष्मण	से 7क	संतोष दयाराम

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
44	पेमपुरा	1	पेमपुरा	1	किरण सुरेश	से 14क	संगीता मनोहर	अ.जा.	4
		2	पेमपुरा	15	दिनेश भागचंद	से 26	सोबु शिवना	अ.ज.जा.	8
		3	पेमपुरा	28	गप्पु आपा	से 43	किरण सुरेश	पि. वर्ग	0
		4	पेमपुरा	46	बाल्या गप्पु	से 59	समसादबी मुजफर	अनारक्षित	3
		5	पेमपुरा	59क	कौशलया प्रेमसिंह	से 73	ईरफान मुजाद	अ.जा. महिला	2
		6	पेमपुरा	74	सुल्तान हसन	से 84	नानुबाई मोहन	अ.ज.जा. महिला	4
		7	पेमपुरा	85	किशन टन्दु	से 96	कविता जगदीश	पि.वर्ग महिला	0
		8	पेमपुरा	96क	हरी सोनसिंह	से 111	खतुनबी रफीजु	अनारक्षित महिला	2
		9	पेमपुरा	112	आबिदाबी हनीफ	से 121	वर्षा मधवसिंह		
		10	रोश्याबारी	1	कालीबाई नाधा	से 11	कोमसिंह रामसिंह		
		11	रोश्याबारी	11क	अमरसिंह गन्या	से 17क	विजय भवसिंह		
		12	रोश्याबारी	18	आदेश नारायण	से 25	रजनी सुरेसिंह		
		13	रोश्याबारी	26	दयाराम बुदिया	से 36	ममता अर्जुन		
		14	रोश्याबारी	37	बसुबाई रामसिंह	से 2	सवितष प्रतापसिंह		
		15	रोश्याबारी जिरात	3	बसन्तीबाई चतरसिंह	से 17	मैना प्रभुलाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
45	बलसगाँव	1	बलसगाँव	1	सेजा दल्लु	से 13	ज्ञानचंद हिरा	अ.जा.	3
		2	बलसगाँव	14	बिहारी हीरा	से 30क	दीपक भवेन्द्र	अ.ज.जा.	9
		3	बलसगाँव	31	लाल पाला	से 44	सुन्नाबी गुलमोहम्मद	पि. वर्ग	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बलसगाँव	4	बलसगाँव	45 जीन्नाबी बाबु	से 53	हीरूबाई रामा अनारक्षित	4
	5	बलसगाँव	54 देवीबाई लाल	से 66	लक्ष्मण नारायण अ.जा. महिला	2
	6	बलसगाँव	67 देवा बाबला	से 78	पुनी जीवा अ.ज.जा. महिला	5
	7	बलसगाँव	80 पुन्या मंगत्या	से 89	धनसिंह पन्नालाल पि.वर्ग महिला	1
	8	बलसगाँव	90 मोरसिंग रामसिंह	से 96झ	हीरालाल बुदिया अनारक्षित महिला	2
	9	बलसगाँव	96ध बहादर नाना	से 110	आला रता	
	10	रामदड	1 मन्नु हरचंद	से 7	धापू नत्थु	
	11	रामदड	8 मोत्या जैसिंग	से 15	बबलु अनार	
	12	रामदड	17 भीमा गुलाब	से 25	नत्थीबाई गेंदालाल	
	13	रामदड	27 रूपा रतन	से 39ख	भीमा आँकार	
	14	रामदड	40 सुकमा सिकदार	से 48ख	जीवा लक्ष्मण	
	15	रामदड	49 मानुसर विश्राम	से 55	मैना बाबु	
	16	सिराल्या	1क देवा सुरजा	से 15	देवा नत्थु	
	17	सिराल्या	16 शिव नत्थु	से 43	सुनेश शिव	

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
46	घट्याबैडी	1	घट्याबैडी	1 मनोहर गोटीलाल	से 10	गोदावरी बद्रीलाल	अ.जा.	2	
		2	घट्याबैडी	11 सुशीला सुरजा	से 30	मीनाबाई ओमप्रकाश	अ.ज.जा.	7	
		3	घट्याबैडी	31 मंगत राजमल	से 47	गबरू मांगीलाल	पि. वर्ग	2	
		4	घट्याबैडी	48 चन्ना मांगीलाल	से 60	गीताबाई चंदर	अनारक्षित	3	
		5	घट्याबैडी	61 मीराबाई नाना	से 80	भैरूसिंह रतन	अ.जा. महिला	1	
		6	घट्याबैडी	81 गडडु मुलचंद	से 97	कुसुमबाई रामराज	अ.ज.जा. महिला	4	
		7	घट्याबैडी	98 छोगालाल रामा	से 120	चंपाबाई कालु	पि.वर्ग महिला	1	
		8	घट्याबैडी	121 ज्ञानीबाई खेमा	से 136/1	छगनबाई रूघनाथ	अनारक्षित महिला	2	
		9	घट्याबैडी	137 गिरधर भागीरथ	से 149	सकुनबाई टेलुराम			
		10	घट्याबैडी	150 रामकृष्ण तुकाराम	से 165	भगवानसिंह दयाधीन			
		11	घट्याबैडी	166 कन्हैया पन्नालाल	से 178	भादर टन्टु			
		12	मोहन्या	1 गोविन्दसिंह प्रतापसिंह	से 17	ध्यानसिंह मोजीलाल			
		13	मोहन्या	18 रामसिंग सखाराम	से 38	विद्याबाई सीताराम			
		14	मोहन्या	39 विद्याबाई गंगाराम	से 47	मदनसिंह काना			

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
47	करोदियाखुर्द	1	करोदियाखुर्द	1	राधेश्याम शोभाराम	से 14	नारायण प्रेमचन्द	अ.जा.	5
		2	करोदियाखुर्द	15	ताराचंद बाबुलाल	से 32	सीताराम लक्ष्मण	अ.ज.जा.	9
		3	करोदियाखुर्द	33	रामा मन्जा	से 60	अनारबाई सीताराम	पि. वर्ग	0
		4	करोदियाखुर्द	61	बाबु गंगाराम	से 77	रमेश सखाराम	अनारक्षित	4
		5	करोदियाखुर्द	78	नहारू सखाराम	से 92	सुखदेव करसन	अ.जा. महिला	3
		6	करोदियाखुर्द	94	बसन्त बहादरलाल	से 107	प्रकाश नत्थु	अ.ज.जा. महिला	5
		7	करोदियाखुर्द	108	इंदरसिंह विजयसिंह	से 126क	नाना बाल्या	पि.वर्ग महिला	0
		8	करोदियाखुर्द	126ख	मोहन बाल्या	से 141	ऐडु बाल्या	अनारक्षित महिला	2
		9	करोदियाखुर्द	144	मंगतसिंह अम्बाराम	से 159	सुखचंद अम्बाराम		
		10	करोदियाखुर्द	160	नन्नु प्रेमचंद	से 171क	धनसिंह अम्बाराम		
		11	करोदियाखुर्द	172	धिस्या दगडिया	से 181	योगेश संतोष		
		12	पाडल्या बुजुर्ग	1	भाईराम रामकिशन	से 17	झबरसिंह गंगाराम		
		13	पाडल्या बुजुर्ग	18	सावित्री मिश्रीलाल	से 31	सुखदेव बोदर		
		14	पाडल्या बुजुर्ग	32	रामेश्वर गप्पु	से 48	मांगीलाल छितु		
		15	पाडल्या बुजुर्ग	49	मंशाराम झापुसिंह	से 61	रामसिंह भग्या		
		16	पाडल्या बुजुर्ग	62	कमलसिंह पुनमचन्द	से 73	निर्भयसिंह केशरसिंह		
		17	पाडल्या बुजुर्ग	74	ओमप्रकाश जगन्नाथ	से 87	जोरया गोकुल		
		18	पाडल्या बुजुर्ग	87क	प्रकाश जगन	से 106	मंशाराम मथाराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
48	होदडिया	1	होदडिया	1	तुकाराम गजानंद	से 11छ	जगन्नाथ प्रेमचंद	अ.जा.	4
		2	होदडिया	11ज	गुलाबसिंह मोतीसिंह	से 31क	रमेशचंद जगन्नाथ	अ.ज.जा.	10
		3	होदडिया	32	जगन्नाथ गणपत	से 52क	ररहीस हबीब	पि. वर्ग	1
		4	होदडिया	54	यासीनखॉ नजीमखॉ	से 79क	सुजानसिंह मेहरान	अनारक्षित	5
		5	होदडिया	80	प्रभु बाबु	से 95ग	रमेश ज्योतिराम	अ.जा. महिला	2
		6	होदडिया	96	घीसीबाई काशीराम	से 104	अनोपचंद भवानीराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	होदडिया	106	जानकीबाई शांतिलाल	से 151	मुंशी बाल्या	पि.वर्ग महिला	1
		8	जामन्या	2	गोविन्द मोतीराम	से 17	अशोक राधकिशन	अनारक्षित महिला	3
		9	जामन्या	20	देवकरण नरसिंग	से 38	मदन आमरिया		
		10	जामन्या	39	रघु गलसिंह	से 51क	शांतिलाल बाला		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	होदडिया	11	जामन्या	52	केशरिया सखाराम	से 64ख	दुलीचंद कर्सन
		12	जामन्या	64ग	कालु रामचंद	से 87	डोंगर करणसिंह
		13	जामन्या	87	हरनासिंह केशर	से 105	सुरेश छितु
		14	जामन्या	105ख	भग्या गुमान	से 118	देवा जीवा
		15	जामन्या	118क	विश्राम भुरा	से 124च	रामलाल सुक्या
		16	जामन्या	124छ	फुलचंद सुक्या	से 137	रामेश्वर मांगीलाल
		17	जामन्या	138	पुनमचंद ओंकार	से 149	सुंदरसिंह मयाराम
	करोँदिया बुजुर्ग	18	155	पुंजीबाई मदन	से 169क	चैनसिंह दशरथ	
	करोँदिया बुजुर्ग	19	169क	भवर बुरकिया	से 183	फाता ओंकार	
	करोँदिया बुजुर्ग हिरापुर	20	183	मुलीबाई दाना	से 191	रेखाबाई हुकुमचंद	

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गाँव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
49	बिलवावडी	1	बिलवावडी	1	पुनमचंद धिस्या	से 11ख	हरिराम बल्लु	अ.जा.	8
		2	बिलवावडी	15	नारायण घनश्याम	से 34	द्वारकीबाई पुनमचंद	अ.ज.जा.	10
		3	बिलवावडी	36	बाबूलाल मोतीलाल	से 62	ताराचंद जीवा	पि. वर्ग	0
		4	बिलवावडी	63	तोताराम मांग्या	से 80	सखाराम बाग्या	अनारक्षित	1
		5	बिलवावडी	81	भगवान जीवा	से 105	मुकेश फकिरचंद	अ.जा. महिला	4
		6	चिनगुन	1	कालू शंकर	से 16	मोतीलाल नानुराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	चिनगुन	17	रमेश कालु	से 37	रामा नरसिंग	पि.वर्ग महिला	0
		8	चिनगुन	39	खेमा उदिया	से 51क	सुभाष लक्ष्मण	अनारक्षित महिला	1
		9	चिनगुन	52	नत्थु रघुनाथ	से 66	गोविन्द गणपत		
		10	चिनगुन	67	रमेश रामा	से 83	रामचंद्र लक्ष्मण		
		11	चिनगुन	84	ताराचंद रामरतन	से 111	दगडु पेमा		
		12	चिनगुन	112	हुकुम कुतरिया	से 129	शांताबाई बल्लु		
		13	चिनगुन	130	सुमनबाई कालुराम	से 152	कडवा घनश्याम		
		14	चिनगुन	153	मिश्रीलाल केरिया	से 166क	परसराम मोतिया		
		15	रनगुन	1	मोत्या तात्या	से 72	भगवान दयाराम		
	मुण्डयाखेडा	16	1	रूपसिंह बल्लु	से 18ब	राजाराम नत्थु			
	मुण्डयाखेडा	17	19	सखाराम नत्थु	से 34	तुकाराम दित्या			
	मुण्डयाखेडा	18	35	करणसिंह बोखार	से 48	शांताबाई बल्लु			
	मुण्डयाखेडा	19	49	दयाराम चंपालाल	से 65	करसन मुरार			

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
50	कवाणा	1	कवाणा	5	राजलबाई पुनमचंद	से 28क	सुभाषचंद अमरचंद	अ.जा.	4
		2	कवाणा	28ख	लक्ष्मी भुवानीराम	से 46ख	गोविन्द पुनाजी	अ.ज.जा.	8
		3	कवाणा	47	सदानंद शोभाराम	से 61क	कुंवरजी सीताराम	पि. वर्ग	0
		4	कवाणा	62	पुनीबाई हिरालाल	से 85	हीरासिंह महेन्द्रसिंह	अनारक्षित	3
		5	कवाणा	85क	सुरजपाल प्रजापालसिंह	से 105	कैलाशसिंह किशनसिंह	अ.जा. महिला	2
		6	कवाणा	106	राजकुंवर रणजीत सिंह	से 121क	तोताराम भागीरथ	अ.ज.जा. महिला	4
		7	कवाणा	122	लाड़कीबाई मोहन	से 142	नानी हुसैनखाँ	पि.वर्ग महिला	0
		8	कवाणा	143	कमला चम्पालाल	से 167	लक्ष्मी सीताराम	अनारक्षित महिला	2
		9	कवाणा	168	गेंदालाल धन्नालाल	से 186	सुमन बलराम		
		10	कवाणा	187	रूखड़ीया गंगाराम	से 197क	दिनेश अंकार		
		11	कवाणा	197क	फत्तु हरिकिशन	से 212घ	डोंगरसिंह रूघनाथ		
		12	कवाणा	213	आनंदगीर प्रेमगीर	से 231	ललिता अमरसिंह		
		13	कवाणा	232	हजराबी इकलाब	से 242क	संतोष हरि		
		14	कवाणा	242ख	भगवान किशन	से 262	कमला कैलाश		
		15	कवाणा	263	कला हुकुम	से 285घ	जगदीश चिंदर		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
51	नागझिरी	1	नागझिरी	1	पुजा नवीन	से 13	शिवाजी केशवराव	अ.जा.	5
		2	नागझिरी	14	भगवतराव केशव	से 29	बलीराम मांगीलाल	अ.ज.जा.	10
		3	नागझिरी	30	रणछोड़ भगा	से 42ग	मोहन कड़वा	पि. वर्ग	0
		4	नागझिरी	43	जगदीश शिवा	से 61	नगीन अमरसिंह	अनारक्षित	5
		5	नागझिरी	62	चतुरबाई बुदिया	से 71	भागीरथ बाबू	अ.जा. महिला	3
		6	नागझिरी	72	भवानीराम बाबु	से 86क	रेवाराम गंगाराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	नागझिरी	87	ममता रामेश्वर	से 107	जगदीश बोखार	पि.वर्ग महिला	0
		8	नागझिरी	108	भुरीबाई गोकुल	से 122	काशीराम गेंदालाल	अनारक्षित महिला	3
		9	नागझिरी	123	किरण रामलाल	से 138	कालु कान्या		
		10	नागझिरी	139	विश्राम जीवा	से 150ग	बाला सिताराम		
		11	नागझिरी	151	जगदीश प्रेमचंद	से 157	बिहारी लालचंद		
		12	नागझिरी	158	बसुबाई प्रेमचंद	से 174	गोविन्द अमरसिंह		
		13	नागझिरी	175	सखाराम बाबु	से 200	मयाराम बिसन		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
		14	नागझिरी	200क	यशोदा बाबु	से 224	आत्माराम प्यारा		
		15	निमसर	1	जोरावरसिंह उम्मेद	से 23	पुनमचंद जसवंत		
		16	निमसर	24	छतरसिंह गणपत	से 42ख	मुकेश भुवानीराम		
		17	निमसर	43	भागीरथ दशरथ	से 62	सुरज खेमाजी		
		18	निमसर	63	शंकरसिंह मनोहर	से 76	गोविन्द करणसिंह		
		19	निमसर	77	रामसिंह कमलसिंह	से 94	करतारसिंह मांगीलाल		
		20	निमसर	95	राधेश्याम पर्वत	से 123	मांगीलाल नारायण		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
52	वणी	1	वणी	1	अजय विजय	से 17	गोवीन्द बाला	अ.जा.	4
		2	वणी	18	गोरेबाई बिसन	से 31	मंशाराम बाबु	अ.ज.जा.	9
		3	वणी	33	उमाशंकर छितर	से 57	राधेश्याम रामा	पि. वर्ग	0
		4	वणी	58	दगडु चीमाजी	से 74	रमेश अमरा	अनारक्षित	4
		5	वणी	75	मोहनलाल हिरालाल	से 97	तीतुर बाबु	अ.जा. महिला	2
		6	वणी	98	झीगु सन्तु	से 124	रामचन्द्र दगडु	अ.ज.जा. महिला	5
		7	वणी	125	कल्पना विष्णु	से 140	कड़वा पुन्या	पि.वर्ग महिला	0
		8	वणी	141	कालीबाई श्रवण	से 156	नारायण बाबु	अनारक्षित महिला	2
		9	वणी	157	गंगा छोगालाल	से 170	कड़वी पदम		
		10	वणी	171	श्याणी छगन	से 189	कड़वा बाबु		
		11	वणी	190	भगवान मांगीलाल	से 214क	गट्या नत्थु		
		12	वणी	215	लक्ष्मण बरस्या	से 333	बालाराम अमरिया		
		13	बबलाई खुर्द	1	राजकुवर लक्ष्मण	से 19	उंकार मोत्या		
		14	बबलाई खुर्द	20	लक्ष्मण नत्थु	से 30	कलाबाई सुकम		
		15	बबलाई खुर्द	31	कोलीया रूपा	से 39	मांगीलाल काशीराम		
		16	बबलाई खुर्द	39क	गेंदाबाई मिश्रीलाल	से 63	गोराबाई करसन		
		17	बबलाई खुर्द	63क	मानीबाई छगन	से 78	शोभाराम मुरार		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
53	कोदलाखेडी	1	खेडी	0	लखन गेंदालाल	से 20	संतोष तुकाराम	अ.जा.	9
		2	खेडी	21	शिवराम कान्हा	से 39	बाबुलाल सुरेश	अ.ज.जा.	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	3	खेडी	40 होलरबाई छौग्या	से 62क	शेरू बोंदर	पि. वर्ग	0
	4	खेडी	63 बोखार नाना	से 84	चम्पालाल मांगीलाल	अनारक्षित	1
	5	खेडी	85 जशोदाबाई बद्रीलाल	से 108	फुंदाबाई नानुराम	अ.जा. महिला	5
	6	खेडी	109 डालुराम चम्पालाल	से 130क	चंदरसिंह मोतीलाल	अ.ज.जा. महिला	5
	7	खेडी	131 पुनाबाई गुलाबसिंह	से 151	देवीसिंह बाल्या	पि.वर्ग महिला	0
	8	खेडी	152 कडवा गोपाल	से 225	अनिता शेलेन्द्र	अनारक्षित महिला	1
	9	कोदला	2 भुरीबाई तुलाराम	से 19	ताराबाई राजाराम		
	10	कोदला	19क बहादर बाबु	से 30	गबु रामा		
	11	कोदला	32 बोंदरबाई इंदर	से 47	तोताराम जगन्नाथ		
	12	कोदला	48 गोकुल नरसिंह	से 205	बोखार दगडिया		
	13	गगनतालाब	1 नानीबाई रामसिंह	से 21	डालु सखाराम		
	14	गगनतालाब	21क हरीसिंह सखाराम	से 41	पुन्या सडिया		
	15	गगनतालाब	42 कलाबाई घीस्या	से 60	बाबुलाल दिपा		
	16	बोरवावडिया	1 राजेन्द्र सदाशिव	से 17	भग्या दामा		
	17	बोरवावडिया	17/1 डालुराम दामा	से 31/2	मुकेश चन्दर		
	18	बोरवावडिया	32 डालुराम छोगालाल	से 51	कमलाबाई महेन्द्र		
	19	बोरवावडिया	52 काशीराम बालु	से 67/1	मुनालाल गुलाब		
	20	बोरवावडिया	68 कलाबाई सुखलाल	से 85	विजय कडवा		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	
54	बन्देरा	1	बन्देरा	1	हेमलता बंसत	से 16ख	गुलका गजानंद	अ.जा.	7
		2	बन्देरा	16ग	प्रभुलाल मांगीलाल	से 39	रेखा राजेश	अ.ज.जा.	10
		3	बन्देरा	40	भगवान गणपत	से 63/2	साधना अजय	पि. वर्ग	0
		4	बन्देरा	64	सुखलाल कालु	से 87	राकेश इंदरसिंह	अनारक्षित	3
		5	बन्देरा	88	बाबूसिंह गणपतसिंह	से 107क	प्रभाबाई देवचंद	अ.जा. महिला	4
		6	बन्देरा	108	कृष्णचंद्र मांगीलाल	से 130	जगदेव कृष्णचंद	अ.ज.जा. महिला	5
		7	बन्देरा	131	भगवान पुनमचंद	से 150	अनारसिंह चैनसिंह	पि.वर्ग महिला	0
		8	बन्देरा	151	जगन्नाथ रेवाजी	से 168	शिवराम सीतराम	अनारक्षित महिला	2
		9	बन्देरा	169	अंबाराम बंकट	से 188	नारायण बालूजी		
		10	बन्देरा	189	गंगाराम बालुजी	से 211	ज्ञानचंद बाबु		
		11	बन्देरा	212	सुन्दरबाई अंबाराम	से 237	फुलचंद हिरालाल		
		12	बन्देरा	237क	भागीरथ मांगीलाल	से 262क	ठाकुरसिंह राजाराम		
		13	बन्देरा	263	फत्तु हिरालाल	से 271घ	मांगीलाल नरसिंह		
		सुर्वा		272	भग्या घिसा	से 278घ	नरसिंह मांगीलाल		
		14	माल्याखेड़ी	1	रूखडिया दयाराम	से 28	त्रिलोक शेरू		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		15	माल्याखेड़ी	29	बनसिंह छगन	से 47	भावसिंह गंगाराम
		16	माल्याखेड़ी	48	रमेश दयाराम	से 68	महेश रूपा
		17	माल्याखेड़ी	70	गोविन्द बाबुलाल	से 85	किशन प्यारा
		18	माल्याखेड़ी	86	लक्ष्मी बलराम	से 108	गुलाब लाल्या
		19	माल्याखेड़ी	109	मिश्रीबाई गजानंद	से 130	रामचंद्र गंगाराम
		20	माल्याखेड़ी	131	हिरालाल गणपत	से 161	रमेश गरिबो

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)	
55	कतरगाँव	1	कतरगाँव	1क	शलु केगला	से 21	ताराबाई रमेश	अ.जा.	7	
		2	कतरगाँव	21क	कैलाश सिताराम	से 30	कैलाश चम्पालाल	अ.ज.जा.	10	
		3	कतरगाँव		31	भुवानीराम बालुजी	से 52	अजय राधेश्याम	पि. वर्ग	0
		4	कतरगाँव		53	लक्ष्मीबाई भुवानीराम	से 68	गुल्लु कालु	अनारक्षित	3
		5	कतरगाँव		69	डालुराम गणपत	से 91	विमलचन्द स्वरूपचन्द	अ.जा. महिला	4
		6	कतरगाँव		92	विष्णु हिरराम	से 117	अम्बाराम नानाजी	अ.ज.जा. महिला	5
		7	कतरगाँव		118	गोपाल बाल्या	से 146	भीगीरथ आत्माराम	पि.वर्ग महिला	0
		8	कतरगाँव		147	शकुन्तला शिवराम	से 164	कैलाश फत्तु	अनारक्षित महिला	2
		9	कतरगाँव		165	शोभाराम खेमाजी	से 192	कालु इदुलाल		
		10	कतरगाँव		192क	बालाराम सामला	से 205ख	हरिगीर देवगीर		
		11	कतरगाँव		206	अजुखॉ नबीया	से 220	रणछोड़ ठाकुरलाल		
		12	कतरगाँव		221	रमेश मथुरालाल	से 234	अशोक राजाराम		
		13	कतरगाँव		239	नत्थुलाल ओंकार	से 252ग	बद्री जगन		
		14	कतरगाँव		252घ	गंगाराम जगन	से 273	संतोष जयसिंह		
		15	मोहम्मदपुरा		7	मधुबाई शोभाराम	से 15	संतोष जयसिंह		
		16	मोहम्मदपुरा		16	मांगीलाल नत्थु	से 30क	रघुनाथ सरदारजी		
		17	मोहम्मदपुरा		32	राजुबाई सुरेशचंद्र	से 50क	रतनसिंह बाघसिंह		
		18	मोहम्मदपुरा		50ख	दिलिप नरसिंह	से 62क	शेरसिंह रणछोड़		
		19	मोहम्मदपुरा		64	छोग्या जोग्या	से 84	मांगीलाल ओंकार		
		20	मोहम्मदपुरा		86	गजानन्द गणपत	से 104	कालु गणपत		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
56	बहेगाँव	1	बहेगाँव	3ग	बलराम रेवाराम	से 60	गुलाबचंद दशरथ	अ.जा.	3
		2	बहेगाँव	65	कडवा राजाराम	से 91	शेरसिंह रामा	अ.ज.जा.	10
		3	बहेगाँव	92	शौभाराम शंकर	से 121	कलाबाई बोखार	पि. वर्ग	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	4	बहेगाँव	122 विष्णु नत्थु	से 140क	अर्चना अखिलेश अनारक्षित	5
	5	बहेगाँव	142 लाडकीबाई जगन्नाथ	से 183	शिवराम गोवन्दि अ.जा. महिला	2
	6	बहेगाँव	184 भगवान गोविन्द	से 287	कमल मंशाराम अ.ज.जा. महिला	5
	7	बहेगाँव	288 लक्ष्मीबाई गजानंद	से 324	मंशाराम भागचंद पि.वर्ग महिला	1
	8	बहेगाँव	325 सेवकराम राजाराम	से 356	महेन्द्र नत्थु अनारक्षित महिला	3
	9	बहेगाँव	357 विरेन्द्र नत्थु	से 398	कैलाश निल्या	
	10	बहेगाँव	203 लालचंद रेवाजी	से 227	हरिराम काशीराम	
	11	बहेगाँव	227 कैलाश मंशाराम	से 245	केशरबाई शौभाराम	
	12	बहेगाँव	247 गोपीचंद बालु	से 263	पुनमचंद बोंदर	
	13	बहेगाँव	264 प्यारेलाल गोपाल	से 277	श्याम बाला	
	14	कुम्भ्या	1क जगदीश निल्या	से 25क	ताराचंद सखाराम	
	15	कुम्भ्या	26 गुलाबबाई दगडु	से 41	श्रीराम डालुराम	
	16	कुम्भ्या	42 मांगीलाल गणपत	से 65	अंबाराम मंशाराम	
	17	कुम्भ्या	66 गंगाराम मंशाराम	से 90	रामकुवरबाई भगवान	
	18	कुम्भ्या	90 अनिल हरिराम	से 108	रामेश्वर शौभाराम	
	19	कुम्भ्या	109 राजाराम सखाराम	से 135	दौलतसिंह रामा	
	20	कुम्भ्या	136 ध्यानसिंह मांगीलाल	से 163	भजन सखाराम	

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)		
57	पिटामली	1	पिटामली	1	सेवकाराम नत्थु	से 13	देवराम गणपत	अ.जा.	4
		2	पिटामली	14	भलाजी सीताराम	से 23	भीकाजी रणछोड़	अ.ज.जा.	10
		3	पिटामली	24	कडवा नरसिंह	से 36	पुनाजी उन्दा	पि. वर्ग	1
		4	पिटामली	38	गेंदाबाई छोगालाल	से 56ख	नीला चैतराम	अनारक्षित	5
		5	पिटामली	57	चैनसिंग भुवानीराम	से 78	जालम पेमा	अ.जा. महिला	2
		6	पिटामली	79	ग्यारसी भगवान	से 95	मांगीलाल नरसींग	अ.ज.जा. महिला	5
		7	पिटामली	96	औंकार नानुराम	से 113	मांगीलाल करसन	पि.वर्ग महिला	1
		8	पिटामली	114	चम्पालाल शोभाराम	से 124	श्रीराम मयाराम	अनारक्षित महिला	3
		9	पिटामली	125	फुन्दाबाई दशरथ	से 136	मकुन्द शंकर		
		10	पिटामली	138	देवराम बिशन	से 153	चम्पालाल सीताराम		
		11	पिटामली	153क	मनोहर सिताराम	से 162	विक्रम पेमा		
		12	पिटामली	163	हरेसिंग पेमा	से 175	गोपाल हिरा		
		13	पिटामली	176	गोपाल मांगीलाल	से 211	जितेन फत्थु		
		14	पिटामली	212	नानुराम टुकडिया	से 249	बाबु गुलसिंग		
		15	पिटामली	248/1	कैलाश बाबु	से 296	रामलाल गणेश		
		16	पिटामली	297	पेमाबाई आन्नन्दराम	से 316	संतोष घुनुजी		
		17	पिटामली	317	सलोकी पुनमचन्द	से 344	कृष्णा कालु		
		18	पिटामली	345	मानसीग दगडु	से 361	शांतिलाल भेराजी		
		19	पिटामली	362	गेंदालाल मोहन	से 389	करसन दरियाव		
		20	पिटामली	390	परमानंद भुरा	से 413	शोभाराम मुकुन्द		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
58	सिटोका	1	सिटोका	3क	संजय रामचंद्र	से 19	मिश्रीलाल चंपालाल	अ.जा.	2
		2	सिटोका	20	हुकुम चंपालाल	से 33ग	आत्माराम घुसाई	अ.ज.जा.	7
		3	सिटोका	34	नदानबाई नहारसिंह	से 51	छगन गोगा	पि. वर्ग	1
		4	सिटोका	52	आनंदराम शिवलाल	से 75क	शंकर अनोखीलाल	अनारक्षित	3
		5	सिटोका	76	रामलाल भगन	से 90	रूघनाथ धन्नालाल	अ.जा. महिला	1
		6	कवड़िया	3	भारत तुलसीराम	से 15क	कालू बालु	अ.ज.जा. महिला	4
		7	कवड़िया	15ख	फत्तु गोपाल	से 34	तुलसीराम रामलाल	पि.वर्ग महिला	1
		8	कवड़िया	35	नहारसिंह मोहन	से 42	चंपालाल महेकाल	अनारक्षित महिला	2
		9	कवड़िया	43	मानसिंग भगवान	से 67	मनोहर बाल्या		
		10	कवड़िया	68	बसंतीबाई मंगत	से 85	केशरबाई भागीरथ		
		11	कवड़िया	87	कोमल तुलसीराम	से 108	लक्ष्मण मोहन		
		12	कवड़िया	109	मोहन हेमा	से 129	केशव भाईराम		
		13	निमगुल	1	घीस्या फत्तु	से 23	ओमप्रकाश कालुराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
59	सेजगाँव	1	सेजगाँव	4क	गणेश कैलाश	से 21क	मंगतिया सकरिया	अ.जा.	6
		2	सेजगाँव	22	किशन नाना	से 31क	दशरथ मांगी	अ.ज.जा.	10
		3	सेजगाँव	32	भगवान कालु	से 45	गोपाल भिका	पि. वर्ग	0
		4	सेजगाँव	46	मांगीलाल नानक्या	से 62	रामचंद्र नत्थु	अनारक्षित	4
		5	सेजगाँव	63	कृष्णलाल मदनसिंह	से 78	गुलाबबाई दौलत	अ.जा. महिला	3
		6	सेजगाँव	79	तुलसीराम धन्नालाल	से 89	देवीसिंह मोहन	अ.ज.जा. महिला	5
		7	सेजगाँव	90	चिंताराम अर्जुन	से 103	शान्ता बलाराम	पि.वर्ग महिला	0
		8	सेजगाँव	104	परसराम श्रवण	से 118	उमराव जाधव	अनारक्षित महिला	2
		9	सेजगाँव	119	देवराम मदन	से 138क	रमेश चिंदर		
		10	सेजगाँव	139	नानु नत्थु	से 152	डोंगर राजाराम		
		11	सेजगाँव	156	तुलसीराम शिवराम	से 165	भिकाजी लक्ष्मण		
		12	सेजगाँव	166	आत्माराम चिन्ताराम	से 180	प्रभु रामसिंह		
		13	खेडी	1	रईस शेख	से 18	बाबु कालु		
		14	खेडी	19	लीलाबाई मोहन	से 43	तुकाराम राजाराम		
		15	खेडी	44	गुलाबसिंह नरसिंह	से 65	मंशाराम गणपत		
		16	खेडी	66	गोविन्द धन्ना	से 84	रामप्यारी बाबु		
		17	खेडी	85	इंदुबाई देवचन्द	से 104क	अमरसिंह पर्वतसिंह		
		18	उदयपुरा	1	धवलया बाबु	से 15क	काशीराम मांगीलाल		
		19	उदयपुरा	16	घनश्याम रामकिशन	से 43	ज्ञानचंद्र बोदर		
		20	झारा	1	मोजीलाल नरसिंह	से 138क	संतोष चिन्दर		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
60	पिपल्या खुर्द	1	पिपल्या खुर्द	1	बिहारी दिपा	से 15	रमेश सीताराम	अ.जा.	8
		2	पिपल्या खुर्द	16	मांगीलाल श्रवण	से 30	लक्ष्मण पेमा	अ.ज.जा.	8
		3	पिपल्या खुर्द	31	जगदीश सीताराम	से 53	घीसालाल भीमा	पि. वर्ग	0
		4	पिपल्या खुर्द	54	गेंदाबाई बद्रीलाल	से 75	कमला घुसाई	अनारक्षित	0
		5	पिपल्या खुर्द	76	सजनसिंह मोहन	से 92	शौभागसिंह मोहन	अ.जा. महिला	4
		6	पिपल्या खुर्द	93	कालु नरसिंग	से 108	भानुबाई कालुराम	अ.ज.जा. महिला	4
		7	पिपल्या खुर्द	109	मनाजी नानाजी	से 132	भुवानीराम हिरा	पि.वर्ग महिला	0
		8	पिपल्या खुर्द	133	रामा झिता	से 150	छोटेलाल लक्ष्मण	अनारक्षित महिला	0
		9	पिपल्या खुर्द	151	कलाबाई अमरसिंग	से 170	भगवान रामा		
		10	पिपल्या खुर्द	171	राजाराम शौभाराम	से 189	गजानंद फकिरा		
		11	पिपल्या खुर्द	190	रामेश्वर छोटेलाल	से 210	भगवान केशरीमल		
		12	पिपल्या खुर्द	211	जगदीश भुवानीराम	से 229	अंबाराम मांगीलाल		
		13	पिपल्या खुर्द	230	दयाबाई पेमा	से 249	सकाराम मांगीलाल		
		14	पिपल्या खुर्द	250	कमल मांगीलाल	से 262	अशोक भिकनाथ		
		15	पिपल्या खुर्द	263	अजुदयाबाई गरिबनाथ	से 279	प्रेमनाथ गरिबनाथ		
		16	पिपल्या खुर्द	281	मेवलनाथ सुजाननाथ	से 293	सुकरामनाथ बोदरलाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
61	कोगावों	1	कोगावों	1	मयाराम रामा	से 12क	सोनीया तेरसिंग	अ.जा.	7
		2	कोगावों	12ख	सुगन बंशीलाल	से 25	किशोर नरसिंग	अ.ज.जा.	9
		3	कोगावों	27	जड़ाव मंशाराम	से 44	मोतिराम दशरथ	पि. वर्ग	0
		4	कोगावों	44क	कन्हैया दशरथ	से 56क	देवीसिंह भिमसिंह	अनारक्षित	1
		5	कोगावों	57	नुराबाई प्रेमसिंह	से 79	ओमप्रकाश मांगीलाल	अ.जा. महिला	4
		6	कोगावों	80	श्रीधर मांगीलाल	से 93	भागीथर निहाला	अ.ज.जा. महिला	5
		7	कोगावों	94	बाबुलाल लालाजी	से 105	छितर रूपाजी	पि.वर्ग महिला	0
		8	कोगावों	106	गोपाल किशन	से 122क	ताराचंद ऐड़ीया	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	कोगावॉ	9	कोगावॉ	124	माया जितेन्द्र	से 149	बाबु कोल्या
		10	कोगावॉ	154	भाईराम बोखर	से 168	ओमप्रकाश गलाजी
		11	कोगावॉ	169	गोपाल मांगल्या	से 183	भगवान झापडुजी
		12	कोगावॉ	184	देवा गणेश	से 230	गेंदाबाई शिवराम
		13	जामन्या	1	चरणदास	से 15	नरेन्द्रसिंह रतनसिंह
		14	जामन्या	161क	वंदना दुरवसिंह	से 31ख	रामप्रसाद निहाला
		15	जामन्या	32	मथुरा लालाराम	से 48	कालुराम प्यारा
		16	जामन्या	49	मगन हरचंद	से 63	मांगीलाल श्रवण
		17	जामन्या	64	देवकरण	से 104	रवि भग्गु

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
62	पिपल्या बुजुर्ग	1	पिपल्या बुजुर्ग	1	गोविन्द रामसिंह	से 32	नर्मदा हिरालाल	अ.जा.	8
		2	पिपल्या बुजुर्ग	34	लखनलाल मोतीलाल	से 54घ	अनुदयाबाई तुलसीराम	अ.ज.जा.	10
		3	पिपल्या बुजुर्ग	54च	दुलीचन्द शंकर	से 65क	जगन्नाथ अनोकचन्द	पि. वर्ग	0
		4	पिपल्या बुजुर्ग	54क/2	राजेन्द्रसिंह मांगीलाल	से 68ख	भगवानदास हीराजी	अनारक्षित	2
		5	पिपल्या बुजुर्ग	69	सरदारसिंह अमरसिंह	से 91	सुरेश दयाल	अ.जा. महिला	4
		6	पिपल्या बुजुर्ग	91/1	श्यामलाल दगडु	से 108	तीलोकचंद ओंकार	अ.ज.जा. महिला	5
		7	पिपल्या बुजुर्ग	109	कुन्दन छगनलाल	से 142	गोपाल घीसालाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	पिपल्या बुजुर्ग	143	जानकीबाई करणसिंह	से 167	अर्जुनसिंह जीवाजी	अनारक्षित महिला	1
		9	पिपल्या बुजुर्ग	167क	प्रवीण नारायण	से 201क	जानकीबाई द्वारकाप्रसाद		
		10	पिपल्या बुजुर्ग	202क	मोतीलाल तुकाराम	से 228	सोनाबाई चेताराम		
		11	पिपल्या बुजुर्ग	229	रामकन्या जगदीश	से 254क	घीसालाल छीतु		
		12	पिपल्या बुजुर्ग	245ख	सागरबाई छीतु	से 280क	भवानीराम राघवलाल		
		13	पिपल्या बुजुर्ग	281क	बल्लु सुक्या	से 337क	मोनाज रामस्वरूप		
		14	पिपल्या बुजुर्ग	339	श्रीराम बाल्या	से 377	मनमोहन किशोरीलाल		
		15	पिपल्या बुजुर्ग	379	बोंदरबाई सुनेमानखों	से 400/5	तुलसीराम जयराम		
		16	पिपल्या बुजुर्ग	401	उर्मिलाबाई सनोखीजी	से 420ग	बलराम राधेश्याम		
		17	पिपल्या बुजुर्ग	421	फुलचन्द बस्कर	से 443/2	रणजीतसिंह गुलाबसिंह		
		18	फिफरिया	1	गोविन्दशव बलवन्तराव	से 47	बाबुलाल गंगाराम		
		19	झिरन्या	1	सिंगाजी चम्पालाल	से 22	राधेश्याम पदम		
		20	झिरन्या	26	बलीराम पदम	से 49/1	बलीराम भगवान		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)	(6)
63	माचलपुर	1	माचलपुर	1	भुरू खेमलाल	से 19	गोविन्द बाउ	अ.जा.	5
		2	माचलपुर	20	झापु लक्ष्मण	से 28	विजय भग्गु	अ.ज.जा.	7
		3	माचलपुर	29	तेजा सिताराम	से 43	भगवान बाबु	पि. वर्ग	0
		4	माचलपुर	44	तुकाराम भिल्या	से 59	कलाबाई भग्या	अनारक्षित	2
		5	माचलपुर	60	रामकुवर रूपचंद	से 76	नत्थु रामा	अ.जा. महिला	3
		6	माचलपुर	78	चैनसिंग सायबा	से 99	रामेश्वर गोविन्द	अ.ज.जा. महिला	4
		7	माचलपुर	100	भोलु सायबा	से 113	राजाराम गोरीलाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	माचलपुर	117	किशन रामचरण	से 134	देवराम बाबु	अनारक्षित महिला	1
		9	माचलपुर	140	संतोष बल्लु	से 153	किशन शेरू		
		10	माचलपुर	154	चम्पालाल सिताराम	से 173	मंगशाराम रामा		
		11	माचलपुर	173	आत्माराम नाना	से 182	श्रीराम मगणपत		
		12	माचलपुर	183	हरेसिंग बाबु	से 201	कड़वा रामा		
		13	माचलपुर	202	नाना हिरा	से 223	नत्थु गणपत		
		14	गरबडी	1	कड़वा नरसिंग	से 26	कमल दशरथ		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)	(6)
64	पालसुद	1	पालसुद	2	धनसिंग घिसा	से 22क	भगवान सीतराम	अ.जा.	3
		2	पालसुद	23	लीलाबाई जयसिंग	से 44	गोपाल बाला	अ.ज.जा.	7
		3	पालसुद	47	राजाराम मांगीलाल	से 64	प्रहलाद गणपत	पि. वर्ग	1
		4	पालसुद	65	लिम्बा बाबरा	से 78	गुलाबचंद नत्थु	अनारक्षित	3
		5	पालसुद	79	दरियाव राजाराम	से 95	नरसिंग लिम्बा	अ.जा. महिला	2
		6	पालसुद	96	गंगाबाई बाबु	से 110	भगवान भोलु	अ.ज.जा. महिला	4
		7	पालसुद	111	दरियाव रतन	से 126क	डोगर दोलत	पि.वर्ग महिला	1
		8	पालसुद	126ख	कैलाश धनसिंग	से 150	रामलाल पेमा	अनारक्षित महिला	2
		9	पालसुद	151	गुलाबबाई बावरिया	से 180	अब्बाखां बददुखॉ		
		10	पालसुद	181	रसीद खां रूखडु खां	से 212क	चंदर रामभाउ		
		11	पालसुद	213	बाबु लक्ष्मण	से 227	धन्नालाल तुलाराम		
		12	पालसुद	228	गजराबाई रेवाराम	से 248	दुलीचंद नागु		
		13	पालसुद	249	जयराम जाधव	से 277	दरियाव गुलाबसिंग		
		14	पालसुद	278	राजेन्द्र देवराम	से 308	रामगोपाल गेंदालाल		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
65	भामपुरा	1	भामपुरा	1	हुकुमचंद नानापल	से 16	गेंदालाल तुकाराम	अ.जा.	5
		2	भामपुरा	17	भागाबाई बाबुलाल	से 28	जीवन मदन	अ.ज.जा.	10
		3	भामपुरा	29	मंगती मोहन	से 41	चंदरबाई शोभाराम	पि. वर्ग	0
		4	भामपुरा	42	नत्थु मयाराम	से 58	तुलसीराम बाबला	अनारक्षित	5
		5	भामपुरा	59	रामेश्वर बाला	से 75	राधेश्याम बाबु	अ.जा. महिला	3
		6	भामपुरा	76	रूखमा ताराचंद	से 97ख	छजजुलाल हिरालाल	अ.ज.जा. महिला	5
		7	भामपुरा	98	ग्यारसीबाई रामा	से 114	विनोद मोतीराम	पि.वर्ग महिला	0
		8	भामपुरा	115	कैलाश गोविन्द	से 137	करसन धरम्या	अनारक्षित महिला	3
		9	भामपुरा	138	कन्हैया धरम्या	से 153क	जगदीश पदम		
		10	भामपुरा	154	गौरीबाई पन्नालाल	से 167	नबु बाल्या		
		11	भामपुरा	168	गोपाल बाला	से 180	नन्नु बाबु		
		12	भामपुरा	181	गोविन्द शोभाराम	से 199	पुनमचंद गन्या		
		13	भामपुरा	200	जगदीश टन्दु	से 215	ओमप्रकाश छोगालाल		
		14	भामपुरा	216	ईशराम छीतर	से 228अ	कंचन संतोष		
		15	भामपुरा	231	मंशाराम चिंताराम	से 393	लक्ष्मण हिरालाल		
		16	खैगाँव	1	सदाशिव मांगीलाल	से 8	गंजानंद भुक्कण		
		17	खैगाँव	11	गुलाबसिंह भुक्कण	से 31	बोखार कल्लु		
		18	खैगाँव	32	भाईराम कल्लु	से 49	देवराम बाउ		
		19	खैगाँव	50	श्रीराम बाउ	से 63	भीकाजी भगवान		
		20	खैगाँव	64	काली राजाराम	से 80	अर्जुनदास आरतीदास		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
66	बरलाय	1	बरलाय	1	सुखलाल पुनाजी	से 15	सबलसिंह नत्थु	अ.जा.	5
		2	बरलाय	161/1	राजेन्द्र रमेशचंद	से 36	रमेश तुकाराम	अ.ज.जा.	8
		3	बरलाय	38	भैरोसिंह गोपाल	से 55	बालाराम बोखार	पि. वर्ग	0
		4	बरलाय	56	बुदिया बनियाजी	से 78	सेवंतीबाई चम्पालाल	अनारक्षित	3
		5	बरलाय	79	मनोहर सुखलाल	से 96	कुलदीप चम्पालाल	अ.जा. महिला	3
		6	बरलाय	98	रूपसिंह मोतेसिंह	से 119	हरचंद देवचंद	अ.ज.जा. महिला	4
		7	बरलाय	120	हरिराम घनश्याम	से 140क	दुलीचंद मोतीलाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	बरलाय	141	भाईराम दगडु	से 163	बलराम मांगीलाल	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	बरलाय	9	बरलाय	164	डोंगर पुनाजी से 178क	श्रीराम चंदर
		10	बरलाय	180	रेवाराम हरचंद से 202क	भुवालया कालु
		11	बेरफड खुर्द	1	सौदान पुन्या से 10	मोतीलाल बाबु
		12	बेरफड खुर्द	11	तारू बाल्या से 27	जीवनसिंह कमलसिंह
		13	बेरफड खुर्द	28	राशबाई भारत से 52	रूखडु गौरधर
		14	बेरफड खुर्द	53	कपुर हरि से 68क	पर्वतसिंह यशवंतसिंह
		15	बेरफड खुर्द	72	हिम्मतसिंह भीमसिंह से 87	धनुसिंह हुकुमसिंह
		16	बेरफड खुर्द	88	सुरेन्द्रसिंह संग्रामसिंह से 100	रामालाल राधेश्याम

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
67	बंजारी	1	बंजारी	1	देवीसिंग भीकाजी	से 33	नवलसिंग पेमा	अ.जा.	5
		2	बंजारी	34	तुलसीराम बेड़ीय	से 58	हिराजी सीताराम	अ.ज.जा.	7
		3	बंजारी	61	विनय कुमार	से 76क	मोहन अमरसिंग	पि. वर्ग	0
		4	बंजारी	78	उमाबाई रमेश	से 92	सलीम खान	अनारक्षित	7
		5	बंजारी	93	मगनबाई छगन	से 107	मीठालाल आपुजी	अ.जा. महिला	3
		6	बंजारी	110	मयाराम शोभाराम	से 128	बाबुलाल धन्नालाल	अ.ज.जा. महिला	4
		7	लखनपुरा	1	मकुन्द बाउ	से 15	मोहन भगवान	पि.वर्ग महिला	0
		8	लखनपुरा	16	गेंदी बोखर	से 30	घिसु हिरा	अनारक्षित महिला	1
		9	लखनपुरा	31	कड़वा गरीबा	से 41	गोविंद घनश्याम		
		10	पिपलपाटी	1	पारूली रमेश	से 23	जगन गणपत		
		11	पिपलपाटी	25	दयाराम घिसा	से 45	ज्ञानबाई गंगाराम		
		12	पिपलपाटी	46	गोबिन्द मोहन	से 58ख	संतोष भगवान		
		13	पिपलपाटी	59	घिसु भगवान	से 84	रूखमणी दिनेश		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
68	बडदिया सुर्ता	1	बडदिया सुर्ता	1	बाबुलाल पुनाजी	से 22	सुमन छोटु	अ.जा.	2
		2	बडदिया सुर्ता	23	रमेश किशन	से 39	मंगु गोकुल	अ.ज.जा.	8
		3	बडदिया सुर्ता	40	मंग शंकर	से 51	मुक्ताबाई नितु	पि. वर्ग	1
		4	बडदिया सुर्ता	52	राधेश्याम मदन	से 66	बाबु गणपत	अनारक्षित	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
बडदिया सुर्ता	5	बडदिया सुर्ता	67	नहारू गणपत	से 80	बालु छोटु	अ.जा. महिला	1
	6	बडदिया सुर्ता	81	अनोकचंद जगन्नाथ	से 96	भाईराम मांग्या	अ.ज.जा. महिला	4
	7	बडदिया सुर्ता	97	भगवन प्यारा	से 113	रूपसिंग नवलसिंह	पि.वर्ग महिला	1
	8	बडदिया सुर्ता	114	नारायण बाबु	से 125	बाबुलाल गंगाराम	अनारक्षित महिला	2
	9	बडदिया सुर्ता	126	माशराम रामा	से 136	धिसालाल नत्थु		
	10	बडदिया सुर्ता	137	तुलसीराम गंगाराम	से 151	भोलु मंजी		
	11	बडदिया सुर्ता	152	मोहन सिताराम	से 228	रंगालीबाई तोताराम		
	12	दामखेडा	1	अमरसिंह छोटु	से 22	नलवसिंह ठाकुर		
	13	दामखेडा	23	दशरथ दयाराम	से 39	चिंताराम भलाजी		
	14	दामखेडा	40	चिंताराम आमराजी	से 54क	चंपालाल सिताराम		
	15	दामखेडा	55	सुरेश राधाकृष्ण	से 93	मोहन राजाराम		

सारणी

खण्ड महेश्वर

अ.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्र.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नं. से म. नं. तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				मकान नं.	मुखिया का नाम	मकान नं.	मुखिया का नाम	प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)		(4)				(5)	(6)
69	बठौली	1	बठौली	1	बसंतीबाई नवलसिंह	से 32	रामकुवर शोभाराम	अ.जा.	5
		2	बठौली	36	भुरूबाई कड़वा	से 46	जमनाबाई बाबु	अ.ज.जा.	9
		3	बठौली	46(क)	समरसिंग बाबु	से 57	नवलसिंग श्रीराम	पि. वर्ग	0
		4	बठौली	58	ठाकुर दयाराम	से 74	छितु नत्थु	अनारक्षित	4
		5	बठौली	75	गोविंद राजाराम	से 91	त्रिलोकचंद पांचीलाल	अ.जा. महिला	3
		6	बठौली	91(1)	पण्डरीनाथ पांचीलाल	से 108	भाईराम राजाराम	अ.ज.जा. महिला	5
		7	बठौली	109	कलाबाई गोबिन्द	से 126	भाईराम छोगालाल	पि.वर्ग महिला	0
		8	बठौली	130	फुलसिंह तुकाराम	से 158	जमनाबाई डोंगरिया	अनारक्षित महिला	2
		9	बठौली	159	गबरू सदिया	से 180	बसंती राजु		
		10	गंगातखेडी	1	गोबिंदकुवर विक्रम	से 13	अजुदयाबाई भोलु		
		11	गंगातखेडी	13(क)	गजानंद बाबु	से 24	दौलत नान		
		12	गंगातखेडी	24(1)	पेमा नाना	से 50	हरि जोगीलाल		
		13	गंगातखेडी	51	परसराम जोगीलाल	से 62	धवलसिंग गंगाराम		
		14	गंगातखेडी	62(1)	रेवाराम गंगाराम	से 68(क)	चिंताराम प्यारा		
		15	गंगातखेडी	68(1)(क)	तुलसीराम नाना	से 81	जनार्दनदास रमप्रियदास		
		16	ताजपुरा	1	छितु नारायण	से 24	मनोहर लक्ष्मण		
		17	ताजपुरा	25	नत्थु चंपालाल	से 49	किशोर अनार		
		18	ताजपुरा	50	राधेश्याम बाग्या	से 74	विक्रम छितु		

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत शाखा), जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत, परिशिष्ट-5(अ)

दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम-1993 की धारा 12 के साथ पढात म.प्र.पंचायत नियमन नियम, 1995 के नियम 03 एवं 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन म.प्र. एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ-2 में अंकित ग्राम पंचायत को स्तंभ-3 में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तंभ-4 में उल्लेखित अनुसार होगी। विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछवाड़ा तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तंभ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात्:-

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
बड़की चौकी	देवगढ	1	नानूराम भारता	1	से 11	हिन्दू बाबू	अजा	1
		2	केशर बाबू	12	से 25	कालू बाबू	अजजा	11
		3	धनसिंह रूखडू	27	से 38	बद्री रामलाल	अ.पिचवर्ग	0
		4	गंगाबाई जगन	39	से 54	भगवान हिरालाल	अनारक्षित	1
		5	बाबू रामचंद	55	से 66	राजाराम भीमा	महिला अजा	1
		6	नारायण सुरता	67	से 83	झीना हरला	महिला अजजा	5
		7	काली विरसिंह	84	से 96	रामसिंह नरसिंह	महिला अ.पिचवर्ग	0
		8	कला मंगू	97	से 105	मोहन बाबू	महिला अनारक्षित	1
		9	गीता पन्नालाल	106	से 116	नंदकिशोर गंगाराम		
		10	रामसिंह पुनाजी	1	से 16	प्रीतम देवाजी		
		11	कृपाल देवीसिंह	17	से 40	अंबाराम भुवागीराम		
		12	सोपान अंबाराम	41	से 60	अशोक तरेसिंह		
		13	बद्री सोमा	61	से 89	गिरधारी हिन्दू		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
रमठान		1	गजरा उमराव	1	से 16/1	राहुल जीवन	अजा	2
		2	राधेश्याम सुकाजी	16/2	से 37	रतन नानाजी	अजजा	4
		3	नानूराम उमराव	37/1	से 57	गेंदालाल भोपाजी	अ.पिचवर्ग	3
		4	गोराबाई उमराव	58	से 74	बाबू झापूजी	अनारक्षित	4
		5	गोपाल गोविंद	75	से 94	नंदराम गांगीलाल	महिला अजा	1
		6	दयाराम तेजा	95	से 107	छीतर बुदीया	महिला अजजा	2
		7	रामलाल बलगा	108/2	से 117	रामप्रसाद प्यारा	महिला अ.पिचवर्ग	2
दौलतपुरा		8	तापीराम शंकर	1	से 18	जसवंत दल्लू	महिला अनारक्षित	2
		9	पुना मांडा	19	से 37	संतोष सातन		
		10	नानूराम अमरसिंह	38	से 49	लीला सिद्धनाथ		
		11	सरस्वती संतू	50	से 65	परमा बुदीया		
		12	बाबू परमा	66	से 79	देवराम लक्ष्मण		
		13	रेवाराम लक्ष्मण	80	से 99	पप्पू पेमा		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से.....तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	बागोद	1	जडाव तारिया	1	से	35	पेमा बाबूलाल	अजा	4
		2	रमेश लक्ष्मण	36	से	81	शिवराज ध्यानसिंह	अजजा	2
		3	पुनमचंद राजाराम	82	से	120	अंबाराम रामचंद्र	अ.पिवर्ग	5
		4	रतन रामचंद्र	121	से	157	केलाश मिश्रीलाल	अनारक्षित	9
		5	कालू तेजा	160	से	194	जगदीश बालाराम	महिला अजा	2
		6	रमेश नारायण	196	से	218	भुवानीराम नरसिंह	महिला अजजा	1
		7	पुनमचंद पेमा	219	से	240	आनंदराम पन्नालाल	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	राजाराम धन्नालाल	241	से	265	जानकी पुनिया	महिला अनारक्षित	5
		9	प्रेम भावसिंह	266	से	292	दिनेश बिहारीलाल		
		10	रामलाल लक्ष्मण	285	से	324	भीकाजी कालू		
		11	संतोष गुलाब	325	से	355	बलराम ओंकार		
		12	निली अमरिया	356	से	383	बलिराम शोभाराम		
		13	रमेश ओंकार	385	से	413	श्रीराम नारायण		
		14	प्रकश संतूलाल	414	से	428/1	श्यामलाल सखाराम		
		15	शेख मजीत	429	से	455	रमेश गेंदालाल		
		16	समरथ देवाजी	457	से	अंत तक	निरज प्रेमनारायण		
	भिकरखेडी	17	अमृतगीर गुलाबगिर	1	से	22/3	गीता भावगिर		
		18	धनश्याम लक्ष्मण	25	से	55	डालूराम नरसिंह		
	निमटोकी	19	ओमप्रकाश जगन्नाथ	1	से	18/1	गेंदालाल बनेसिंह		
		20	रामा नत्थु	19	से	22/1	चंद्रेश डालूराम		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से.....तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	टेगला	1	सुनिता अनिल	1	से	16/2	कुंता पप्पू	अजा	5
		2	शिवाराम लक्ष्मण	18	से	41	रीटा शांतीलाल	अजजा	1
		3	सावित्री हिरालाल	42	से	61	मिथुन देवराम	अ.पिवर्ग	4
		4	रमेश लाल्या	62	से	81/1	गोपाल भगवान	अनारक्षित	4
		5	राजाराम शिवा	82	से	95	माया मोहन	महिला अजा	2
		6	बाबू मोतिया	96	से	120 ख	सुमन राधेश्याम	महिला अजजा	1
		7	पूनमचंद सोमारिया	121	से	140	अनिल रामलाल	महिला अ.पिवर्ग	2

1	2	3	4	5	6
मैथवा	8	सुरेन्द्र सुभाष	1 से 11	सुधा दयाराम	महिला अनारक्षित 2
	9	बालिबाई चिंदर	12 से 31	लोकेश गिरधारी	
	10	रामा नरसिंह	32 से 57	ममता अमृत	
	11	रघुनाथ गणपत	59 से 72	अनुसया सुगनचंद	
	12	भागीरथ किशन	73 से 85	अखिलेश आनंदराम	
	13	कडवा नरसिंह	87 से 98	गायत्री रामेश्वर	
	14	लाडकी मयाराम	99 से 136	मोता पेमा	

पिपलझाखुर्द

विरान

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	रूपाला	1	सुरेश नानूराम	1 से 13/1	रीना अनिल	अजा	3
		2	राधेश्याम छितू	14 से 33	फूदाबाई शांतीलाल	अजजा	1
		3	सखाराम लक्ष्मण	34 से 52	आशाबाई हिरालाल	अ.पि.वर्ग	3
		4	फकीरा चंपालाल	53 से 70	विजय रामेश्वर	अनारक्षित	4
		5	दिलीप रामचंद	71 से अंत तक		महिला अजा	2
	ब्राह्मणपुरी	6	लालताप्रसाद रामचरण	1 से 18	संगीता प्रकाश	महिला अजजा	1
		7	रामलाल गेंदालाल	19 से 43	पप्पू अंतरसिंह	महिला अ.पि.वर्ग	1
		8	अन्नूबाई प्रताप	44 से अंत तक		महिला अनारक्षित	2
	पिपलझर	9	सजनबाई संतू	1 से 21	बबली चेतन		
		10	अजबबाई तेजा	22 से 42	शंभू चेताराम		
		11	पुनमचंद तेजा	43 से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	सुरपाला	1	महेन्द्र दिलीप	1 से 8	नत्थु नरसिंह	अजा	4
		2	टंटू पोमडू	9 से 27	नत्थु माधव	अजजा	3
		3	छोटेला ल सोमा	28 से 44	ओमप्रकाश बोखार	अ.पि.वर्ग	0
		4	बालिया मयाराम	45 से 59	केलाश मुकूंद	अनारक्षित	6
		5	महेन्द्र मुकून	60 से 72	गिरवर कालू	महिला अजा	2
		6	रमा जगन्नाथ	73 से 95	नारायण रामा	महिला अजजा	2
		7	रघुनाथ रामा	96 से 114	मोहन नत्थु	महिला अ.पि.वर्ग	0
		8	भुवानीराम दयाराम	115 से 129	लीलाधर नारायण	महिला अनारक्षित	3
		9	कडवी गंगाराम	134 से 151/1	आनंदराम पूनम		
		10	पदम रूपा	152 से 169	रमेश गिरवर		
		11	करण मोहरसिंह	170 से 198	फूलचंद छितू		
		12	धनिया शंकर	199 से 218	अमरसिंह छतर		
		13	प्रहलाद घीसालाल	219 से अंत तक			

जुलवान्या

विरान

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	बांडीखार	1	मोहब्बत सडूजी	1	से	8 ख	दुर्गा अनिल	अजा	1
		2	मंशाराम मांगीलाल	9	से	20	सुनिल शिवराम	अजजा	4
		3	संतोष बाकसिंह	22	से	30	भावना सुनिल	अ.पिवर्ग	5
		4	कन्हैया सीताराम	31	से	39	गोवरा लोकेन्द्र	अनारक्षित	8
		5	मांगीलाल सोमाजी	40	से	46	चंदाबाई राजेन्द्र	महिला अजा	10
		6	प्रतापसिंह नत्थु	47	से	54	अकलेश चिंताराम	महिला अजजा	2
		7	गंगती राजाराम	55	से	66	जितेन्द्र कडवाजी	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	झूमका सालकराम	67	से	81	संतराबाई केशरसिंह	महिला अनारक्षित	4
	आठवा	9	जालम करण	1	से	21	जितेन्द्र पूनमचंद		
		10	किशोर भीमा	22	से	2	ममता सुभाष		
	आठवापडावा	11	रुखडिया पुनमचंद	1	से	14	गीता किशोर		
	पडावा	12	गुलाबबाई गोपी	1	से	20	राधा श्रवण		
	झाबर	13	नाविबाई मांगीलाल	1	से	17 ख	रज्जू किशोर		
		14	मेहताप रूपा	18	से	35	सुगनाबाई गुरुमुख		
		15	गजू जबरिया	36	से	49	सुनिता आशाराम		
		16	बसूबाई भादर	50	से	63	श्याम पदम		
		17	पार्वती उंकार	64	से	81	ममता धर्मराज		
	छोटीझाबर	18	सरदार अमरसिंह	1	से	77	रोशनी भागीरथ		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	बावी	1	नराणसिंह बदलामसिंह	2	से	11	बनूबाई तिलोकचंद	अजा	2
		2	मिश्रीलाल गणपत	13/1	से	29	सतीष केलाश	अजजा	9
		3	गजानंद भलाजी	31	से	49	उषा विजय	अ.पिवर्ग	0
		4	भगवान बाबूलाल	50	से	61	आशाबाई किसन	अनारक्षित	5
		5	रामसिंह कालू	62	से	78	दिनेश राजाराम	महिला अजा	1
		6	बोंदरसिंह घीसालाल	79	से	91	श्यामलाल भागीरथ	महिला अजजा	5
		7	तेजू कोल्या	93	से	121	आननबाई शिवराम	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	मोहन बाबू	122	से	138	रिंकू भागीरथ	महिला अनारक्षित	2

1	2	3	4	5	6
		9	सालूबाई रामलाल	139 से 160	रिनूबाई महिपाल
		10	मूलचंद गोपीचंद	161 से 172	आरती नयनसिंह
		11	बनूबाई गिरवरसिंह	173 से 189	निर्मला सुनिल
		12	मदन रायसिंह	190 से 204/2	जानकी नरसिंह
	उधरन्या	13	तुलसीराम मंगू	1 से 14/1	राजलबाई आनंदराम
		14	रामेश्वर कालू	15 से 29	मंजूबाई कनियर
		15	रूपसिंह हरेसिंह	30 से 45	करतार पूना
		16	यशवंत सुकाराम	48 से 62 घ	मीरा मनोरसिंह

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			4	5	6	प्रवर्ग	संख्या
	बलवाडा	1	शिवचेतन हरिनंद	1 से 17	गोरेलाल लाला	अजा	7
		2	भागीरथ घासीराम	18 से 52	कालू सडिया	अजजा	2
		3	दोलत सडिया	53 से 100	पारस यादवराव	अ.पिवर्ग	5
		4	गोराबाई सुंदरलाल	101 से 137	रचना भागीरथ	अनारक्षित	6
		5	नंदकिशोर छोटू	138 से 169	दीपक रामेश्वर	महिला अजा	4
		6	सत्यनारायण	170 से 225 क	जानकी नत्थु	महिला अजजा	1
		7	लीला हिरालाल	227 से 279	नितेश किशोरी	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	सावित्री मूलचंद	280 से 333	मीरा मुरलीमनोहर	महिला अनारक्षित	3
		9	रतनबाई नत्थु	334 से 375 क	अर्पित विक्रम		
		10	राधाकिशन मुकूनंदराम	376 से 399	पवन कुमार		
		11	जगल्या सिकदार	401 से 431	राखी गंगाराम		
		12	बाबूलाल भागीरथ	432 से 455	राखी संतोष		
		13	रामकली घीसालाल	456 से 467	मंजू जितेन्द्र		
		14	बाबूलाल नत्थु	468 से 490	धमेन्द्र हुकूम		
		15	फत्तू गणपत	491 से 519	कचन परसराम		
		16	नारायण बाबूराव	520 से 552	विजयरवा गणपत		
		17	सकूबाई गणपत	555 से 593	रेखा मंगल		
		18	शांता छोटेलाल	594 से 656	अनिता हरिप्रसाद		
		19	मुन्नालाल काशीराम	659 से 682	रामभरोसी परसराम		
	पद्यान्या सबलपुरा	20	गीता मोहन	683 से अंत तक	विरान		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	मुखत्यारा	1	श्रीहरि ध्यानसिंह	1 से	10	आशा पवन	अजा	4
		2	लखनलाल बाबूलाल	11 से	26	, उर्मिला इंडल	अजजा	0
		3	इंदर मंशाराम	26 क से	36	अशोक सोहनलाल	अ.पिवर्ग	4
		4	गेंदा मांगीलाल	37 से	56	दिनेश राधेश्याम	अनारक्षित	6
		5	रामेश्वर करण	57 से	74	कपिल लक्ष्मी	महिला अजा	2
		6	मनोरमाबाई	75 से	90	भूरी दिनेश	महिला अजजा	0
		7	शारदा ग्यारसीलाल	91 से	110	गोपाल हरिराम	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	छोटेलाल	111 से	127	बलराम हुकूमचंद	महिला अनारक्षित	3
		9	रामकली	128 से	148	रेखा मुकेश		
		10	सखाराम	148 से	165	परवीन ग्यारसिंह		
		11	भूरीबाई	166 से	176	बिरजू नरसिंह		
		12	घीसालाल	177 से	196	सेवती राकेश		
		13	नंदलाल	197 से	333	संजय		
		14	ओमप्रकाश	1 से	134	रवि संतोष		
	दानकुआ					विरान		
	झारकुआ					विरान		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	हनुमंत्या	1	रमेश गजानंद	1 से	12 ब	हफीज करीम	अजा	2
		2	लक्ष्मण उंकार	13 से	26	अमरसिंह कालू	अजजा	0
		3	मोहन भाउ	27 से	38	भेरूसिंह थानसिंह	अ.पिवर्ग	5
		4	करण ओंकार	39 से	48	प्रताप	अनारक्षित	12
		5	सुगना रसाल	49 से	63	प्रहलाद पुनमचंद	महिला अजा	1
		6	गोविंद नत्थु	64 से	73 क	कडवाजी गोविंद	महिला अजजा	0
		7	आनंदराम हिरा	75 से	89	ग्यारसी मकुंद	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	पुनी राजाराम	90 से	102	भाईराम नत्थु	महिला अनारक्षित	6
		9	केशर ठाकूर	103 से	अंत तक			
	कुरावद	10	पार्वती कन्हेया	1 से	15	केलाश नराण		
		11	परमानंद लक्ष्मण	16 से	30	बाबू केटबक्स		
		12	छोटे खां जुम्न	31 से	40	वाला मोहन		
		13	चंपालाल रामा	41 से	47	वाला मोहन		
		14	रूपा रामा	48 से	62	जीवा हिरा		
		15	सेवकराम रतन	63 से	74	सराफत समरुदीन		
		16	इकबाल अल्ला बेली	75 से	83 ग	ओमप्रकाश रामनाथ		
		17	कमल मांगीलाल	84 से	93	जोबीलाल दुलीचंद		
		18	संतोष घिसा	94 से	110	देवकी नरसिंह		
		19	रतनलाल सखाराम	111 से	अंत तक			
	शीकुपुरा			1 से	अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	झिगडी	1	देवीसिंह भगवान	1	से	11	ज्योति गोपाल	अजा	3
		2	बाला नारायण	12	से	23	रीना संतोष	अजजा	0
		3	प्यारी घनश्याम	24	से	40	उषा राकेश	अ.पिवर्ग	4
		4	लक्ष्मी भाईराम	41	से	53	रानूबाई राकेश	अनारक्षित	7
		5	सखाराम बबनराव	54	से	67	दीपक भागीरथ	महिला अजा	1
		6	भगवान जसवंत	68	से	86	रतन गजराज	महिला अजजा	0
		7	लीला ठाकूर	87	से	101	सुनिल घनश्याम	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	शिवराम गोविंद	102	से	120	रामकली देवीसिंह	महिला अनारक्षित	4
		9	काली टंटू	121	से	अंत तक			
	गोबरीखेडा	10	कोशल्या शेरसिंह	1	से	14	शंकर बजेसिंह		
		11	सरस्वती रामलाल	15	से	26	बमणीबाई सरदार		
		12	प्रेमसिंह दलपत	27	से	40	भागीबाई मुंशी		
		13	मांगीलाल रायसिंह	41	से	अंत तक			
	पालापलास्या	14	लीलाबाई हुबलाल	1	से	अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	बरझार	1	मुकून हरचंद	1	से	15	क बसंती नहारसिंह	अजा	4
		2	रणछोड घिसीया	16	से	27	बसकर विनोद	अजजा	0
		3	मोहन अमरसिंह	28	से	38	योगेश देवराम	अ.पिवर्ग	4
		4	प्रताप मदन	39	से	51	भगवती सोनू	अनारक्षित	9
		5	लक्ष्मीनारायण	54	से	70	लाडकी मुरार	महिला अजा	2
		6	केलाश टुकडिया	70	क से	85	जानकी हेमंत	महिला अजजा	0
		7	मिश्रीलाल हिरा	86	से	98/1	अनिल रेवाराम	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	संजय अमरसिंह	99	से	120	माधुरी मानसिंह	महिला अनारक्षित	5
		9	भूरी धनसिंह	121	से	131	कल्याणी फत्तू		
		10	जडवा चैनसिंह	132	से	146	द्रोपती मगन		
		11	गुलाब शंभू	147	से	158	श्याम तोताराम		
		12	बाबू मदन	159	से	179	बबीता गणेश		
		13	हरलाल गिरधारी	180	से	193	सीमा दिनेश		
		14	बरखी भीमा	194	से	207	सतीबाई हरबन		
		15	परमा इरबान	208	से	अंत तक	धन्नालाल भगवान		
	नयापुरा	16	राजेन्द्र भीमा	1	से	अंत तक	पवन राजू		
	बागनपुरी	17	हब्बू दल्लू	1	से	अंत तक	सनिता विनोद		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	कुण्डिया	1	भूरीबाई रायसिंह	1 से 16	दिनेश नहारसिंह	अजा	2
		2	अर्जुन माधव	18 से 35	राधा गोविंद	अजजा	7
		3	रामचंद्र लक्ष्मण	37 से अंत तक		अ.पिवर्ग	0
	करोदिया	4	दिना ब्रजलाल	1 से 18	मुन्नालाल घिसालाल	अनारक्षित	4
		5	निरखाबाई रामचंद्र	19 से अंत तक		महिला अजा	1
	रेंधवा	6	राजकुवरबाई शंकरलाल	1 से 10	भारती तिलोक	महिला अजजा	4
		7	मंगती साखाराम	11 से 23	चंपाबाई देवीसिंह	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	कोसमबाई नरसिंह	24 से अंत तक		महिला अनारक्षित	2
	अरोदा	9	कृष्णा पप्पू	1 से 18/2	सलमान गफफार		
		10	अयुब मेहताब	19 से 29	मायाबाई राजेश		
		11	झूमका पुन्या	30 से 44	सुनिल रूपसिंह		
		12	चेनसिंह भावसिंह	45 से 54	संतूसिंह रमेश		
		13	गोविंद दलपत	54/1 से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	थरवर	1	जीवन सदाशिव	1 से 14	गुलाबबाई बोखार	अजा	3
		2	बोखार मांगीलाल	15 से 31	दिनेश हरेसिंह	अजजा	9
		3	बाला रामा	32 से 42	रामकन्या	अ.पिवर्ग	0
		4	ग्यारसी पेमा	42 क से 57	सुरेश इंदर	अनारक्षित	7
		5	भोजराज प्यारेलाल	58 से 66	दयाचंद अनारसिंह	महिला अजा	2
		6	प्रेमबाई सुपडिया	67 से 86	राधाबाई विनोद	महिला अजजा	4
		7	झूमका बालू	86 क से 99	भुवनेश गंगाराम	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	गुमान हजारी	99 क से 111	रामप्यारीबाई	महिला अनारक्षित	4
		9	राजाराम सडिया	112 से 132	राधाबाई सूरज		
		10	गेंदालाल रामसिंह	133 से 153	नंदलाला शिवलाल		
		11	जुम्मा भोलू	154 से 175	माया विजय		
		12	विभला गोविंद	177 से 196	अमीत कृष्णा		
		13	केलाश गोपी	198 से 216	मांगीलाल		
		14	प्रेमलता शोभाराम	212 से 287	क भूरीबाई		
		15	जोगीराम कालू	22/9 से 240	प्रकाश फतेसिंह		
		16	करण जसवंत	241 से 272	कमला गणपत		
		17	जगराम जयसिंह	272 से अंत तक			
	कालापाटा	18	कालू आशाराम	1 से 6	मोतीलाल पूजा		
		19	शांती पेमा	7 से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

--: : सारणी : : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	आक्खा	1	गणपत सोमा	1	से 9/2	कालूराम दगाडिया	अजा	2
		2	करण नराण	10	से 17	रूपेश भजन	अजजा	10
		3	मददू राजू	18	से 26	केलाश भागीरथ	अ.पिवर्ग	0
		4	उत्तमान अमरसिंह	27	से 35	जांगीलाल प्रताप	अनारक्षित	5
		5	नंदीबाई किशन	36	से 45	विक्रम छंदल	महिला अजा	1
		6	चतरसिंह गारदिया	46	से 56	जिरमल ओंकार	महिला अजजा	5
		7	नहाडीबाई सांगा	57	से 64	गुमान रामजी	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	रोशन चाहगिया	65	से 73	खुमसिंह बेचाण	महिला अनारक्षित	3
		9	लच्छू खुमसिंह	74	से अंत तक			
	मुंडला	10	हरिचंद साधूसिंह	1	से 24	राकेश केलाश		
		11	दशरथ शंकर	25	से 33	कपिल परमानंद		
		12	बूदाबाई मोतसिंह	34	से 53	विजय पुराजी		
		13	सुखराम गुलाब	55	से 67	भागीरथ बाबूलाल		
		14	काशीराम गप्पू	70	से अंत तक			
	चंदुपुरा	15	लक्ष्मण पेमा	1	से 12	शोभाग ओंकार		
		16	दयाबाई गोविंद	13	से 27 क	भीमसिंह सुखलाल		
		17	चेनसिंह शंकर	35	से अंत तक			
	सालखेडा					विरान		

खण्ड-बड़वाह

--: : सारणी : : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	ओखला	1	सचिन धनसिंह	1	से 12	पार्वती हरभजन	अजा	2
		2	अनारसिंह सोमाजी	11	से 25	रेशम अनारसिंह	अजजा	14
		3	डूडीबाई रूखडिया	26	से 34	जामसिंह गलिया	अ.पिवर्ग	0
		4	दीपक मांगीलाल	35	से 47	गीताबाई निहाल	अनारक्षित	1
		5	गोरीबाई गुलाब	48	से 60	बरखा बद्री	महिला अजा	1
		6	रूखडिया सोभलिया	61	से 67	जमना नरसिंह	महिला अजजा	7
		7	अमरसिंह रीछीया	68	से अंत तक	सोनूबाई बबलू	महिला अ.पिवर्ग	0
	चैनपुरा	8	सोनीबाई इंदरसिंह	1	से 10	कमलेश लालसिंह	महिला अनारक्षित	1
		9	रेलीबाई गोटिया	11	से 16	संजना रामेश्वर		
		10	रेलसिंह जामसिंह	17	से 23	रामेश्वर भायसिंह		
		11	गुंजार परसराम	24	से 34	संगीता रवि		
		12	बायरीबाई गारदा	35	से 49	पुनमबाई पप्पू		
		13	तेजकरण बाबूलाल	50	से 67	मुन्नालाल मोहन		
		14	गुलाब बालू	68	से 81	डूमसिंह डोंगरसिंह		
	गवलनपाटी	15	रामीबाई गुलाब	1	से 14	झेन्दाबाई घनश्याम		
		16	कालू केगाजी	15	से 24	महेश शंकर		
		17	लालसिंह अमरसिंह	25	से 34	अर्जुन भारत		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4				5	6	
	काटकट	1	गोविंद उदाजी	1	से	34/4	वर्षा गोरधन	अजा	1
		2	रामचंद्र गुलाब	36	से	62	बद्री रूघनाथ	अजजा	9
		3	रमेश हरिराम	63	से	105	रामचंद्र गोपी	अ.पिवर्ग	5
		4	दयाराम सुक्का	106/1	से	138/3	ओमप्रकाश कान्हा	अनारक्षित	5
		5	कालूराम स्वरूप	139	से	172	सुगनी नंदराम	महिला अजा	0
		6	सुरज प्रताप	176	से	220	राजेन्द्र रामचंद्र	महिला अजजा	4
		7	गोतीलाल लालचंद	222	से	255/2	जगदीश बाबूलाल	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	गन्नालाल पन्नाजी	256	से	286	कडवा आनंदराम	महिला अनारक्षित	3
		9	राजाराम रामरतन	288	से	335 ग	बालकू नाहरसिंह		
		10	मेहताब नरसिंह	338	से	361	रतन भीलू		
		11	इन्द्रजीत हरबजन	363	से	396/2	संतोष नरसिंग		
		12	केलाश गुलाब	397/2	से	412/ख	भोपाल झुझारसिंह		
		13	जसवंत शेरसिंह	413	से	425/क	गंगाबाई नानसिंह		
		14	वेरसिंह हददू	426	से	448 क	मालसिंह रेंदा		
		15	कालू बरजू	449	से	466	जतन रूलसिंह		
		16	फूलसिंह सुभान	472	से	491	बाबूलाल सखाराम		
		17	नानसिंह हरेसिंह	492	से	499 घ	नारायण प्रेमसिंह		
		18	किशन छीतर	500	से	590 क	गुलाब गलिया		
	भैरूखेडा	19	शेरसिंह भारतसिंह	1	से	25	आशाराम किशन		
	निमखेडा	20	जितेन्द्र बाबू	26	से	75/1	जंगू गंगाराम		
							विरान		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4				5	6	
	लिगबीबुर्जग	1	भूरीबाई गुलाब	1		16	ओंकार केसाजी	अजा	2
		2	हरिराम किशन	17	से	37	नंदराम नारायण	अजजा	12
		3	जगदीश छितर	38	से	57	शिवराम अर्जुन	अ.पिवर्ग	0
		4	गोर्वधन प्रहलाद	58	से	73	मोहन रूखडू	अनारक्षित	4
		5	चेनसिंह रूखडिया	74	से	88	मंशाराम मदन	महिला अजा	1
		6	जसमा शांतीलाल	89	से	151	बाबू उमेनसिंह	महिला अजजा	6
	बरखैडा	7	बालिबाई भागीरथ	1	से	11	रेवाबाई लटटू	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	मंगल मुरार	12	से	25	धन्नालाल घिसाजी	महिला अनारक्षित	2

1	2	3	4	5	6
		9	शिवा कोलूजी	26 से 32	हिरालाल हरेसिंह
		10	नानसिंह मोतीसिंह	33 से 76	महेश सोमारिया
	पलसुद	11	गंगाराम मोहन	1 से 11 क	बालू मगन
		12	मांगीलाल सखाराम	12 से 23	रामसिंह शिवराम
		13	सुखराम कान्हा	24 से 35	मांगीलाल भुवान
		14	वेस्ता नरसिंह	37 से 47 क	अनारसिंह जोनशिंग
		15	मोती उमराव	49 से 208	कपिला अजीत
	बरगना	16	तोताराम बालाजी	2 से 25	सावित्री शोभाराम
		17	लालसिंह गुलाब	30 से 33	भारत रामा
		18	चुन्नीबाई सिकदार	35 से 49	काशीराम गणेश

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	राजगां	1	किरण सुजानसिंह	1 से 19	आकाश रामलाल	अजा	0
		2	राधेश्याम खुमसिंह	20 से 37	गायत्री राधेश्याम	अजजा	9
		3	मांगी राजाराम	38 से 49	लंकेश देवराम	अ.पिवर्ग	5
		4	भुवानीराम मोहन	50 से 67	रवीन राकेश	अनारक्षित	5
		5	केशरसिंह सजनसिंह	68 से 84	सुरक्षा मंडलोई	महिला अजा	0
		6	लक्ष्मण दरियाव	85 से 103	सुनिता दिलीप	महिला अजजा	5
		7	मदन शेरसिंह	104 से 119	गणेश रतिराय	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	जंगू बाबू	120 से 138	नीतू जितेन्द्र	महिला अनारक्षित	2
		9	बिना सुरपाल	139 से अंत तक			
	सालीखेडा	10	रामजी ओंकार	1 से 12 क	धमेन्द्र जगदीश		
		11	कलाबाई नारायण	13 से 26	जितेन्द्र बोंदर		
		12	मनोहर नारायण	27 से 46	संजय लक्ष्मण		
		13	प्रहलाद गोपाल	47 से 70	रंजन दिनेश		
		14	मनूबाई बापू	71 से 84	संगीता पप्पू		
		15	छगनबाई गोपाल	86 से 102	ज्योति कमल		
		16	देवा मुन्या	103 से 121 ख	उमाबाई गेंदालाल		
		17	भूरा भाचरिया	122 से अंत तक			
	घांघला	18	कालू भागीरथ	3 से 18	अनिता राजेश		
		19	बापू मांगीलाल	19 से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	सोरठीबारूल	1	लीलाबाई औंकार	1	से	21	गायत्री भरोस	अजा	7
		2	सकुबाई तेजा	22	से	32	दिनेश मनोहर	अजजा	1
		3	कमलाबाई नारायण	34	से	51 क	निशा मधु	अ.पिवर्ग	5
		4	राधाबाई विश्राम	52	से	72	शुभद्र प्रकाश	अनारक्षित	7
		5	छोटेलाल मन्नालाल	73	से	86	सुनिताबाई प्रकाश	महिला अजा	3
		6	कालीबाई पंडु	87 क	से	108	विरेन्द्र सुमेरसिंग	महिला अजजा	1
		7	मांगीलाल छोगालाल	109	से	121	छाया शोभासिंग	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	राजुबाई भलाजी	122	से	138	केशरबाई राजेश	महिला अनारक्षित	4
		9	बलवंत मयाराम	139	से	152	पिंकी जितेन्द्र		
		10	भाईराम डोंगर	153	से	अंत तक	अंततक		
	सापट	11	सीमाबाई गोविन्द	1	से	9	सुभद्र राजेश		
		12	बिहारी बाबु	10	से	22	संगीता भगवान		
		13	सुकराम धर्म	23	से	35 क	दिलीप ग्यारसीलाल		
		14	छोटेलाल कन्नु	36	से	50	गजराज हजारी		
		15	बाबु मोहन	51	से	72	अनिता महेश		
		16	गंगाबाई सखाराम	53	से	86	प्रहलाद जयराम		
		17	लक्ष्मी जयराम	86 क	से	अंत तक	अंततक		
	बेकल्या	18	मालतीबाई राधेश्याम	12/1	से	22/1	उमा सुभाष		
		19	दिनेश गुमानसिंग	23	से	36	माधुरी दिपक		
		20	सुन्दरलाल दशरथ	39	से	अंत तक	अंततक		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	खमकीबारूल	1	मोहब्बतसिंह टन्डु	1	से	23	महेश शिवरतन	अजा	1
		2	गुलाबसिंग बंकट	24	से	38	दुर्गा करणसिंग	अजजा	10
		3	गुलाबसिंग हरेसिंग	38 क	से	34 क	रानु तवर	अ.पिवर्ग	0
		4	विजय भोलु	34 ख	से	64	जिरोतीलाल भिमसिंह	अनारक्षित	9
		5	रमेश छोगालाल	64	से	86	सुमन हरी	महिला अजा	1
		6	पारु रामा	86 क	से	111	ममता अमरसिंह	महिला अजजा	5

1	2	3	4	5	6		
		7	चन्द्रसिंग धन्ना	112 से 123	नर्मदा कालु	महिला अ.पि.वर्ग	0
		8	बोखार बाबु	124 से 142	रानु बलवंतसिंह	महिला अनारक्षित	4
		9	नानसिया फुलसिंग	143 से -	अंततक		
कडकीबारूल		10	साहबाई गोकुलसिंह	1 से 15	क जगदिश शखु		
		11	धुरसिंह शंकर	16 से 25	शिला कमलेश		
		12	हरेसिंह रायसिंह	26 से -	अंततक		
रावतापलास्या		13	जातु विक्रम	4 से 26	माधु रमेश		
		14	साहीदीबाई शुभम	28 से 40	गीता नानश्या		
		15	फुलसिंह कन्दु	41 से 56	सीताबाई सुखलाल		
		16	सुरला फत्तु	57 से 74	राधु श्रीराम		
		17	गंगाराम गोविन्द	75 से 89	धनीबाई रामा		
		18	पुंजा धन्ना	92 से 106	हमीर देवा		
		19	मावी पाला	107 से 125	मयाचंद बाबुलाल		
		20	देवा दामा	126 से अंत तक	अंततक		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4				5	6
कोदबरबुर्जुग		1	शेरसिंह नत्थु	1 से 17	पुनमचंद बुधेसिंह	अजा	0	
		2	केलाश रूखडू	18 से 36	बखतावर मेहताब	अजजा	9	
		3	कृष्णसिंह भगवान	37 से 49	किशन बुधेसिंह	अ.पि.वर्ग	0	
		4	शांताबाई जोरावर	50 से 68	बलवंत छोगालाल	अनारक्षित	6	
		5	लिलाबाई बागसिंह	69 से 83	संगीता केलाश	महिला अजा	0	
कोदबारखुर्द		6	दयाराम बनसिंह	1 से 14	सुकाजी नानाजी	महिला अजजा	5	
		7	कमला बाबूलाल	15 से 31	अंबाराम हरिजी	महिला अ.पि.वर्ग	0	
		8	नानी राजाराम	32 से 45	बाबू चंपालाल	महिला अनारक्षित	3	
		9	कमल छगन	46 से 61	चंपालाल मंशाराम			
टिटवापलास्या		10	कडू हिरालाल	62 से 76	मुकेश लक्ष्मण			
		11	गंजी नहारसिंह	1 से 15	बागसिंह सुरसिंह			
		12	मालू खुमसिंह	16 से 32	रणजीत लक्ष्मण			
		13	सुरसिंह मोहन	33 से 45	देवसूर किशन			
नागझिरी		14	सुरसिंह मोहन	46 से 66	गंगाराम खोडा			
		15	झूमका गजानंद	1 से 31	रूखडिया तुकाराम			

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	बंडेल	1	गोरी सायबा	1	से	14	ज्योति गजेन्द्र	अजा	2
		2	भीमा नरसिंह	15	से	28/3	संतोष धनसिंह	अजजा	4
		3	कावेरीबाई लक्ष्मण	29	से	43	रणजीत दयाराम	अ.पिवर्ग	5
		4	मांगी रतन	42	से	41/1	रुखमणी सुरेश	अनारक्षित	7
		5	हरेसिंह मंगल	54	से	53	अरुण भगवान	महिला अजा	1
		6	मोतीलाल गोविंद	72	से	71/1	अनिता राजेन्द्र	महिला अजजा	2
		7	कन्हेया कडवा	88	से	87	सुमन नवलसिंह	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	समोती नयनसिंह	102	से	101	किशन केलाश	महिला अनारक्षित	3
		9	राजाराम बंकट	117	से	115	रुखमणी बलिराम		
		10	चेतराम मंगत्या	134	से	133	रुखमणी बबलू		
		11	मंगल मांगीलाल	156	से	155	भानूबाई चंपालाल		
		12	धनू सुक्या	175/	से	175/1	संगीता राकेश		
				2					
		13	मोतीलाल पुना	194	से	193	ओमप्रकाश बोंदर		
		14	रमेश पन्नालाल	225	से	224	मंशाराम चंपालाल		
		15	पप्पू चंपालाल	254	से	253	राहूल चंपालाल		
		16	भलसिंह सुखलाल	273	से	272	बबीता बिसन		
		17	मोटला लालसिंह	282	से	281	गोरेलाल भूरेसिंह		
		18	मयाराम हरेसिंह	290	से	290	ख रामकुवर गबरसिंह		
				ग					

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	गेहन्दीखेडा	1	गजराज सातू	1	से	10	ललीता सुरेश	अजा	1
		2	चुनिया जुदिया	11	से	19	लोगी बंदी	अजजा	13
		3	रुमसिंह अनार	20	से	30	क जगू नंदू	अ.पिवर्ग	0
		4	माया जामसिंह	31	से	46	सुमन अनिल	अनारक्षित	3
		5	सकू तेनसिंह	48	से	67	रम्भा जेमाल	महिला अजा	0
		6	भाईराम नरसिंह	68	से	81	राधा नत्थु	महिला अजजा	7
		7	अर्जुन जालम	82	से	90/1	रंगू गुलसिंह	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	डोंगर गुलाम	91	से	112	सावित्री मून	महिला अनारक्षित	2
	तरान्या	9	जानकी नानूराम	1	से	11	साहबाई रमेश		
		10	मदन मोहन	12	से	22	सुनिल पहाडसिंह		
		11	मालसिंह नूद	23	से	29	ममता भावसिंह		
		12	अमरसिंह माधू	30	से	34/1	नखली ज्ञानसिंह		
	कुंडी	13	अनोखिया श्रवण	1	से	21	रवि सरदार		
		14	पेमा भगीया	22	से	36	पहलवान जगराम		
		15	बना मंगत्या	37	से	48	शांता भावसिंह		
		16	रामसिंह कलसिंह	49	से	57	रिना संजू		
		17	टकल हिरा	59	से	76	सोना दयाराम		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	सुलगांव	1	गुलसिंह गोवर्धन	1	से 8 क	सीमा सुरसिंह	अजा 1
		2	बाथू खजान	9	से 25 क	तेजू राकेश	अजजा 12
		3	दुगलिया रायसिंह	27	से 38	गायत्री दिनेश	अ.पिवर्ग 0
		4	मनोहर रामाजी	40	से 51/2	सचिन इंदरसिंह	अनारक्षित 4
		5	गुरुसेवक उमराव	52	से 61	मेघा महेन्द्र	महिला अजा 1
		6	ओंकार पुनाजी	62	से 72	गजराज कडवा	महिला अजजा 6
		7	लक्ष्मी गंगत्या	73	से 89	हुकूम गुलाब	महिला अ.पिवर्ग 0
		8	बुरमीत लिमसिंह	90	से 102 क	माया गोविंद	महिला अनारक्षित 2
		9	जहादरी भाया	103	से 114	मोनया चिमा	
		10	छतर रतन	115	से 135	रिंकू पप्पू	
		11	रमेश फूलसिंह	136	से 145 क	पिरीबाई मंगलसिंह	
		12	गिलदार प्रेमसिंह	146	से 156/2	जितेन्द्र लक्ष्मण	
	कडियाकुण्ड	13	मुकेश नत्थु	1	से 11	सुनिल हुकूम	
		14	भादर गुलाब	12	से 27	बालकराम कनसिंह	
		15	रुना मांगू	29	से 53/2	राधा राकेश	
		16	माल झापा	54	से 70	जमेला हरेसिंह	
	गोदर/ कोठावा	17	दिपक रामप्रसाद	1	से 7	रामलोचन हरदास	

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	लौन्दी बी	1	उम्मेत पदम	1	से 24 क	राजू बाबू रदक	अजा 3
		2	ज्ञाना दयाराम	27	से 64 ख	पेमा सोभा	अजजा 5
		3	केलाश राजाराम	65	से 77	राजेन्द्र मांगीलाल	अ.पिवर्ग 5
		4	रमेश छोगालाल	79/2	से 126 अ	कलामसिंह जामसिंह	अनारक्षित 6
	खेडीहाट	5	जगन शोभाराम	1	से 21	संतोष दामूलाल	महिला अजा 1
		6	अमरिया सुक्या	22	से 44	राजेश चंपालाल	महिला अजजा 3
		7	कडवा शंकर	46	से 62 क	कन्हा देवा	महिला अ.पिवर्ग 3
		8	रामसिंह रकिया	63	से 76	हजारी देवा	महिला अनारक्षित 3
		9	रामचंद्र हजारी	77	से 96	अमरसिंह सकरू	
		10	गप्पू बुदिया	98	से 113 क	रमेश भीलू	
	रामकुल्ला	11	मस्तान सीताराम	1	से 31	राजेश रमेश	
		12	नंदकिशोर पन्नालाल	32	से 55	डालूराम दयाराम	
		13	बाल्या श्रवण	56	से 82	तिलोक शोभाराम	
		14	सुरजलाल रतन	83	से 116	नानूराम श्रीराम	
		15	जोरसिंह पूना	117	से 134	रकसिंह कुवरसिंह	
	मठपलारया	16	भाकिया केसिया	2	से 22	सूखरी लक्ष्मण	
		17	मेंथाबाई मोहन	25 क	से 35	गुडडू सूरसिंह	
		18	जोग्या चंदू	36	से 43	रायसिंह गुलाब	
	पातलीमाल	19	गजरा सुरबान	1	से 93	केशरबाई पोमडिया	

खण्ड--बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	जगतपुरा-पिजार	1	श्यामलाल पूनमचंद	1	से 13	लोकेश गेंदालाल	अजा	2
		2	मीरा जयराम	14	से 28	कमल बोखार	अजजा	1
		3	बलिराम फत्तू	29	से 45	उमेरसिंह दशरथ	अ.पिवर्ग	4
		4	मंगती कडवा	46	से 63	लक्ष्मण फत्तू	अनारक्षित	7
		5	हरचंद नत्थु	64	से 78	निर्भय मंशाराम	महिला अजा	1
	लखनपुरा	6	सुशीला घीसालाल	80	से 100	दयाराम गोविंद	महिला अजजा	0
		7	केलाश पदमसिंह	1	से 17	बाबू मांगीया	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	गेंदाबाई दशरथ	18	से 35	मदन छाबीया	महिला अनारक्षित	4
		9	लिला मिश्रीलाल	35	क से 50	नेकीबाई नवलसिंह		
		10	बामनीबाई परसराम	51	से 66	बाबूलाल जालम		
	खागखेडा	11	प्रेमबाई गोपाल	67	से 136	भीका कल्लू		
		12	बिनाबाई बाउ	1	से 15	कडवा गंगाराम		
		13	गंगाबाई मोती	16	से 49	गोविंद राजाराम		
		14	घीसालाल बाबू	50	से 71	गतसिंह नहारसिंह		

खण्ड--बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	रमाणां	1	प्रमद चंदू	1	से 14	सुनिल घीसू	अजा	3
		2	रामकुवर ओंकार	15	से 29	तेजल कुवरजी	अजजा	0
		3	बागसिंह मोतेसिंह	30	से 42	धमेन्द्र	अ.पिवर्ग	3
		4	राधा चंदर	43	से 57	आनंदराम गनिया	अनारक्षित	7
		5	लाडकी चंपालाल	58	से अंत तक		महिला अजा	2
	गनिहार	6	प्रकाश घासीराम	1	से 17	मन्नालाल	महिला अजजा	0
		7	रमेश बाबू	18	क से 33 ग	पुनाबाई	महिला अ.पिवर्ग	1
		8	भागीरथ ओंकार	34	से 51	गन्नू मांगीलाल	महिला अनारक्षित	4
		9	छितर मांगीलाल	52	से अंत तक			
	चिंचला	10	सुनिल	1	से 15	कमल प्यारा		
		11	अंतर ओंकार	16	से 29	जयराम मांगीलाल		
		12	कुलर दयाराम	30	से 46	नेनसिंह नारायण		
		13	प्रेमबाई नारायण	47	क से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	उगरिया	1	विष्णु रामाजी	1	से	13	मनीष केलाश	अजा	5
		2	पन्नालाल बाबू	14	से	30	निर्मला पुनमचंद	अजजा	1
		3	पूजा गणेश	31	से	45	राधा दिलावर	अ.पिवर्ग	5
		4	रविन्द्र प्यारसिंह	46	से	60	उत्तमशरण लक्ष्मण	अनारक्षित	7
		5	शांता मांगीलाल	61	से	72	दिपक तुकाराम	महिला अजा	3
		6	भीमा मांगीलाल	73	से	87/1	दिलीप नानूराम	महिला अजजा	0
		7	गोर्वधन नत्थु	88	से	105	नथीबाई ओंकार	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	माया शेरू	106	से	121	अनिता अशोक	महिला अनारक्षित	3
		9	बोखार मांगीलाल	122	से	131	धनसिंह मोतीराम		
		10	बसंती सखाराम	132	से	143/2	ग्यारसी पुनाजी		
		11	चंपाबाई बाबू	144	से	158	देवेन्द्र गोपाल		
		12	निर्मला भगवान	159	से	176/2	कुनाल सतीश		
		13	काली रतन	177	से	189/1	सुनिता जीवनलाल		
		14	श्यामलाल गुमानी	190	से	199/3	लिला सुभाष		
		15	राधा रामलाल	200	से	210/1	लखन सुरेन्द्र		
	जागन्या	16	दिनेश रामाजी	1	से	10	नरेन्द्र ब्रजलाल		
		17	नारायण ओंकार	11	से	23	विद्या भूरीया		
		18	शांता केशव	24	से	अंत तक	संतोष मोहब्बत		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	पडालीखुर्द	1	पानूबाई नत्थु	1	से	13 घ	राजा धरमसिंह	अजा	1
		2	छालीबाई आशाराम	17	से	29	कविता गजानंद	अजजा	0
		3	जमना भगवान	30	से	40	अनिता केलाश	अ.पिवर्ग	4
		4	करण लक्ष्मण	41	से	51	दुर्गा आत्माराम	अनारक्षित	9
		5	नेकू गुमान	52	से	69	कपिल अमृत	महिला अजा	0
		6	ग्यारसी बाबू	70	से	77	ललीता नरेन्द्र	महिला अजजा	0
		7	रसाल पृथ्वी	78	से	अंत तक	सती विजय	महिला अ.पिवर्ग	2
	लालपुराटांडा	8	कोला हरिया	1	से	117	सीमा कमल	महिला अनारक्षित	5
		9	चेतराम अमरा	118	से	अंत तक			
		10	सुरेन्द्र मोहन	1	से	8	माया रंजित		
		11	राधा चंपालाल	9	से	22	नरलूबाई श्रवण		
		12	रमेश परमा	23	से	38 ख	कला हिरा		
		13	सोनिया सेंगा	39	से	अंत तक			
	पारसखेडी	14	राकेश मेहताब	1	से	अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	सेल्दाबलवाडा	1	मोहन गंगाराम	1	से 10	सुसाबाई भवरलाल	अजा	2
		2	ज्ञानू बनसिंह	11	से 21	मनीषा नवल	अजजा	0
		3	बालू भगवान	22	से 34	सावित्री कडवा	अ.पिवर्ग	4
		4	बालाराम पेमा	35	से 44	अंगूर आत्माराम	अनारक्षित	8
		5	बल्लू जोगीलाल	45	से 55	मन्नू जियालाल	महिला अजा	1
		6	रामा सीताराम	56	से 66	सुमेर भलाजी	महिला अजजा	0
		7	अंबाराम जयता	67	से 80	सुंदर कडवा	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	नरसिंह बुदिया	81	से 94	गंगा देलतसिंह	महिला अनारक्षित	4
		9	पन्नालाल खुमान	95	से अंत तक	भागीरथ देवराम		
	पडालीबुर्जूग	10	विश्राम नंदा	1	से 13 क	मुकेश भगवान		
		11	ओंकार बालाराम	14	से 29	अनार सजन		
		12	धनसिंह सकरू	30	से 43 घ	ज्योति अमान		
		13	सुरेश कोला	44	से 49 क	राहूल संजय		
		14	साबिर अली	50	से 54/1	संध्या अरुण		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	बिलाली	1	झूमका भाईराम	1	से 15	संगीता नवलसिंह	अजा	2
		2	भगवान टूटा	16	से 33	संगीता अनिल	अजजा	0
		3	महेश मांगीलाल	34	से 50	मंजू कमल	अ.पिवर्ग	4
		4	कडवा भोलू	51	से 67	सीमा गुलाबसिंह	अनारक्षित	8
		5	नाना गुमान	68	से 76	चेनसिंह अमरसिंह	महिला अजा	1
		6	रामचंद्र किशन	77	से अंत तक	नीशा हिम्मत	महिला अजजा	0
	चन्दनपुरा	7	धन्नालाल मूलचंद	1	से 18	छाया भाईराम	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	लक्ष्मण हिरा	19	से 32	भूरा रूपाजी	महिला अनारक्षित	4
		9	श्रीराम जाधव	33	से 41	महेश गंगाराम		
		10	देवराम भलाजी	42	से 56	भगवान बलिराम		
		11	मंशाराम दयाराम	57	से अंत तक	राधाबाई लखन		
	ससल्याबुर्जूग	12	श्रीचंद हरचंद	1	से 22	संतोषी सूरज		
		13	बनवट गंगाराम	23	से 37	संगीता रायसिंह		
		14	मांगी हरेसिंह	38	से अंत तक	राधा भीमसिंह		

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	गोगरगांव	1	ममता टंटू	1	से	19	किरण भारत	अजा	2
		2	पाचीलाल मंशाराम	21	से	42	रुखमणी संतोष	अजजा	0
		3	द्रोपता छज्जू	43	से	55	ममता कालू	अ.पिवर्ग	4
		4	गांगीलाल बांगा	56	से	68/1	समर गोपाल	अनारक्षित	10
		5	तुलसीराम कालू	69	से	81/1	रेशम आत्माराम	महिला अजा	1
		6	सीता राजाराम	81	से	91/3	माया गोविंद	महिला अजजा	0
		7	झापू जालम	92	से	105	रोशनी भग्गू	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	सुरज केदार	106	से	अंत तक		महिला अनारक्षित	5
	पीपलझरखुर्द	9	सुशीला बालमकुंद	1	से	12	कडवी चेताराम		
		10	कालू बाबू	13	से	24	सुमन रमेश		
		11	मंगी श्रवण	25	से	35	कादिल लल्लू		
		12	राजू ज्ञानचंद	36	से	47	अंतिम डालूराम		
		13	रामप्रसाद नंदराम	48	से	61	सुंदरलाल गोविंद		
		14	गोवर्धन मांगीलाल	62	से	77	राधेश्याम तुकाराम		
		15	मोहनलाल हिरालाल	78	से	89	अमोल विनोद		
		16	भगवान नत्थु	90	से	अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	धनपाडा	1	भीका रामसिंह	1	से	22	भगवान कडवा	अजा	5
		2	नहार कडवा	23	से	39	गंगाराम गमन	अजजा	0
		3	बोखार नंदू	40	से	51	सखाराम पदम	अ.पिवर्ग	5
		4	देवीसिंह चंपालाल	52	से	71	चिताराम बावडीया	अनारक्षित	40
		5	नरसिंह घीसू	72	से	88	बालू शंकर	महिला अजा	3
		6	शांता गोपाल	89	से	107	बल्लू नंदू	महिला अजजा	0
		7	झूमका दयाराम	108	से	129	बद्री भुवानीराम	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	एडिया नंदू	131	से	155	देवराम गंगाराम	महिला अनारक्षित	5
		9	मोहन गणपत	156	से	175	अमरिया पुनाजी		
		10	गांगीलाल लक्ष्मण	176	से	275	अन्नूबाई कडवा		
	पिपलुद	11	माया प्रकाश	1/1	से	28	ग्यानचंद प्यारा		
		12	सजन गणपत	30	से	175	कन्हैया मोजीलाल		
	भोगासा	13	कला घुसाई	1	से	28/1	धनसिंह कालू		
		14	ध्यानसिंह शंकर	29	से	52	नाना बापू		
		15	गोदावरी धनसिंह	54	से	72 ग	फूलचंद ओंकार		
	काकट्टी	16	पुनिया टूटा	1	से	13	सोदान विठठल		
		17	अनारसिंह बाबू	14	से	30	संतोष चेताराम		
		18	पारुबाई गबरू	31	से	45	भगवान लालसिंह		
		19	धिताबाई राजाराम	46	से	59	कडवाजी गजानंद		
		20	कडवी जामसिंह	60	से	80	रूपसिंह भगाजी		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	जुजाखेडी	1	नहारसिंह भलाजी	1	से	13	प्रतीक नंदराम	अजा	6
		2	भगवान रामचंद्र	14	से	29	निशा काशीराम	अजजा	0
		3	घीसू बाबू	30	से	39	ममता ताराचंद	अ.पिवर्ग	4
		4	कडवा नानापाल	40	से	52	हेमंत भुवानीराम	अनारक्षित	7
		5	घनश्याम बोखार	53	से	64	मंजू अजय	महिला अजा	3
		6	गोपाल रामसिंह	65	से	78	शबर कगल	महिला अजजा	0
		7	मोहन गमन	79	से	88 क	राहूल महिपाल	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	प्रभुलाल बाबू	90	से	100	नथीबाई	महिला अनारक्षित	4
	बेरफड बुर्जूग	9	कनकसिंह नरेन्द्र	1	से	34/1	जयपाल गजराज		
		10	द्वारकी कमल	35	से	42	रूपाली केलाश		
		11	बहादूर अमर	43	से	56	अरविंद रूपसिंह		
		12	गेंदा बाबू	57	से	65	अजुदया उमाशंकर		
		13	फूलचंद बुदिया	67	से	84	बबीता गुलाबसिंह		
		14	ताराचंद गणपत	85	से	100	लोकेश पुनिया		
		15	रुखडिया धनिया	101	से	117	यशवंत सजन		
		16	नरसिंह छोगया	123	से	142	उर्मिला रमेश		
		17	पुनी खुश्याल	148	से	162	भगवती जोगया		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	माधलपुरखुर्द	1	कांताबाई रामबाबु	1	से	18	मिराबाई भागीरथ	अजा	7
		2	धर्मेन्द्र मंशाराम	18	से	33	हिम्मत दशरथ	अजजा	0
		3	बोखार अमरा	36	से	52	रिंकु कमल	अ.पिवर्ग	5
		4	भुरीबाई लक्ष्मण	53	से	66	प्रेमाबाई कालु	अनारक्षित	8
		5	राधेश्याम कालु	66	से	77	घिसीबाई कमललाल	महिला अजा	3
		6	हरीकृष्ण कडवा	77	से	86	चंदना विजय	महिला अजजा	0
	शीलखेडी	7	मधुरालाल बोदर	1	से	16	सुगिता सुखदेव	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	रविन्द्र जाधव	16	से	33	बकसर धर्मेन्द्र	महिला अनारक्षित	4
		9	तुलसीराम चम्पालाल	34	से	55	नरेन्द्र राधेश्याम		
		10	देवराम नत्थु	56	से	80 क	पुजा ज्ञानचंद		

1	2	3	4			5	6
अस्तूरिया	11	लीला शंकर	1	से	10	अंतिम सुखदेव	
	12	केशरबाई देवराम	11	से	18 ख	जगदीश कमल	
	13	रामा राजाराम	19	से	23	भुमीका संजय	
	14	जानकीबाई गंगाराम	30	से	47	शिवंताबाई प्रेमचंद	
बांगरदा	15	नरेन्द्र सीताराम	48	से	65 क	अमित मोहन	
	16	शोभ्या रामा	66	से	78	आशा अनिल	
	17	सीताराम बनसिंग	79	से	86	दिनेश रामलाल	
	18	कडवा लालचंद	1	से	16	अनिता हेमराज	
	19	कोरजी शिवा	18	से	31	बंसतीबाई शातिलाल	
	20	मोजीलाल घिसा	32	से	105	शारदाबाइ प्रसाद	

खण्ड-बडवाह

- : : सारणी : : -

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से.....तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
जेठवाय	1	झूरमूल हिरालाल	1	से	23 क	अनिता विष्णु	अजा 4
	2	उदयसिंह गजराज	24	से	41	श्वेता जितेन्द्र	अजजा 1
	3	हरकचंद गेंदालाल	42	से	64	अवकेश बलिराम	अ.पिवर्ग 5
	4	हुकूमचंद सीताराम	65	से	84	गुणीराम भरत	अनारक्षित 10
	5	शेरसिंह सुखलाल	85	से	101	संदीप ताराचंद	महिला अजा 2
	6	केशव भलाजी	102	से	अंत तक	जितेन्द्र तुकाराम	महिला अजजा 0
	7	जगदीश मयाराम	121	से	152	मुकेश जगदीश	महिला अ.पिवर्ग 3
	8	गंगाराम राजाराम	153	से	174	लक्ष्मीनारायण देवराम	महिला अनारक्षित 5
	9	छगन कन्हेया	175	से	195	छाया विजयपुरी	
	10	राजराम फत्तू	196	से	223	भारती कमल	
	11	धन्नालाल मांगीलाल	224	से	अंत तक	केलाश हिरा	
घोघनाथ	12	फूलचंद मांगीलाल	248	से	275	महेन्द्र केलाश	
	13	भूरी अनोकचंद	276	से	299 क	सोनू भाईराम	
	14	प्यारा बाबू	300	से	324	सूर्यनारायण पुनिया	
	15	मांगीलाल गट्टू	325	से	347 ख	धमेन्द्र चेनसिंह	
	16	देवकी रतन	348	से	365	शारदा भगवान	
	17	गोदावी चेनसिंह	366	से	388	उषा बोखार	
	18	रतन गोपाल	389	से	412	लक्ष्मी राजेश	
	19	बोखार चेनया	1	से	25	ममता महेश	
	20	हरिराम तुकाराम	26	से	अंत तक	ममता मोहन	

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4				5	6
बामनपुरी	1	काशीराम राजाराम	1	से	26	अनोकचंद मयाराम	अजा	2
	2	बाबूलाल मयाराम	27	से	44	सुनिता तुलसीराम	अजजा	0
	3	टिकाराम लच्छीराम	45	से	63	जगदीश नहारिया	अ.पिवर्ग	3
	4	घीसा सोमाजी	65	से	89	दिनेश बिहारी	अनारक्षित	8
	5	लक्ष्मण गंगाराम	90	से	103	रविन्द्र मिश्रीलाल	महिला अजा	1
	6	गेंदालाल पेमाजी	104	से	132	विनोद सखाराम	महिला अजजा	0
	7	रामकिशन पुनाजी	133	से	150	देवकी नंदराम	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	बाबूलाल मदन	152	से	169	ओमप्रकाश देवकरण	महिला अनारक्षित	4
	9	कन्हैयालाल लक्ष्मण	170	से	181	हिरालाल लक्ष्मण		
	10	हरीराम रामाजी	182	से	200	सुरेश सेवकराम		
	11	रूपचंद रामचंद्र	201	से	220	उषा दिनेश		
	12	राजेश जानकराम	221	से	अंत तक	छगन अंबाराम		
मालीपुरा	13	बालम बलवंत	1	से	अंत तक	प्रहलाद घीसाजी		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4				5	6
पिडायबुर्जुग	1	रामकरण तुलाराम	1	से	11	सुनिल लच्छीराम	अजा	2
	2	गुलाबबाई बल्लू	12	से	33	हरिराम भुवानीराम	अजजा	0
	3	तुलसाबाई सखाराम	34	से	48	भुराजी शोभाराम	अ.पिवर्ग	4
	4	छविराम नारायण	49	से	65	मुकेश मांगीलाल	अनारक्षित	8
	5	रामेश्वर मोतीराम	66	से	89	सुनिल मोहनलाल	महिला अजा	1
	6	रामकुवर भाउजी	90	से	102	महेश रामेश्वर	महिला अजजा	0
	7	निहाली शोभाराम	103	से	114	राजेश सुरजलाल	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	कडवीबाई बालाजी	115	से	128	यशवंत मोतीराम	महिला अनारक्षित	4
	9	बल्लू गप्पू	129	से	152	संजय छीतर		
	10	रेवाराम नरसिंह	153	से	अंत तक	दिनेश भावसिंह		
बिसनपुरी	11	गीताबाई मांगीलाल	1	से	अंत तक	धवलसिंह कोलू		
पिडायखुर्द	12	मोताबाई दिनेश	2	से	15	महेश भग्या		
	13	चेनसिंह मांगीलाल	16	से	31	हिरालाल नानाजी		
	14	सुखराम फत्तू	32	से	अंत तक	दिनेश रामसिंह		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	नाया	1	रामकोरबाई ठाकूर	1	से	10	रामकिशन पिरीया	अजा	6
		2	शिवराम मोजीलाल	11	से	30	नारायण दामाजी	अजजा	1
		3	पुनाबाई कालू	31	से	44	रघुनाथ बनसिंह	अ.पिवर्ग	4
		4	नंदराम हरेसिंह	45	से	56	लीलाबाई मोहन	अनारक्षित	5
		5	निल्या फत्तू	57	से	71	दुलीचंद रामाजी	महिला अजा	3
		6	राजलबाई मोजीलाल	72	से	84	भोलू सायबा	महिला अजजा	0
		7	धन्नालाल कानाजी	85	से	93	बल्लू दशरथ	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	चिंताराम चंपालाल	94	से	117	ख मिसरबाई रामसिंह	महिला अनारक्षित	3
		9	ताराबाई कन्हेया	118	से	130	जगन सीताराम		
		10	नानीबाई हरचंद	131	से	142	राधेश्याम किशन		
		11	शंकर नानाजी	143	से	150	जीवन देवाजी		
		12	केशरीलाल छोगालाल	151	से	162	रामलाल राजाराम		
		13	धनईबाई अनोकचंद	163	से	176	अमराजी टीकाराम		
		14	तिलोक शिवाजी	177	से	195	गुलाब सडूजी		
		15	घनश्याम गंगाराम	196	से	209	नहारसिंह बाबूलाल		
		16	शिवकोर नानकराम	210	से	अंत तक	लक्ष्मण रामा		

आरी
बोरी
गाडरिया

विरान
विरान
विरान

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	बागाफल	1	बसंती सोमा	1	से	9	पप्पू विजय	अजा	7
		2	अमरी रतन	16	से	23	कविता दिलीप	अजजा	1
		3	कमला भगन	24	से	37	रेशम अनोकचंद	अ.पिवर्ग	0
		4	भूरी जगन	38	से	51	अनिल श्रीराम	अनारक्षित	5
		5	दामा मोहन	52	से	65	प्रकाश केलाश	महिला अजा	3
		6	बाबूलाल शंकर	66	से	75	बसू पप्पू	महिला अजजा	1
		7	नानी गोमा	76	से	95	संगीता शंकर	महिला अ.पिवर्ग	0
		8	जीवली रामाजी	96	से	112	रेणूका दिनेश	महिला अनारक्षित	3
		9	गजानंद कालू	113	से	131	मनीषा गोविंद		
		10	कमला गम्पू	132	से	142	गीता रमेश		
		11	भगवान मंगत्या	144	से	162	यशवंत छित्तू		
		12	बाबूलाल श्रवण	163	से	194	रेशम नानसिंह		
	नरसिंगपुरा लालखेडी	13	करस्तूरी जगनाथ	1	से	20	निर्मला छित्तू		

विरान

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	कदवाल्या	1	शंकर मांगीलाल	1 से 21	पिकी दीपक	अजा	7
		2	गबरू अर्जुन	22 से 47	अर्चना नाना	अजजा	1
		3	कनिया हरचंद	48 से 81	उषा सीताराम	अ.पिवर्ग	4
		4	अनोकचंद मदन	82 से 98	कुसूम रूपसिंह	अनारक्षित	4
		5	कालू गप्पू	99 से 113/1	राधा चंपालाल	महिला अजा	4
		6	गोविंद सीताराम	114 से 121/1	लक्ष्मीनारायण कुलसिंह	महिला अजजा	0
	खोडी	7	सूर्यकिशोर झडीलाल	1 से 123/1	फूलकुमारी बाघेश्वरी	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	शिवकुमार रामभरोस	23/2 से 36	कमल गोपाल	महिला अनारक्षित	2
		9	बाबूलाल दीनालाल	37 से 47	निशा मनोज		
		10	धनसिंह हरेसिंह	47/1 से 58/1	सतीष राजेन्द्र		
		11	विजय चंदेकाप्रसाद	58/2 से 66/4	विजय भूरेसिंह		
		12	जगदीश मयाराम	66/3 से 81	मोनिका नरेन्द्र		
		13	शेरू गबरू	82 से 91/1	रोशनी तोताराम		
		14	मांगी रूखडू	92 से 105/1	राखी आशीष		
		15	झूमका विठठल	106 से 115/1	अनिता कडवा		
		16	जगदीश श्रीराम	116 से 138	कविता गोपाल		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --							
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	नांदिया	1	योगिता बाबूलाल	2/3 से 28 ख	सुनिल तुलसीराम	अजा	1
		2	बिहारी नानूराम	28 ग से 49 क	गुलाबबाई संतोष	अजजा	1
		3	आशाराम सोना	50 से 78 क	जगदीश आशाराम	अ.पिवर्ग	4
		4	महेश आशाराम	78 ख से 93 क	दयाल रतनदास	अनारक्षित	10
		5	सीताराम चुन्नीलाल	94 से 111 क	विजय	महिला अजा	1
		6	महेश गोपाल	112 से 134	कडवा शोभाराम	महिला अजजा	0

1	2	3	4	5	6		
		7	केशर शोभाराम	135 से 156	चनन मुकूंद	महिला अ.पि.वर्ग	2
		8	कडवी गंगाराम	158 से 183	बालाराम दुलीचंद	महिला अनारक्षित	5
		9	लक्ष्मी सीताराम	184 से 199/1	भाना माधव		
		10	गोविंद केशव	200 से 221	पूनमचंद बाबू		
		11	छोटेला बाबू	222 से 237	देवा केशव		
		12	सीताराम मन्नालाल	238 से 251 क	कमल तेरसिंह		
		13	कालू तेजा	252 से 272	शिवराम गप्पू		
		14	मंगला गप्पू	273 से 293	दयाराम मांगीलाल		
		15	जगन नानका	293 से 320 ख	गेंदालाल भुवानीराम		
		16	ताराचंद गेंदालाल	320 से 319 ग	राधेश्याम रामभरोसे		
	लोहरपुरा		विरान				

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	सिरलाय	1	शुरीबाइ बाबुलाल	1 से 32	योगिता पप्पु	अजा	6
		2	रामकरण घिसाजी	33 से 68/1	हिरालाल दशरथ	अजजा	4
		3	मगन घिसाजी	69 से 103/क	लल्लु मंगुनाथ	अ.पि.वर्ग	5
		4	श्रवण शिवनाथ	104 से 132	ओमप्रकाश रामसुचित	अनारक्षित	5
		5	शंकरलाल गंगाराम	133 से 170/क	बोखार पेमा	महिला अजा	3
		6	हरचंद बोखार	169/ख से 207	राजाराम प्यारेलाल	महिला अजजा	2
		7	माधव बेहराजी	208 से 246	केशरबाई मंशराम	महिला अ.पि.वर्ग	2
		8	रमेश पेमा	247 से 287/क	सकुबाई हरी	महिला अनारक्षित	3
		9	भुरेलाल हरी	287 से 314 क	सजनसिंग मंगलसिंग		
		10	चुन्नीलाल बाल्या	315 से 347 क	दशरथ सिताराम		
		11	सतिष दशरथ	347 से 379	रन्याबाई मोतीलाल		
		12	दिलीप छित्तु	380 से 390	तेजा बल्लु		
		13	रतन मिश्रीलाल	391 से 400	पप्पु रमेश		
		14	गुलाबसिंह कुंजी	401 से 416/क	केशरबाई बाबुलाल		
		15	रामसिंग सखाराम	417 से 442/क	शकीखॉ हबीबखॉ		
		16	मुसाखान शकुखा	442 से 509/ख	हीराजी धन्नालाल		
		17	रामु सुरजी	519 से 674/1	संजय रमेश		
		18	ज्ञानसिंग भाना	674 से 726/ख	भुवानीराम कल्याण		
		19	कैलाश छगन	727 से 773/ख	अन्तु गुलाबसिंग		
		20	हेमराज गोविन्द	774 से 911	जगन रामाजी		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	बड़वाहकरबा (दशहरा मैदान)	1	हरिश छोटेलाल	0	से	51	भागीरथ मांगीलाल	अजा	3
		2	बोखार बोंदर	52	से	123	केलाश शोभाराम	अजजा	3
		3	अमरसिंह बाबूलाल	123	से	176	केलाश बाबूलाल	अ.पिवर्ग	5
		4	मोहन मांगीलाल	179	से	240	विनोद शंकर	अनारक्षित	9
		5	मदन शंकर	240/1	से	294	सुनिल यशवंत	महिला अजा	1
		6	गोहनराव याशवंतराव	294/1	से	356	दीपक बाबूलाल	महिला अजजा	2
		7	सुनिल परसराम	357	से	8	प्रकाश रामगुलाब	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	गंभीर गजानंद	9	से	अंत तक		महिला अनारक्षित	4
	पिलिमिटटी	9	रामकिशन	1	से	35	राजेश नरसिंह		
		10	दिलीप दशरथ	36	से	अंत तक			
	अन्नपूर्णा, (राधोराम पटवारी)	11	दयाराम श्रवण	1	से	अंत तक			
	हा0 बोर्ड	12	शिवनारायण बिसनलाल	1	से	54	राजेन्द्र परसराम		
	हा0 बोर्ड सिंचाई	13	भगवानसिंह रणजीत	55	सी	से	अंत तक		
	शर्मा, रेवा	14	अशोक कन्हेयालाल	1	से	अंत तक			
	सुराना, गोपाल पार्क	15	हेदर शंकर	1	से	अंत तक			
	बजरंगघाट	16	छोगालाल नारायण	1	से	25	ताराचंद श्यामलाल		
		17	सुनिल शंकर	26	से	63/1	मेहमूद लियाकत		
		18	तसलीम बेग सलीम	65	से	अंत तक			
	टावरबेडी	19	काशीम हुसेन	2	से	97	जितेन्द्र कमलसिंह		
	टावरबेडी/करिया	20	कमल देवचंद	106	से	अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	रूपाबेडी	1	रामा नत्थु	1	से	14	घनश्याम लक्षण	अजा	2
		2	हिरालाल गंगाराम	15	से	25	रेवाराम छगन	अजजा	1
		3	रामलाल शिवराम	26	से	33	नसरू बावरिया	अ.पिवर्ग	4
		4	मेहकाल भाउ	34	से	44	आनंदराम गणपत	अनारक्षित	8
		5	गुलाबसिंह राजाराम	45	से	59	उमराव सुखलाल	महिला अजा	1

1	2	3	4	5	6		
		6	राजाराम सिकदार	60 से 69	छोटू गंगाराम	महिला अजजा	1
		7	कडवा छगन	70 से 80	संतोष मंगत्या	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	मनोहर सुखलाल	81 से 91	द्वारकी देवराम	महिला अनारक्षित	4
		9	कला श्यामलाल	92 से 105	मंशाराम सुखराम		
		10	बजरंग बावरिया	106 से 129	रागा बाउ		
		11	नथी बाबू	130 से अंत तक	नारायण मानसिंह		
टोंकी/डेहरिया		12	गोदावरी गबरू	1 से 11	कनक गुलाबसिंह		
		13	घनश्याम मांगीलाल	12 से 22	मंगू बालाजी		
		14	हिरालाल गेंदालाल	23 से 33	भवानीराम शिवजी		
		15	रामसिंह रतन	34 से अंत तक	मगन गुलाबसिंह		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4				5	6
	नावघाटखेडी	1	जानकीदेवी श्रीराम	1 से 12	ख	ममता देवनारायण	अजा	2
		2	श्रीराम स्वरूपानंद	13 से 24		कविता जगदीश	अजजा	1
		3	चंपाबाई छोगालाल	25 से 35	ख	जितेन्द्र ताराचंद	अ.पिवर्ग	3
		4	महेशगिरी मिश्रीगिरी	36 से 53		योगिता प्रितेश	अनारक्षित	8
		5	महेन्द्र अमनालाल	54 से 68		रितू आशीष	महिला अजा	1
		6	जनकलली सुरेश	69 से 81	ग	सावित्री लखन	महिला अजजा	1
		7	कन्हेया मंगत्या	83 से 95	घ	राकेश शेरू	महिला अ.पिवर्ग	1
		8	कडवा ओंकार	96 से 107		भारती दुलीचंद	महिला अनारक्षित	4
		9	गोरी मंगलसिंह	108 से 119		गंगाराम रामलाल		
		10	मंगती राजाराम	120 से 129	च	इमलेश मोतीराम		
		11	भोलू पदम	130 से 142	च	मूहंत हरिदासजी		
		12	गोविंद नत्थु	143 से 177		अन्नमाइशो कालाक्या		
		13	जमनालाल मांगीलाल	178 से 303		अंकित चंद्रप्रकाश		
		14	कमलसिंह तुलसीराम	304 से अंत तक				

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
बावडीखेडा		1	सीताराम रामा	1	से 14	गेंदी राजाराम	अजा	6
		2	सुमन निहाला	15	से 33	बिना कडवा	अजजा	1
		3	रमेशचंद राजाराम	34	से 50	निला मोहन	अ.पि.वर्ग	4
		4	नगूबाई चिंताराम	53	से 65	तोताराम श्रवण	अनारक्षित	5
		5	प्यारी छज्जू	66	से 75 क	गुलाबसिंह नंदराम	महिला अजा	3
हीरापुर		6	प्रमिला भलाजी	1	से 21	नानी मंशाराम	महिला अजजा	1
		7	नत्थु तुलसीराम	22	से 40	चंपालाल ओंकार	महिला अ.पि.वर्ग	2
		8	गजराज पदम	41	से 54	हूकूमचंद नत्थु	महिला अनारक्षित	2
		9	सुंदरबाई रामाजी	55	से 69	श्रीराम कालू		
जैमलपुरा		10	जगदीश दरियाव	1	से 14 क	हरेराम तुकाराम		
		11	अनार दरियाव	15	से 23 क	बोखार मयाराम		
		12	अंतिम हेमंत	24	से 40	अभीजीत अविनाश		
		13	शेरू प्रेमलाल	41	से 28	विजय उमराव		
		14	रमेश नत्थु	29	से 46	सुखाराम भावल्या		
		15	उमराव अब्बास	47	से 74	ललीता सखाराम		
		16	तुलसीराम पुनिया	75	से 95	राकेश गेंदालाल		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
बफलगांव		1	सोनू मोहन	1	से 11	किरण राकेश	अजा	5
		2	सुखलाल बलवंत	12	से 25	संगीता इंदर	अजजा	1
		3	सावित्री बाबू	26	से 36	शांतीलाल नाहर	अ.पि.वर्ग	5
		4	रेवाराम गेंदालाल	37	से 48	पिंकी तुकाराम	अनारक्षित	9
		5	गणेश चेताराम	49	से 62	बसू संतोष	महिला अजा	3
		6	टीकम रामसिंह	63	से 76	सीमा पर्वत	महिला अजजा	1
		7	सुमेर नाहरसिंह	77	से 87	गायत्री राजेन्द्र	महिला अ.पि.वर्ग	2
		8	भारत गंगाराम	88	से 98	संतोष चंदर	महिला अनारक्षित	4
		9	शिवराम सीताराम	99	से 127	हेमलता		
		10	विजय उमाकांत	131	से 154	हेमंत बसंत		
		11	कविता बसंत	155	से 173	सुजित केलाश		
		अगरवाडा		12	प्यारसिंह नारायण	176	से अंत तक	
13	सुंदरलाल घनश्याम			1	से 15/2	कपिल बागसिंह		
14	जशोदा चंपालाल			17	से 36/1	ममता योगेन्द्र		
15	रामलाल रूखडू			37	से 52	गायत्री सुखदेव		
16	धीस्या जालम			53	से 71	रविना महेश		
17	महेश सुखराम			72	से 93	गुलाबचंद छित्तू		
18	तुकाराम कालू			95	से 121	सुनिल छननू		
19	कलावर छगन			122	से 146	सासत राजकुमार		
20	बसकर देवराम	149	से अंत तक					

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
बेलम बुर्जग	1	भुवानीसिंग नेमा	1	से	12	जितेन्द्र गोपाल	अजा	4
	2	चंपालाल भीका	13	से	25	रणजीत मोहन	अजजा	0
	3	भागवती चंपालाल	26	से	37	राकेश मनोहर	अ.पिवर्ग	4
	4	गोविंद पेमाजी	38	से	52	जितेन्द्र रमेश	अनारक्षित	7
	5	नवलसिंह भाना	53	से	66	करणसिंह ज्ञानसिंह	महिला अजा	2
	6	पन्नालाल पेमा	67	से	82	कुंदन बाबूलाल	महिला अजजा	0
	7	रतन मांगीलाल	83	से	102	सावित्री रतन	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	गयणाबाई राजाराम	103	से	123	सीमा नहारू	महिला अनारक्षित	4
गंगवाडा	9	उंकार न्यादर	1	से	18	मालती प्रकाश		
	10	नरसिंह नत्थु	19	से	30	सुनिता संजय		
	11	मोहन तेजा	31	से	44/1	मोहन अमरसिंह		
	12	जगदीश भीलू	45	से	55 क	हरीराम रघुनाथ		
	13	चंपालाल ठाकूर	56	से	73	गोपाल नाना		
दुधापुरा	14	अंबाराम सोमा	1	से	16	मंगतीबाई उमराव		
	15	पारूबाई भागीया	17	से	43	साधना नन्नू		
बेलमखुर्द					विरान			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
किछुद	1	गीताबाई बाबू	1	से	18/1	कडवी नहारू	अजा	9
	2	भारत नरसिंह	19	से	32	छगन गोपाल	अजजा	1
	3	मंगत्या मदन	33	से	46	लक्ष्मण पन्नालाल	अ.पिवर्ग	0
	4	चंद्रधर बाबूलाल	47	से	65	शांता नत्थु	अनारक्षित	5
	5	शंकर रूखडिया	66	से	84	तारा श्रीराम	महिला अजा	4
	6	भगवान शंकर	85	से	101	रूखमणी सरदार	महिला अजजा	1
	7	गीता भोलू	102	से	123	हेमाजी मांगीलाल	महिला अ.पिवर्ग	0
	8	पेमाजी मांगीलाल	124	से	142	गीता दुलीचंद	महिला अनारक्षित	3
भगावां	9	भोलू गप्पू	1	से	16	केलाश करसन		
	10	बदीया घिसीया	17	से	30	रघुनाथ नरसिंह		
	11	घनश्याम दुबलिया	31	से	53	शेरू उंकार		
आमलाथा	12	रामा राजू	1	से	15	मयाराम लक्ष्मण		
	13	गोविंद फत्तू	16	से	31	नारायण कालू		
	14	जीवन तुकाराम	32	से	50	टंटू लक्ष्मण		
	15	कन्हेया मेहकाल	51	से	67	पूनमचंद रामचंद्र		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
हमीरपुरा	गंगापुरभोराई	1	भाना भीकाजी	1	से 11	ख रोहित अशोक	अजा	4
		2	बाबूलाल मूलाजी	12	से 20	सुनिता जितेन्द्र	अजजा	0
		3	भगवान भाईराम	25	से 39/1	सकूबाई नंदू	अ.पिवर्ग	3
		4	केलाश झापू	40	क से 50	ग कुसूम अनोकचंद	अनारक्षित	6
		5	शांतीलाल रामा	56	से 65	ख सुरेश छोगालाल	महिला अजा	2
		6	प्रेमलाल मोतीराम	66	से अंत तक		महिला अजजा	0
		7	भंशाराम बाबू	1	से 11/1	अनिता अलकेश	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	झूमका सीताराम	11/2	से 20	सुनिल पप्पू	महिला अनारक्षित	3
		9	सीताराम भगवान	21	से 31	हिम्मत राधेश्याम		
		10	नानी अर्जुन	33	से 50	मांगीलाल पप्पू		
		11	कालू राजू	51	से अंत तक			
		12	बाबूलाल रामाजी	1	से 13	माया सोहन		
		13	फूंदा रुखडू	14	से 33	अजय गिरधर		
		14	नथी धन्या	34	से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
सेगरला	कपास्थल	1	धनू बालू	1	से 12	रामकली हरेसिंह	अजा	3
		2	भागू शिवा	13	से 24/2	निर्मला उदय	अजजा	0
		3	भुवानीराम	25	से 35	रेखा	अ.पिवर्ग	4
		4	कमल शोभाराम	35/1	से 50	अजय कमल	अनारक्षित	8
		5	हरि भाउ	51	से 67	नदान रतन	महिला अजा	2
		6	लटू छगन	68	से 87	केलाश गजानंद	महिला अजजा	0
		7	माया भावल्या	88	से 98	भगवान बाबू	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	छोटू शंकर	98/1	से 113	अनिता पुनिया	महिला अनारक्षित	4
		9	सुकई बोखार	114	से 126/2	रविन्द्र गुलाब		
		10	कडवा चमरिया	127	से 144	उमा जगदीश		
		11	अनू देवेसिंह	145	से 158	बसंती छगन		
		12	तारा उमराव	163	से 251/2	अनू नानकराम		
		13	श्यामसिंह	1	से 15	सपना विजय		
		14	बिहारी सिकदार	16	से 30	तारा सुखराम		
		15	भीलू भुक्कण	31	से 55	मधू मोहन		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	गुराल्ला	1	नानाजी पुनाजी	1	से 18	रानू घनश्याम	अजा	7
		2	मंगती भाईराम	19	से 32	संगीता बद्री	अजजा	0
		3	कोशलया देवराम	33	से 45	पूजा लखनलाल	अ.पिवर्ग	4
		4	हुकूम हिरालाल	46	से 56	जितेन्द्र अनोकचंद	अनारक्षित	6
		5	सुमन केलाश	56/1	से 72	रीना नानकराम	महिला अजा	4
		6	अजोध्या सीताराम	73	से 90	सुलचना आनंदराम	महिला अजजा	0
		7	लक्ष्मी जगन	91	से 106	दिपक घनश्याम	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	केशर छगन	107	से 118	रोशन शंकर	महिला अनारक्षित	3
		9	मनोहर बंडा	119	से 134	संगीता सुनिल		
		10	गोंदाबाई नत्थु	135	से 154	संजय आत्माराम		
		11	नथूबाई तुकाराम	155	से 169	दिलीप मंगत		
		12	गजानंद मुरार	170	से 186	सचिन जगदीश		
		13	सुंदरलाल लखन	186/1	से 224/1	वंदना दरियाव		
	सुल्तानपुरा	14	रामकन्या राजेन्द्र	1	से 13	पूजा खुश्याल		
		15	सुमन रतनसिंह	14	से 20/1	सुशीला अनारसिंह		
		16	गुलाबचंद भाउ	21	से 31	दुर्गा भगवान		
		17	राजाराम रामचंद्र	32	से 46	सीमा मनीष		
	ओझारा			1	से 5			

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्र.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	रतनपुर	1	बलराम रामकिशन	3	से 24	रमेश केशीया	अजा	4
		2	समोती ठाकूर	25	से 45	नर्मदा महापुरी	अजजा	0
		3	अनारसिंह मांगीलाल	48	से 76	पुनीबाई बहादूर	अ.पिवर्ग	3
		4	चंपालाल मोहन	77	से 95	धनगिर हिरागीर	अनारक्षित	6
		5	केलाशगिर चंचल	96	से 113	रघुनाथ हरेसिंह	महिला अजा	2
		6	गंगाराम बाबू	114	से 132	हरेसिंह रतन	महिला अजजा	0
		7	भगवती मनोहर	134	से 167	बालू मांगीलाल	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	डालू मांगीलाल	168	से 192	बाबूलाल रामसिंह	महिला अनारक्षित	3
		9	एडू बनसिंह	194	से अंत तक			
	बेलसर	10	लक्ष्मी दयाराम	1	से 24	नयजू तुकाराम		
		11	रमेश भगवान	24/1	से 31	दरियाव अनोकसिंह		
		12	निहाल मांगीलाल	32	से 48	मरुबाई सीताराम		
		13	मोहन बनसिंह	49	से 61	केशरपुरी महापुरी		
		14	राजेन्द्रपुरी	72	से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

--: : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	कटघडा	1	सुखचंद शिवा	1	से	17	हिम्मत आनंदराम	अजा	4
		2	पुनाजी मयाराम	18	से	39	श्याणी नयन	अजजा	1
		3	नवलसिंह फत्तू	40	से	53	डोंगर मंगत	अ.पिवर्ग	3
		4	रामसिंह रघुनाथ	54	से	66	पंकज कमल	अनारक्षित	5
		5	मंगत्या बाबू	67	से	94	कंचन कडवा	महिला अजा	2
		6	मोहन शिवा	95	से	115	पूनानंदजी दिव्यानंदजी	महिला अजजा	0
	रामगढ	7	बोखार भलाजी	1	से	14	ममता दिनेश	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	हिरालाल लक्ष्मण	15	से	29	राहूल ओमप्रकाश	महिला अनारक्षित	3
		9	कलाबाई लक्षीराम	30	से	54	अरविदानंद महाराज		
	मेहताखेडा	10	भगवान उंकार	1	से	12/3	रविन्द्र बाबूलाल		
		11	कृष्णाबाई पप्पू	12/4	से	26	पवन कडवाजी		
		12	गोदावरी मदन	27	से	42	हेमलता राकेश		
		13	टंटू चुन्नीलाल	43	से	59	राधाबाई कालू		
		14	धन्नालाल लिम्बा	60	से	100	सुशिला राकेश		
	सुस्तीया						विरान		

खण्ड-बड़वाह

--: : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	आलीखुर्द	1	रिंकू ज्ञानसिंह	1	से	13	शारदा जंगू	अजा	6
		2	गेंदालाल गोविंद	14	से	30	उर्मिला शांतीलाल	अजजा	1
		3	रामप्यारी	31	से	44	रविन्द्र शिवाजी	अ.पिवर्ग	5
		4	झूरमूल सखाराम	47	से	70 ख	रामलाल प्रेमलाल	अनारक्षित	8
		5	कमला किशन	71	से	89	लखनलाल शोभाराम	महिला अजा	3
		6	राधेश्याम शोभाराम	89 क	से	107 ग	लीला जीवन	महिला अजजा	0
		7	सेवकराम मौजीलाल	108	से	129	आशाबाई देवकरण	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	गडबड गोदू	130	से	अंत तक	लक्ष्मी विष्णु	महिला अनारक्षित	4
	आलीबुर्जूग	9	प्रताप रामसिंह	1	से	26	मुन्नी मुकेश		
		10	आनंदराम रामा	26 क	से	42	नहारू बोदर		
		11	हंसा बाला	43	से	58	दिनेश जगदीश		

1	2	3	4	5	6
		12	टिकाराम बाला	59 से 80	रानू विनोद
		13	राजेन्द्र हिम्मत	80 क से 92	दुलीचंद रेवाराम
		14	नवल भगवान	93 से 109	शिवकोर दुलेसिंह
		15	संतोषबाई जीवन	110 से अंत तक	रिना दुलीचंद
	नन्दगांव	16	सीताबाई नाना	1 से 19	टिना दिलीप
		17	यशवंत विष्णु	20 से 42/2	नरेन्द्र बलिराम
		18	बण्डू चंपालाल	43 से 68 ख	मदन गोविंद
		19	सेवकराम	69 क से अंत तक	आरती प्रकाश
	देलवाडा	20	राजेश्री दयाचंद	1 से अंत तक	दुर्गा मांगीलाल

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -

अ. क्रं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के क्रं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4			5	6
	टोकसर	1	विनोद महेन्द्र	1 से 19	उर्मिला नानकराम	अजा	3
		2	सखाराम विश्राम	20 से 30	सीमा सुरेश	अजजा	1
		3	मंगती विक्रम	30/1 से 43	पिंकी संतोष	अ.पिवर्ग	4
		4	कृष्णा गणपत	44 से 66	पार्वती झापू	अनारक्षित	7
		5	भगवान चुन्नीलाल	67 से 83 ख	दिलीप भुवानीराम	महिला अजा	2
		6	हरीपुरी इंदरपुरी	84 से 110	देवेन्द्र हरिकरण	महिला अजजा	0
		7	जगदीश ओंकार	111 से 132	अमरावती कमलचंद	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	तुकाराम घीसाजी	133 से 162	लक्ष्मी रामेश्वर	महिला अनारक्षित	4
		9	सियाराम हरिकरण	162/2 से 190/1	रामकृष्ण रामेश्वर		
		10	सीताराम छज्जू	191 से 213	मधू भीकीया		
		11	ओंकार मोतीराम	214 से 230	ममता दिलीप		
		12	रामाजी घीसाजी	231 से 251	अजय अमरसिंह		
		13	रामेश्वर मदन	251/1 से 266	सुनिता राधेश्याम		
		14	खुश्याली नहारू	267 से 289	रोहित प्रेमपुरी		
		15	बसंती रामदास	290 से 305	विजय हिरालाल		
	धनपाल्या			1 से अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	पीतनगर	1	सुशिला गोपाल	2	से 16	शिवकन्या शातीलाल	अजा	3
		2	राधेश्याम पुनाजी	17/1	से 34	रंजना केलाश	अजजा	0
		3	पुनी मुरार	35	से 48	पंकज बलिराम	अ.पिवर्ग	4
		4	देवकरण जयराम	49	से 63	रेखा दुर्गाराम	अनारक्षित	9
		5	गोपाल चुन्नीलाल	64	से 76	गंगा राजेश	महिला अजा	1
		6	नत्थु पदम	77	से 90	सचिन मयाचंद	महिला अजजा	0
		7	तिलोकचंद छिलू	90/1	से 97	धिरज कमलसिंह	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	गंगा मांगीलाल	97/1	से 112/1	सुधीर देवराम	महिला अनारक्षित	5
		9	जीवन मंशाराम	112	से 129	रानी बी अफजल		
		10	नसीर खां अब्बास	130	से 149	सलमान अजीत		
		11	अमीन बाबू	150	से 166/3	हेमलता जगन्नाथ		
		12	रामकुवर रामा	168	से 178	माया कालू		
		13	रुखमा नाना	179	से 191	मंजू देवराज		
		14	चैनसिंह लक्ष्मण	191/1	से 209	कल्पना संतोष		
		15	राधेश्याम भुवानीराम	210	से 230	रीगा कन्हेया		
		16	जगन भाईराम	230/1	से अंत तक	मडूबाई नहारू		

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
						प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4			5	6	
	राहडकोट	1	काबूलबाई	1	से 18	कडवा कालू	अजा	2
		2	भुवानीराम	19	से 34	लक्ष्मी	अजजा	0
		3	रेवाराम	35	से 53	मिश्रीलाल	अ.पिवर्ग	4
		4	उम्मेदअली	55	से 71	लेखराम	अनारक्षित	10
		5	बोंदरजी	72	से 91	गोपाल	महिला अजा	1
		6	गुलाबचंद	92	से 110	ख बलिराम	महिला अजजा	0
		7	केलाश	111	से 129	पूनमचंद	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	बुदिया	130	से 147	चंपालाल	महिला अनारक्षित	5
		9	संतोष	148	से 171	फूंदाबाई		
		10	चेतराम	173	से 189	ग मिश्रीलाल		
		11	रतन	190	से 202	ग जगदीश		
	खुजरातखेडा	12	तुलाराम	1	से 9	लखमसिंह		
		13	लाडकीबाई	11	से 23	कडवाजी		
		14	मोहनसिंह	24	से 37	दिप्ती		
		15	रामकी	38	से 53/2	राजेन्द्र		
		16	बहादरसिंह	54	से 75	लाडकी		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	फनगांव	1	दुर्गाराम नत्थु	1	से	15	विकास दयाचंद	अजा	1
		2	नर्मदा भुवानीराम	16	से	22	सपना घनश्याम	अजजा	0
		3	राधेश्याम लक्ष्मण	23	से	38	अमन रामलाल	अ.पिवर्ग	4
		4	दुलीचंद बाबू	39	से	55	क सोनाबाई नानाजी	अनारक्षित	12
		5	छगन ईठठल	55	ख से	70/1	घ जगदीश रतन	महिला अजा	1
		6	सुखराम किशोर	70/2	से	75	घ जितेन्द्र भागीरथ	महिला अजजा	0
		7	कस्तूरी आनंदराम	76	से	85	ज्योति देवेन्द्र	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	लक्ष्मण पुनाजी	86	से	98	शुभम रविन्द्र	महिला अनारक्षित	6
		9	आनंदराम पुनाजी	100	से	109	रीना भगवान		
	काकरियाव	10	माधवसिंह हुकूम	1	से	12	रंजना दिनेश		
		11	विक्रम रामाजी	15	से	34	क ममता छितर		
		12	लालू भूराजी	35	से	53	कविता अमृत		
		13	बाबूलाल भाईराम	54	से	73	सीमा दिनेश		
		14	सेवकराम रामलाल	74	से	85	शांती देवराम		
		15	अनारबाई सीताराम	85/1	से	102	रविन्द्र केलाश		
		16	सरजू मोजीलाल	103	से	117	धर्मेन्द्र हिरालाल		
		17	भगवान भूराजी	117	से	अंत तक	निला किशन		

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	मोगावां	1	विजय बाबु	1	से	21	पिंकी जितेन्द्र	अजा	3
		2	बालकराम कडवा	22	से	33	क गंगाबाई	अजजा	0
		3	नन्नु मनीराम	34	से	46	ग मुकेश देवकरण	अ.पिवर्ग	4
		4	श्रीराम हिरालाल	47	से	62	प्रभाबाई मयाचंद	अनारक्षित	10
		5	हिरालाल नत्थु	63	से	85	क सिमाबाई सुरेश	महिला अजा	1
		6	रामकुवरबाई भाईराम	86	से	102	क राजेश हरेराम	महिला अजजा	0
		7	पन्नालाल	103	से	115	क आरती रामलाल	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	पुनिबाई बाबुलाल	116	से	151	कुसुम लक्ष्मीनारायण	महिला अनारक्षित	6

1	2	3	4	5	6
		9	बच्चु बाबुलाल	152 से 173	अंजु महेश
		10	सेवकराम मयाराम	174 से 188	कालु दुलीचंद
		11	गैदालाल कालु	189 से 199	सुरजबाई मयाचंद
		12	गजानंद	200 से 217	भावना भैयालाल
		13	आनंदराम टिकाराम	218 से 231	सुरेश बालकराम
		14	तुलसीराम गुलाबचंद	232 से 250 क	अन्नपूर्णा प्रकाश
		15	रामसिंग ऐडु	251 से 277	शारदाबाई जोगीलाल
		16	राजुबाई चैन्या	278 से 297	देवकन्या रमेश
		17	राधेश्याम	297 से 318	पिंकी हरिओम
		18	अंततक	319 से अंत तक	अंततक
	रूपखेडी बहादुरपुरा		विरान विरान		

खण्ड-बड़वाह

-: : सारणी : : -

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या	5	6	
1	2	3	4			5	6
	भो० सिपानी	1	दिनेश सीताराम	1 से 16	मंगती प्रेमसिंह	अजा	5
		2	प्रहलाद उमराव	17 से 26	छाया प्रेमलाल	अजजा	1
		3	भाईराम राजाराम	27 से 45	भागवत धूपीराम	अ.पिवर्ग	4
		4	गजराज उमराव	46 से 58	चेतना सुमेर	अनारक्षित	7
		5	कचन गंगाधर	59 से 71	मायाबाई सुरेश	महिला अजा	2
		6	उमेद मोहब्सिंह	72 से 83	विजय सखाराम	महिला अजजा	1
		7	हिरालाल पुनाजी	84 क से 103/1	अखिलेश लक्ष्मण	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	केलाश बालकृष्ण	104 से 120	दुर्गा दुर्गाराम	महिला अनारक्षित	4
		9	निला मयाराम	121 से 135/1	महेन्द्र गोपाल		
		10	मयाचंद हरिकरण	136 से 150	आरती गोविंद		
		11	जयराम पुनाजी	152 से 164	अनिता बलिराम		
		12	ओमप्रकाश गैदालाल	166 से 196	भागवत ताराचंद		
	मेहगाव	13	भुवानीराम नाना	1 से 17 क	दिनेश किशोर		
		14	जगन बनिया	18 से 37	हिरालाल नत्थु		
		15	शिवराम नत्थु	38 से 51	अजय नाना		
		16	बालकराम धन्या	52 से 70	रानू जितेन्द्र		
		17	सीताराम सुकया	71 से 88			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	भो० निपानी	1	बलिराम हुकूमचंद	1	से	17	अक्षित लखनलाल	अजा	3
		2	तुलसीराम हुकूमचंद	18	से	40	कृष्णा प्रेमलाल	अजजा	0
		3	सजन बलिराम	41	से	61	शीतल उमेश	अ.पिवर्ग	4
		4	रामचंद्र शोभाराम	63	से	79	लोकेन्द्र मोहन	अनारक्षित	10
		5	तिलोकचंद तोताराम	80	से	110	किरण महेश	महिला अजा	1
		6	चेतन जगदीश	111	से	128	मनीष जितेन्द्र	महिला अजजा	0
		7	भुवानीराम पुनाजी	129	से	141	वर्षा ओमप्रकाश	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	राजाराम सखाराम	146	से	170	नीशा बलिराम	महिला अनारक्षित	6
		9	लक्ष्मण रूपाजी	171	से	192	नरेन्द्र नानकराम		
		10	कडवा नंदराम	193	से	221	सुनिल परसराम		
		11	तारु भिलाजी	222	से	235	सीमा शंकर		
		12	भगवान लक्ष्मण	237	से	264	राधा रामेश्वर		
		13	श्रीराम राजाराम	265	से	282	सकून नारायण		
		14	धन्नलाल तुकाराम	283	से	318	गंगा लल्लू		
		15	बसंती गनाजी	320	से	347	ग्यारस संतोष		
		16	हुकूमचंद आपाजी	349	से	378	धमेन्द्र राधेश्याम		
		17	रमजान नत्थेखां	379	से	405 क	ज्योति भैयालाल		
		18	रुखमा रेवाराम	400	से	अंत तक			

खण्ड-बड़वाह

-- : : सारणी : : --									
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
						प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4			5	6		
	बड़गांव	1	अंबिका निलेश	6	से	22 क	संतोषबाई रमेश	अजा	4
		2	लक्ष्मीचंद भुवानीराम	23	से	35	भावना जितेन्द्र	अजजा	0
		3	रामचरण शिवराम	42	से	58 क	संगीता लखनलाल	अ.पिवर्ग	4
		4	गेंदालाल राजाराम	61	से	72 घ	अरुण राजाराम	अनारक्षित	8
		5	संतोष हिरालाल	75	से	91 घ	भागवत शेखर	महिला अजा	2
		6	गुलाबबाई चुन्नीलाल	96	से	118	सुरेशचंद्र शंकरलाल	महिला अजजा	0
		7	देवराम मांगीलाल	119	से	136	दिलीप मांगीलाल	महिला अ.पिवर्ग	2
		8	कडवा गणपत	139	से	162 क	मायाबाई बलीराम	महिला अनारक्षित	4

1	2	3	4	5	6
		9	जगन्नाथ सखाराम	163 से 179	घनश्याम देवराम
		10	रामलाल चंपालाल	180 से 194	लक्ष्मी बलीराम
		11	सुंदरलाल शिवलाल	195 से 211 क	दुरोपता हुकूमचंद
		12	लिला बिरजलाल	213 से 228	बसंती पुनमचंद
	टांकली	13	मयाराम पीडिया	1 से 22 क	राधाबाई भगवान
		14	मलू नानाजी	23 से 44	रीना जितेन्द्र
		15	दगडू कल्लू	45 से 71	रमेश भुवानीराम
		16	चेतराम हंसराज	72 से 131	सारिका जितेन्द्र

खण्ड-बड़वाह

-- : सारणी : --								
अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
							प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4				5	6
	खेडी	1	मंगतू गेंदालाल	1 से 42	सलोकी मोहन	अजा	5	
		2	भवानी कालू	44 से 76	लेखराम केशरीलाल	अजजा	1	
		3	हमीद अब्दूल	80 से 109	ग्यारस शिवाजी	अ.पिवर्ग	5	
		4	बुदन जालम	110 से 125	सदिल नरसिंह	अनारक्षित	9	
		5	बाबूलाल राजाराम	159 से 193 क	जीवती मिश्रीलाल	महिला अजा	3	
		6	टूटाजी पुनाजी	195 से 214	सचिन रामचंद	महिला अजजा	0	
		7	अमरसिंह श्रीराम	215 से 239	परसराम भूराजी	महिला अ.पिवर्ग	3	
		8	रामेश्वर गंगाराम	240 से 265 क	किरण राकेश	महिला अनारक्षित	5	
		9	भगवान बाबू	266 से 294 क	कमला कमल			
		10	गुंदाबाई नारायण	295 से 320	गोगल ठाकूर			
		11	लक्ष्मी प्यारा	322 से 358	रानू तापीराम			
		12	अमराजी रेवाराम	362 से 390	गायत्री कमलेश			
		13	बलीराम रतन	391 से अंत तक	दुर्गा नत्थु			
	सांगवी	14	कस्तूरी बाबू	2 से 42	अनिता लवकुश			
		15	गुलाब देवराम	43 से 80	राकेश कालू			
		16	दुलीचंद बालिया	81 से 115	मंजू नानकराम			
		17	संतोष मिठठू	115 से 152 क	किरण जितेन्द्र			
		18	टिकाराम दोला	154 से अंत तक	प्रेमलाल रेवाराम			
	रावेर	19	सुभाष लक्ष्मण	1 से 18	रविन्द्र ताराचंद			
		20	केशरीलाल मकून	18 क से अंत तक	ममता सेवकराम			
	उगटटी		विरान					
	पाछला		विरान					

खण्ड-बड़वाह

—: : सारणी : : —

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	बकावां	1	धनई गोविंद	1	से	42	राजू शेरू	अजा	5
		2	लल्लू हिरा	43	से	80	ममता दिलीप	अजजा	3
		3	देवराम कुवरजी	81	से	107	सीमा गेंदालाल	अ.पिवर्ग	5
		4	आनंदराम गणपत	108	से	128	सीमा अंतिम	अनारक्षित	7
		5	वेणीराम मोतीराम	129	से	159	अनिता कालू	महिला अजा	3
		6	ओंकार दलपत	163	से	203	संगीता लखनलाल	महिला अजजा	1
		7	रामरतन गेंदालाल	206	से	224	ज्योति गोपीलाल	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	मयाराम पदम	226	से	258	ज्योति रमेश	महिला अनारक्षित	4
		9	सीताराम धना	261	से	296	जाग्रति नेमीचंद		
		10	सखाराम पुनाजी	297	से	303	राधा कमलचंद		
		11	चुन्नीलाल मांगीलाल	304	से	326	सीमा श्रीराम		
		12	गीता गोविंद	330	से	349	माया जीवनलाल		
		13	बालू धना	350	से	368	रोशनी गुलाबचंद		
		14	संतोष पुरुषोत्तम	373	से	399	रुखमणी मंशाराम		
		15	शोभाराम चंपालाल	400	से	438	माया बलराम		
		16	शोभाराम दयाराम	439	से	468	गंभीर रमेश		
		17	नाना गोविंद	472	से	508	राधा केशरीलाल		
		18	गोरा रामलाल	509	से	542	संगीता दिलीप		
		19	कमला बोखार	543	से	588/1	तिलोकचंद बाबू		
		20	देवराम परसराम	589	से	अंत तक	सचिन टुकडिया		

खण्ड-बड़वाह

—: : सारणी : : —

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं0.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
	मरदाना	1	लक्ष्मणदास गुरु हरिनाम	1	से	48	गोपाल शिवकरण	अजा	3
		2	फूँदा शेरसिंह	49	से	93	शिवनारायण देवराम	अजजा	3
		3	भागाबाई बाबू	94	से	136	धिरेन्द्र लोभीराम	अ.पिवर्ग	5
		4	मदन सीताराम	138	से	190	राकेश हुकूमसिंह	अनारक्षित	9
		5	राजाराम मांगीलाल	191	से	235	मोहन रूपचंद	महिला अजा	1
		6	कमलाबाई रेवाराम	236	से	274	आलोक रविन्द्र	महिला अजजा	1
		7	प्रेमलता विजय	275	से	229	पिंकीबाई संतोष	महिला अ.पिवर्ग	3
		8	बलीराम सायबा	330	से	367/1	बलराम रेवाराम	महिला अनारक्षित	4

1	2	3	4		5	6	
		9	गेंदालाल भोलू	368	से	422	रुकशाना याकूब
		10	प्रवीण नल्थु	423	से	470	गायत्री बलीराम
		11	संजय गजानंद	469	से	522	गजानंद कालू
		12	भाईराम नाग्या	523	से	589	ख राजू गोपाल
		13	दिपक राधाकृष्ण	590	से	644	गुलाबसिंह किशन
		14	भाईराम मांगीलाल	645	से	700	श्यामा कालू
		15	बसंती हिरालाल	701	से	750	अनिल अंबाराम
	नगावां	16	राजाराम बाल्या	1	से	52	भोलू दुबलू
		17	रमेश दुबलू	53	से	105	अभिशोक जगदीश
		18	गंगाराम भिलाजी	107	से	158	कपिल सुरेश
		19	फततूलाल चंपालाल	159	से	205	शोभाराम रामलाल
		20	चेतराम गुजंन	206	से	253	सीताराम तेरसिंह
	अगरपुरा		विरान				
	शाहपुरा		विरान				

खण्ड-बड़वाह

- : : सारणी : : -

अ. कं.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड के कं.	सीमा गांव के मकान नं०.....से...तक				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4				5	6	
	कानापुर	1	रेशम कासम	1	से	19	अजुदयाबाई	अजा	3
		2	लालू शाह	20	से	46/2	ग्यारसीबाई	अजजा	3
		3	तोताराम	47	से	78	अनिल	अ.पिवर्ग	5
		4	बाबूलाल	80	से	90	श्रीराम	अनारक्षित	9
		5	वेणीराम	91	से	114	जगन	महिला अजा	1
		6	गंगाराम	115	से	134	सखाराम	महिला अजजा	1
		7	राधेश्याम	134/	से	156	श्रवण	महिला अ.पिवर्ग	3
				1					
		8	रामरतन	162	से	182/2	गुलाबसिंह	महिला अनारक्षित	4
		9	निलाबाई	185	से	206	सरुबाई		
		10	तुकाराम	207	से	230	दुलीचंद		
		11	कादीर	2	से	261	कमलाबाई		
		12	राजाराम	263	से	281	तिलोकचंद		
		13	मनोहरलाल	281/	से	308/1	इलाई		
				1					
		14	मुन्नू	310	से	334	बाला		
		15	रामा	335	से	354	दुरुपताबाई		
		16	सेवंतीबाई	355	से	373	इस्माईल		
		17	खातुन बी	375	से	405	अकबर		
		18	रसीद	407	से	425	मोतीराम		
		19	सीताराम	425/	से	448	मंगतीबाई		
				1					
		20	रामसिंह	451	से	479/2	भारत		

1	2	3	4	5	6	
जिराधार	1	ज्योती जगन्नाथ	1 से 25	शिवशंकर रामेश्वर	अजा	5
	2	शोभाराम अर्जुन	29 से 46	कान्ताबाई पदम	अजजा	1
	3	कमला मडया	47 से 62/3	लखन जगदीश	अ.पिवर्ग	5
	4	नन्नुगीर हिरागीर	63 से 66	सबनम मेहबुब	अनारक्षित	9
	5	सालकराम रूखडु	67 से 80	दिपक राघोराम	महिला अजा	2
	6	समोती छगन	81 से 95	रविन्द्र भुवानीराम	महिला अजजा	1
	7	धनाजी किशन	97 से 114	संगीता राकेश	महिला अ.पिवर्ग	3
	8	देवराम करसन	115 से 133	राजेश मिश्रीलाल	महिला अनारक्षित	4
	9	ऐडु ध्याना	134 से 155	बसु मिश्रीलाल		
	10	गजानंद सुखराम	155 से 178	गायत्री संजय		
	11	मंगत्या गप्पु	179 से 209	राजेश रामा		
	12	प्रेमलाल गुमान	211 से 234 क	संजन भोलु		
	13	दयाराम गप्पु	232 से 248/1	पिंकी कमल		
	14	अनिता जितेन्द्र	257 से 270	चेतना विकास		
	15	कलाबाई लक्ष्मीनारायण	271 से 288	राकेश सेवकराम		
	16	सुन्दर खुश्याल	289 से 315/4	गंगा बद्री		
	17	जशोदा लच्छीराम	316 से 335	अर्चना महेन्द्र		
	18	मिठी चेताराम	336 से 354	संतोष दिलीप		
	19	आनंदराम नत्थु	354 से 372	राजश्री रविन्द्र		
	20	रामचन्द्र नत्थु	373 से 396	प्रकाश लच्छीराम		
लौन्दी एश	1	कमल शेरसिंह	1 से 14	अभीजीत सुरेन्द्रसिंह	अजा	5
	2	जीवन शोभाराम	16 से 38	वंदना राजेन्द्र	अजजा	0
	3	प्यारसिंह नारायण	39 से 59	बसंती केलाश	अ.पिवर्ग	5
	4	ताराबाई शरदचंद	61 से 78	कमला देवीसिंह	अनारक्षित	10
	5	लाडकी हिरालाल	81 से 95	सपना महेश	महिला अजा	2
	6	प्रेमचंद डोंगर	98 से 120	पारसबाई सुमेरसिंह	महिला अजजा	0
	7	छित्तूसिंह नत्थु	121 से 141	शिवकन्या मुकेश	महिला अ.पिवर्ग	3
	8	श्याणी भुवानीसिंह	142 से 154	रेनूका सुखदेव	महिला अनारक्षित	5
	9	सुभाष उमराव	155 से 170	आशाबाई मुकेश		
	10	बाबूसिंह नत्थु	171 से 190	कोमल जितेन्द्र		
	11	भागवत सुखलाल क	190 से 209	लक्ष्मी कुंदनसिंह		
	12	गोंदाबाई घीसाजी	210 से 225	ममता कोमलसिंह		
	13	रानू जगदीश	226 से 236	अनिता दिनेश		
	14	विजय साहेबसिंह	237 से 254/1	शेलेन्द्र जयराम		
	15	तिलोकचंद बाबू	255 से 278	सीताराम नयनसिंह		
	16	गोरा जगदीश	279 से 301 क	लक्ष्मी भारत		
	17	नंदराम भुक्कण	302 से 326	भागीरथ मिश्रीलाल		
	18	चंदरसिंह नानाजी क	326 से अंत तक	रविन्द्र रमेश		
बिजगोन	19	भुवानीराम मोतीराम	1 से 28	रिना खुश्याल		
	20	दिलीप ध्यानसिंह	31 से 59	बसकर कमल		

1	2	3	4	5	6			
डालची	1	मीरा देवराम	1 से	22	इंदरसिंह	अजा	1	
	2	मिश्रीबाई	24 से	51	रेखा रमेश	अजजा	12	
	3	भानीबाई शिवा	52 से	65	किरण	अ.पि.वर्ग	0	
	4	भावसिंह	66 से	75	मनीषा	अनारक्षित	7	
	5	तोताराम	75/1 से	92	कु.रिद्धी	महिला अजा	0	
	6	बिरोजबाई	94 से	108	बबीता	महिला अजजा	6	
	7	रमलीबाई	109 से	120	राकेश	महिला अ.पि.वर्ग	0	
	8	प्रताप जावरिया	122 से	136	मनूबाई	महिला अनारक्षित	4	
	9	मंगत्या	136/1 से	148	रेखाबाई			
	10	राकेश	148/2 से	166	सुनिता			
	11	राधाबाई	167 से	183	कुसूमबाई			
	12	चमरिया	184 से	198	नदानबाई			
	13	नत्थु	199 से	213	जीवतीबाई			
	14	बाटीबाई	214 से	अंत तक	सुरज			
	जामन्या	15	कालू	1 से	15	दिलीप		
		16	लालसिंह	15/1 से	30/1	मुकेश		
		17	हगरिया	31 से	47	अनिल		
		18	बिसन	49 से	64	रेवाबाई		
		19	भावसिंह	64/1 से	97	संजू		
		20	सरदार	99 से	911	लालीबाई		
कातोरा	1	भुवानीराम गुलाबचंद	1 से	38	भारती रमेश	अजा	4	
	2	बाबू भावल्या	39 से	70	कविता सेवकराम	अजजा	2	
	3	शिवराम मांगीलाल	70 क से	92 ख	दुर्गा नंदराम	अ.पि.वर्ग	5	
	4	श्रीराम फत्तू	94 से	112	कृतिका शिवानंद	अनारक्षित	9	
	5	प्रेमलाल तुकाराम	113 से	125	भेयालाल दुलीचंद	महिला अजा	2	
	6	गोतीराम मयाराम	133 से	155	किरण शेरू	महिला अजजा	1	
	7	गोदावरी केशव	156 से	177	लाडकी	महिला अ.पि.वर्ग	3	
	8	चंपालाल कन्हेया	178 से	220	कमलाबाई सुनिल	महिला अनारक्षित	4	
	9	शोभा बनस्या	221 से	250	ब्रजेश देवराम			
	10	मोतीराम मंगतू	251 से	274/1	लक्ष्मीनारायण			
	11	खुर्याल मांगीलाल	274/2 से	296	माया प्रभुराम			
	12	कडवा हरि	297/1 से	325 क	विजेश तुलसीराम			
	13	गुलाब प्यारा	327 से	362	हरेराम शिवराम			
	14	छितू चेताराम	363 से	399	आत्माराम हिरालाल			
	भारसीगिर्जापुर	15	मिठदू बाबूलाल	400 से	अंत तक			
		16	नरसिंह	1 से	19	ज्योति भगवान		
		17	मयाराम सुरभान	19 क से	44 क	विजय प्यारसिंह		
		18	नानसिंह चमारिया	48 से	61 क	कमला भंगडा		
		19	मदन केरिया	62 से	78	धन्नु रंजीत		
		20	मीरा धनसिंह	79 से	अंत तक			

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

जलवान्या	1	छतरसिंह जुवान	1 से 13	ज्ञानसिंह अनार	अजा	0
	2	बासीराम जुवान	14 से 25	सुनिता विक्रम	अजजा	9
	3	प्यारसिंह जोहरिया	26 से 36	बोंदर तिरख्या	अ.पिवर्ग	0
	4	धुधरी चमरिया	37 से 48	रालूबाई पाच्या	अनारक्षित	2
	5	सुमली मांगीलाल	49 से 59	रुखडिया हगरिया	महिला अजा	0
	6	डोंगर लेपरिया	60 से 69	लेहगा मोतीया	महिला अजजा	5
	7	छगन लेहगा	70 से 81	भारत केकडिया	महिला अ.पिवर्ग	0
	8	झबरसिंह चुन्या	82 से 96	बनसिया कालू	महिला अनारक्षित	1
	9	हटूट नहारसिंह	97 से 105	जुवानसिंह खुमसिंह		
	10	फूंदी गणस्या	106 से 125	गुंदाबाई भाचरिया		
	11	जामसिंह नानसिंह	126 से अंत तक			

संल्दा	1	नत्थु सखाराम	1 से 15	सुमेरसिंह विठठल	अजा	2
	2	कडवा लक्ष्मण	16 से 31	ताराबाई सोदान	अजजा	0
	3	प्रवीण गुलाबचंद	32 से 49	भगवान बलीराम	अ.पिवर्ग	4
	4	नानीबाई शिवा	50 से 69	ममता बाबूलाल	अनारक्षित	8
	5	रमेश बाल्या	70 से 87	मनीषा मंगल	महिला अजा	1
	6	थान्या प्रतापसिंह	88 से 104	नत्थु मोरसिंह	महिला अजजा	0
	7	गणपत मोरसिंह	106 से 128	सुनिल राघुराम	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	भवानीराम शिवाजी	129 से 145	फूलसिंह झापडिया	महिला अनारक्षित	4
बालाबाद	9	भीलूराम चेताराम	1 से 7/3	दीपक केलाश		
	10	दोलत आपाजी	8 से 20	ममता कालूराम		
	11	देवराम भगवान	21 से 38	राकेश तोताराम		
	12	तोताराम परसराम	40 से 57	राहूल रतन		
	13	कन्हेया लालाचंद	58 से 71	चीरंजीव फत्तू		
	14	लक्ष्मण श्रवण	72 से 99	रमतीबाई कडवा		

1	2	3	4	5	6		
नलवट	1	भारत जामसिंह	1 से 18	क	हरलीबाई नजरसिंह	अजा	0
	2	पहाडसिंग प्रताप	18 ख से 30		सुनिल रामसिंह	अजजा	12
	3	डेगरिया पारसिया	31 से 37		रेखा खुमान	अ.पिवर्ग	0
	4	गेंदिया वेस्ता	38 से 48		सीमन राजसिंग	अनारक्षित	1
	5	मसरूबाई भीमसिंह	49 से 56		प्रिंस रमेश	महिला अजा	0
	6	खुमसिंह पारसिया	58 से 67		रूनी प्यारसिंह	महिला अजजा	6
	7	सायसिंग गुलाब	70 से 81/1		चमाबाई सुदीप	महिला अ.पिवर्ग	0
	8	नबादीबाई भाचरिया	82 से 88		मडीबाई राकेश	महिला अनारक्षित	1
	9	हिरकी रजान	88/1 से 95		हिरा परसिंग		
	10	हजारिया गुलाब	95 क से 103		दुर्गाबाई जिरबान		
	11	काशीराम गमा	104 से 114		बटियाबाई खेमसिंह		
	12	शोभाराम जामसिंह	115 से 123		संजय ओंकार		
	13	पूजन गणपत	124 से 142		संतोष बोदरसिंग		
दाभढ	1	थानसिंह नुवास्या	1 से 13		संगाबाई परसिंह	अजा	1
	2	इशराम परसिंह	14 से 19		धूधरी चंदर	अजजा	11
	3	भूरीबाई मुल्या	20 से 38		रूमालसिंह बेचाण	अ.पिवर्ग	0
	4	मास्तर शंकर	39 से 56/1		राघूराम मांगीलाल	अनारक्षित	3
	5	अमरसिंह भुवानसिंह	59 से 79		बलवंत प्यारसिंह	महिला अजा	0
	6	तिलोक प्यारसिंह	80 से 97/2		दिलीपसिंह बाबूसिंह	महिला अजजा	6
	7	अनोकसिंह रामसिंह	98 से 122		केशराम रायसिंह	महिला अ.पिवर्ग	0
जामन्या	8	अनिता धनसिंह	1 से 18		रूखडीबाई धनसिंह	महिला अनारक्षित	2
	9	भूरसिंह शंकर	20 से 30/2		लीलाबाई रूमसिंह		
	10	रेमा भोल्या	31 से 46/1		रामसिंह मंगल्या		
	11	दूरसिंग शंकर	47 से 59		गोपीबाई गलसिंह		
लाछोरा	12	भगवान मालसिंह	2 से 15		वेस्ता भूरा		
	13	भावसिंह ढूढला	16 से 28		भीमसिंह जेमला		
	14	मंगल्या रूमाल	28/1 से 32/2		रामदास जगन		
	15	केसरिया सेकडिया	36 से 47	क	बाथू आनसिंह		

1	2	3	4	5	6	
डाल्याखेडी	1	सुभाष भारत	1 से 21	बालकराम धिराजी	अजा	1
	2	हिराजी मोतीराम	22 से 45	क अजय चंद्रकांता	अजजा	2
	3	किशन राजाराम	46 से 62	घनश्याम मांगीलाल	अ.पिवर्ग	3
	4	झूमका बाबू	63 से 83	बलिराम मंशाराम	अनारक्षित	5
	5	केशव मोजीलाल	84 से 102	रेवाराम बाबूलाल	महिला अजा	0
	6	गोपीकिशन गोकूल	103 से 130	वेणीराम गणपत	महिला अजजा	1
	7	नत्थु गणपत	131 से 145	लक्ष्मीनारायण रूखडू	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	घनश्याम नंदराम	146 से 163	आनंदराम राजााम	महिला अनारक्षित	3
	9	सीताम चुन्नीलाल	164 से 180	मंशाराम सखाराम		
	10	कालू गोपाल	180 से 189/4	विक्रम सरदार		
भातुड	11	पिंजारी गुगरिया	1 से 24/1	देवा मांगीलाल		
डुडगांव	1	बस्कर बजरंग	1 से 32	कला नराण	अजा	6
	2	बलीराम राजाराम	33 से 53/1	निर्मला मयाराम	अजजा	2
	3	धन्नालाल लक्ष्मण	54 से 72	नराण भाया	अ.पिवर्ग	5
	4	चंदर नरसिंह	74 से 90	कृष्णा सीयाराम	अनारक्षित	7
	5	दुलीचंद राजाराम	90/1 से 106	रेखा महेना	महिला अजा	3
	6	अनोकचंद झापू	107 से 139	रचना राधेश्याम	महिला अजजा	1
	7	जयराम चेताराम	140 से 156/1	रीना राजेन्द्र	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	चेताराम पुनाजी	157 से 184	बलदेव मांगीलाल	महिला अनारक्षित	4
	9	रमेश सदाशिव	185 से 203	बसंती तापीराम		
	10	नदान भुवानीराम	205 से 220	राम शिवपुने		
	11	हिरू देवराम	221 से 239	जयश्री भैयालाल		
	12	कमलचंद देवराम	240 से 258	सुलोचना देवकरण		
	13	कला उंकार	259 से 274/1	लक्ष्मी रेवाराम		
	14	पुनाजी शोभाराम	277 से 295	रीना कडवाजी		
	15	राघोराम नत्थु	296 से 322/1	सुगनबाई रमेश		
	16	लक्ष्मीबाई धनाजी	324 से 354	मंजू भुवानीराम		
	17	लक्ष्मण छितू	356 से 384	सचिन धमेन्द्र		
	18	केशव लक्ष्मण	387 से 416	पिंकी मिश्रीलाल		
	19	दुलीचंद रामा	417 से 443	नीमा जितेन्द्र		
	20	कालू हिरा	444 से 482/1	सुरेश धन्नालाल		

1	2	3	4	5	6	
बेडिया	1	बेसरबाई रघुनाथ	1 से 53	प्रियांश विनित	अजा	2
	2	इंदोरीलाल गुलाबचंद	54 से 115/10	द्रुपतीबाई रमेश	अजजा	2
	3	संकुतला जानकी	118 से 184/1	निशा जितेन्द्र	अ.पि.वर्ग	5
	4	भुवीगराम शांतीलाल	185 से 248/9	मालू कन्हेया	अनारक्षित	11
	5	हबीब नवाब	249 से 290/1	मोसमी राजू	महिला अजा	1
	6	जयप्रकाश नंदकिशोर	291 से 355/1	ममता मोहन	महिला अजजा	1
	7	अरुणा मनोहरलाल	356 से 415	अंजली दामोदर	महिला अ.पि.वर्ग	2
	8	रामेश्वर अनोखीलाल	416 से 472	वेशाली दिपक	महिला अनारक्षित	6
	9	भगवान नरसिंह	473 से 526	रईसा फरिद		
	10	रशीद सुलेमान	527 से 562	हारू सुलेमान		
	11	गुलाब मंगत्या	563 से 622/4	मलू रमेश		
	12	राजू सुभ्या	623 से 656	कलाबाई भगन		
	13	कासम हसन	657 से 697	वंदना सुधीर		
	14	पाला गुलाब	698 से 762	दिपक नाना		
	15	तुकाराम चेंथ्या	765 से 823	गोतम हुकूमचंद		
	16	गेंदाबाई रामलाल	824 से 906	राहूल भरतलाल		
	17	पार्वती गुलाबचंद	908 से 967	सोनू नत्थु		
	18	समोती सीताराम	971 से 1025/1	जयप्रकाश सदाशिव		
	19	लक्ष्मण नराण	1026 से 1084/2	रिना पुरुषोत्तम		
	20	नाना मोहन	1085 से 1153	समोती बाबूलाल		
घितावद	1	राधेश्याम गंगाराम	1 से 20	लक्ष्मी बलिराम	अजा	3
	2	बलिराम किशोर	21 से 36	रमेश फत्तू	अजजा	1
	3	जेनाबाई सुलेमान	37 से 62	ललीता रमेश	अ.पि.वर्ग	4
	4	नानाजी टिकाराम	64 से 88	देवानंद टिकाराम	अनारक्षित	9
	5	नथी हरि	90 से 114	दिलीप विमलचंद	महिला अजा	1
	6	मिना हुकूमचंद	115 से 128	किरण कवरचंद	महिला अजजा	0
	7	बाबूलाल नत्थु	130 से 152	सोनू मुकेश	महिला अ.पि.वर्ग	2
	8	जसूबाई सखाराम	154 से 168	सावित्री प्रेमलाल	महिला अनारक्षित	5
	9	दगडी मोजीलाल	171 से 201	हिरू राजाराम		
	10	रूसतम इस्माईल	205 से 231	मनोज सीताराम		
	11	ओंकार राजाराम	236 से 248	ललीत केशरीलाल		
	12	फूदा भुवानीराम	249 से 260	मंजू भुवानीराम		
	13	सीताराम मकुन	261 से 275	रोशनी देवीसिंह		
	14	श्यामकुवरबाई	276 से 293	श्यामलाल कडवा		
	15	तुलसीराम रतन	294 से 313	माया गोतम		
	16	रिसीकेश दुर्गाराम	314 से 334	लक्ष्मी रमेश		
	17	कडवा मांगीलाल	336 से 347	विमला		

1	2	3	4	5	6
तमोलिया	1	राघोराम हिरा	1 से 13	सावित्री ललीत	अजा 3
	2	केशर केशव	14 से 25	पूजा योगेश	अजजा 1
	3	पुनाजी नत्थु	26 से 47	मधू परसराम	अ.पिवर्ग 4
	4	काशीराम मगना	48 से 66	सुनिता तोताराम	अनारक्षित 7
	5	तिलोकचंद पुनाजी	67 से 92	दिलीप तुलसीराम	महिला अजा 2
	6	जीवन मांगीलाल	95 से 109	मंगला देवराम	महिला अजजा 0
	7	गजानंद देवाजी	110 से 126	सुरेन्द्र रूपचंद	महिला अ.पिवर्ग 2
	8	अजुदया आनंदराम	127 से 154	अंत तक	महिला अनारक्षित 4
बागदाखुर्द	9	धीसीबाई लच्छीराम	3 से 13	मंजू प्रकाश	
	10	देवराम राजाराम	14 से 25	धरमचंद शिवराम	
	11	बिना तोताराम	28 से 38	मकुन कडवा	
	12	गोविंद बोखार	39 से 59	दुर्गाराम देवराम	
	13	साहूबाई रघुनाथ	60 से 70/1	सारिका हरेराम	
	14	कडवी नंदू	70 ख से 83	विद्या पुनाजी	
	15	राजाराम नंदू	84 से 103	अंत तक	
भुलगांव	1	पवन हुकूमचंद	1 से 22	सीमा प्रेमलाल	अजा 3
	2	दयाराम रामा	23 से 52	भागवत रेवाराम	अजजा 2
	3	चंपाबाई दशरथ	53 से 87	धमेन्द्र लखन	अ.पिवर्ग 5
	4	अनोखीबाई भाईराम	88 से 108	गायत्री राकेश	अनारक्षित 10
	5	मोजीलाल पदम	109 से 129	ममता दुर्गाराम	महिला अजा 2
	6	जयराम भाईराम	130 से 167	काशीराम कडवा	महिला अजजा 1
	7	देवकीबाई गोविंद	169 से 184	महेश जगन्नाथ	महिला अ.पिवर्ग 2
	8	भरतलाल दशरथ	185 से 203	अमीर खां अकील	महिला अनारक्षित 5
	9	अनारबाई भूरीया	204 से 239	अबेदा फिरोज	
	10	रफीक खां फत्तू	240 से 254	बाबूलाल	
	11	महेश राघोराम	255 से 293	किर्तीबाई सुखदेव	
	12	सीताबाई पहाडसिंह	295 से 334/1	मंजू नत्थु	
नीमखेडी नीलकंठ	13	गोविंद भावलया	335 से 375	काली शंकर	
	14	रमेश रेवाराम	376 से 431	टूटाजी रेवाराम	
	15	भाईराम फत्तू	1 से 230	मंगला गजानंद	
	16	रामसिंह गवलिया	1 से 31	पार्वती सोहन	
	17	राधेश्याम देवराम	32 से 45	धमेन्द्र तोताराम	
	18	कडवीबाइ हुकूम	46 से 64	रिना पवन	
	19	दशरथ जयराम	63 से 85	प्रेमबाई देवराम	
	20	तिलोकचंद देवराम	86 से अंत तक	माधुरी मोजीलाल	

1	2	3	4	5	6	
गलगॉव	1	अशोक लक्ष्मण	1 से 20	हेमराज देवराज	अजा	3
	2	झलू बंकट	21 से 40	मंजूला कोमल	अजजा	0
	3	मदन मोजीलाल	41 से 54	गजेन्द्र राधेश्याम	अ.पि.वर्ग	4
	4	मंजूला पुनमचंद	54 क से 71	भूपेन्द्र लखन	अनारक्षित	9
	5	रामलाल भाईराम	72 से 94	देवकन्या प्रेमचंद	महिला अजा	2
	6	लाडकी बाबू	96 से 113	कविता भरत	महिला अजजा	0
	7	रनियाबाई	116 से 135	मंजू भैयालाल	महिला अ.पि.वर्ग	2
	8	रेवाराम भुवानीराम	137 से 159	बसकर विष्णु	महिला अनारक्षित	4
	9	झबसिंह दयाराम	160 से 180 क	गिरजा विष्णु		
	10	मांगीलाल मोहन	180 से 191 ख	संगीता हेमराज		
कालबरड	11	डिग्रीलाल झपसिंह	192 से 249	ललीता रमेश		
	12	रमेश बाबू	1 से 16	अनिता कमलेश		
	13	कडवा सखाराम	17 से 30	सरस्वती रेवाराम		
	14	खुश्याल रतन	31 से 66 क	भूरी तुलसीराम		
	15	कडवी बाबू	67 से 86	रुखमणी शिवा		
अगरगांव	16	रामकरण नत्थु	1 से 7	राजूबाई		
बडुद	1	कमला रामकरण	1 से 47	रविन्द्र नर्देश	अजा	3
	2	कमलचंद जयकिशन	49 से 90/5	महेन्द्र भैयालाल	अजजा	1
	3	कन्हेया रामलाल	91 से 146 क	निशा मुकेश	अ.पि.वर्ग	5
	4	रेवाराम मोजीलाल	147 से 190	रुखमणी देवराज	अनारक्षित	11
	5	तिलोक गेंदालाल	192/ से 224 2	निशा अखिलेश	महिला अजा	2
	6	हुकूम बाबूलाल	226 से 288	ममता जितेन्द्र	महिला अजजा	0
	7	झूरमूल गोकूल	289 से 330	रणजीत सुखलाल	महिला अ.पि.वर्ग	3
	8	लाडकी राजाराम	331 से 381 क	सकून भगवान	महिला अनारक्षित	5
	9	रूपसिंह तेजसिंह	383 से 433	सुरज जितेन्द्र		
	10	भूरी मुरार	234 से 471/2	ज्योति ओमप्रकाश		
	11	ग्यारसी पन्नालाल	472 से 510	जयमाला सीताराम		
	12	तोताराम मकुंद	511 से 555	जितेन्द्र मंगतू		
	13	उमराव विजय	556 से 617	अर्चना आनंदराम		
	14	गोरी दयाराम	619 से 464	अनीशा ख्यालीराम		
	15	राजाराम हुकूम	711/ से 735 1	कला अनिल		
	16	तोताराम गंगाराम	736 से 804	शांती जितेन्द्र		
	17	बालकराम कुवरजी	805 से 758/3	कला राजू		
	18	भुवानीराम गोकूल	878 से 943/1	जाहीद मुजाहिद		
	19	कुवर ओंकार	943/ से 1002 2	लक्ष्मी जितेन्द्र		
	20	छितर न्यादर	1003 से 1067	राजेश अंबाराम		

1	2	3	4	5	6	
गवल	1	देवेश बलीराम	1 से	23	संगीता संजय	अजा 3
	2	राधेश्याम भाईराम	24 से	49	गवरा देवराम	अजजा 1
	3	धीसीबाई हिरालाल	49 क से	74	जगदीश गंगाराम	अ.पिर्वर्ग 3
	4	प्रेमलाल मोतीराम	74 क से	101	देवेन्द्र रामकरण	अनारक्षित 6
	5	बिरोज चुन्नीलाल	102 से	115	रंजना मुकेश	महिला अजा 2
	6	राजाराम पुनाजी	117 से	136	सारिका भरत	महिला अजजा 0
	7	सोभागपुरी घीसापुरी	137 से	161	संगीता जितेन्द्र	महिला अ.पिर्वर्ग 2
	8	प्रेमलाल बाबू	162 से	186	प्रीति रविन्द्र	महिला अनारक्षित 3
	9	भूराजी बाबू	187 से	206	सुनिता सुदंरलाल	
	10	तिलोकचंद नत्थु	207 से	221	राजश्री दयाचंद	
	11	रमूबाई बाबूलाल	222 से	238	श्रीराम देवकरण	
	12	हिरालाल नत्थु	239 से	252	राजेश आनंदराम	
	13	शिवाजी देवराम	253 से	अंत तक		
सतजन्मा	1	मिश्रीलाल	1 से	19	रीना	अजा 5
	2	प्रहलाद	20/1 से	34	रामकन्या	अजजा 1
	3	फूलबाई	35 से	45	वीणा	अ.पिर्वर्ग 5
	4	कडवा	47 से	68/2	लक्ष्मीबाई	अनारक्षित 8
	5	लाडकीबाई	69 से	75/2	कुसूमबाई	महिला अजा 3
	6	हरिकरण	75/3 से	98	मुस्कान	महिला अजजा 0
	7	प्रेमराम	100 से	121	रितू	महिला अ.पिर्वर्ग 3
	8	रामलाल	123 से	155 क	संगीता	महिला अनारक्षित 4
	9	फत्थु	156 से	176	संजय	
	10	जगन	178 से	202	मंजूबाई	
	11	फत्थु	1 से	14	संजू	
	12	बोंदर	15 से	27	मंजूबाई	
	13	वेणीराम	28/1 से	39	भूपेन्द्र	
	14	सकूबाई	40 से	56	लक्ष्मी	
	15	टीकाराम	57 से	71	ममताबाई	
	16	संगीता	72 से	94	विपीन	
	17	रमूबाई	96 से	113	आरती	
	18	केलाश	114 से	130	कंचनबाई	
	19	श्रीराम	131 से	256	महेश	
खमलाय	1	देवेश बलीराम	1 से	23	संगीता संजय	अजा 3
	2	राधेश्याम भाईराम	24 से	49	गवरा देवराम	अजजा 1
	3	धीसीबाई हिरालाल	49 क से	74	जगदीश गंगाराम	अ.पिर्वर्ग 3
	4	प्रेमलाल मोतीराम	74 क से	101	देवेन्द्र रामकरण	अनारक्षित 6
	5	बिरोज चुन्नीलाल	102 से	115	रंजना मुकेश	महिला अजा 2
	6	राजाराम पुनाजी	117 से	136	सारिका भरत	महिला अजजा 0
	7	सोभागपुरी घीसापुरी	137 से	161	संगीता जितेन्द्र	महिला अ.पिर्वर्ग 2
	8	प्रेमलाल बाबू	162 से	186	प्रीति रविन्द्र	महिला अनारक्षित 3
	9	भूराजी बाबू	187 से	206	सुनिता सुदंरलाल	
	10	तिलोकचंद नत्थु	207 से	221	राजश्री दयाचंद	
	11	रमूबाई बाबूलाल	222 से	238	श्रीराम देवकरण	
	12	हिरालाल नत्थु	239 से	252	राजेश आनंदराम	
	13	शिवाजी देवराम	253 से	अंत तक		
	14	मिश्रीलाल	1 से	19	रीना	अजा 5
	15	प्रहलाद	20/1 से	34	रामकन्या	अजजा 1
	16	फूलबाई	35 से	45	वीणा	अ.पिर्वर्ग 5
	17	कडवा	47 से	68/2	लक्ष्मीबाई	अनारक्षित 8
	18	लाडकीबाई	69 से	75/2	कुसूमबाई	महिला अजा 3
	19	हरिकरण	75/3 से	98	मुस्कान	महिला अजजा 0
20	प्रेमराम	100 से	121	रितू	महिला अ.पिर्वर्ग 3	
21	रामलाल	123 से	155 क	संगीता	महिला अनारक्षित 4	
22	फत्थु	156 से	176	संजय		
23	जगन	178 से	202	मंजूबाई		
24	फत्थु	1 से	14	संजू		
25	बोंदर	15 से	27	मंजूबाई		
26	वेणीराम	28/1 से	39	भूपेन्द्र		
27	सकूबाई	40 से	56	लक्ष्मी		
28	टीकाराम	57 से	71	ममताबाई		
29	संगीता	72 से	94	विपीन		
30	रमूबाई	96 से	113	आरती		
31	केलाश	114 से	130	कंचनबाई		
32	श्रीराम	131 से	256	महेश		

1	2	3	4	5	6	
टोकलाय	1	भगवान कुवरजी	1 से 15/1	उषा रितेश	अजा	2
	2	बालकराम पुनाजी	16 से 33	सलोकी संजय	अजजा	3
	3	नानकराम नत्थु	36 से 50	चिंताराम संतोष	अ.पिवर्ग	4
	4	देवराम घीसाजी	51 से 77	सुनिता सुदंरलाल	अनारक्षित	8
	5	श्रवण हिराजी	79/1 से 95/1	आशा मानक	महिला अजा	1
	6	महावीर सखाराम	100 से 118	रेवाबाई लक्ष्मण	महिला अजजा	2
	7	नानकराम रेवाराम	118/1 से 135 क	अखिलेश चंपालाल	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	बाबूलाल चंपालाल	139 से 156	भारती राजेश	महिला अनारक्षित	4
	9	लक्ष्मीनारायण मुरारजी	157 से 177	रजनी सुनिल		
	10	देवराम मोजीलाल	178 से अंत तक			
राथझर	11	राधेश्याम श्रीराम	2 से 13	निर्मला तिलोकचंद		
	12	देवराम लच्छीराम	14 से 32	शिवाजी शेरसिंह		
	13	बाबूलाल जगन्नाथ	36 से 49 घ	चिंताराम मोहन		
	14	कुवरलाल फत्तू	54 से 77	रामलखन जगदीश		
मोखनगांव	15	सखाराम नत्थु	77 क से अंत तक			
	16	चंदर रणछोड	1 से 19	संदीप चंदरसिंह		
	17	महावीर मोतीया	19 क से अंत तक			
साला	1	देवराम शोभाराम	1 से 13	कालू सुखलाल	अजा	5
	2	गणपत गोपाल	14 से 34	केलाश जगन्नाथ	अजजा	0
	3	भर्मदा जुगलकिशोर	35 से 55	दयाबाई मोहब्बत	अ.पिवर्ग	4
	4	मंजू मानसिंह	56 से 70	भैयालाल रामलाल	अनारक्षित	5
	5	घीसी गनाजी	71 से 92	हुकूमचंद नत्थु	महिला अजा	2
	6	सीला करतार	93 से 123	साजन बाबू	महिला अजजा	0
	7	नरसिंह आण्या	124 से 141	सुजान खुश्याल	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	राजू चुन्नीलाल	142 से 159	मयाराम शोभाराम	महिला अनारक्षित	3
	9	केलाश खुश्याल	160 से 182	दुलीचंद हिरालाल		
	10	फूदा नत्थु	183 से 199	डोंगर पुनाजी		
	11	रूपा पुनाजी	200 से 212	फूदा रामकिशन		
	12	महावीर रामकिशन	213 से 221	बहादर देवराम		
	13	रामेश्वर शिवलाल	222 से 241	बालकराम आनंदराम		
	14	मांगीलाल कुवरजी	242 से 256			

1	2	3	4	5	6		
ढकलगांव	1	रामेश्वर नंदराम	1 से 49/3	केशरीलाल	अजा	4	
	2	भांगीलाल बालराम	51 से 89	रामकुमार ओंकारलाल	अजजा	0	
	3	हरेराम महादेव	89 क से 137	नरेन्द्र सुंदरलाल	अ.पिवर्ग	5	
	4	झूमका काशीराम	138 से 183	अर्पिता आनंदराम	अनारक्षित	11	
	5	पारू नंदराम	185 से 232	परवीन अकिल	महिला अजा	2	
	6	धन्नालाल पदम	233 से 292/1	इमरान वहीद	महिला अजजा	0	
	7	रजाक हबीब	292/ से 334	भारती राकेश	महिला अ.पिवर्ग	2	
	8	चुन्नीलाल लालचंद	335 से 377	भारती सेवकराम	महिला अनारक्षित	6	
	9	पदम गोकूल	378 से 429	लोकेन्द्र नारायण			
	10	सरोपा राजाराम	430 से 457	सपना अरविंद			
	11	गुलाबचंद राजाराम	458 से 487	नर्मदा राधेश्याम			
	12	देवाजी भांगीलाल	488 से 536	पवन आत्माराम			
	13	शोभाराम हिरा	536 से 576	राजेश उंकार			
	14	शोभाराम भोलू	577 से 626	श्रीकृष्ण			
	15	रेवाराम पुनाजी	627 से 679	हेमंत श्रीराम			
	16	रामप्यारी हूकूम	680 से 720	दिलीप एडू			
	17	बसकर चेताराम	721 से 770	बलिराम गोकूल			
	18	नत्थु मोतीराम	771 से 819	ठाकूर तुकाराम			
	19	भागवत कान्हा	819 से 868	लवकुश महावीर			
	रुखडी नलवा	20	तुलसीराम गंगाराम	868 से 904	शिवकरण कडवा		
			विरान				
1		नाना रेवाराम	1 से 18	मंजूला गंदालाल	अजा	4	
2		देवराम चंपालाल	19 से 36	सुरेश आनंदराम	अजजा	4	
3		दगडू रामसिंह	41 से 56	रेखा आत्माराम	अ.पिवर्ग	5	
4		गेंदा दशरथ	57 से 75	रघुवीर सुखदेव	अनारक्षित	7	
5		भांगीलाल चेताराम	76 से 93	जयसिंह दुलेसिंह	महिला अजा	2	
6		प्रहलाद भीकाजी	94 से 114	गोपाल पुरण	महिला अजजा	2	
7		कडवा किशन	115 से 135	विद्या राकेश	महिला अ.पिवर्ग	3	
8		सरस्वती चेताराम	137 से 153	संजू मुकेश	महिला अनारक्षित	3	
9		भाईराम छगन	154 से 177	भारती नरेन्द्र			
10		भागीरथ तुलसीराम	178 से 196	प्रभा बालकराम			
11		राधेश्याम रामलाल	199 से 219	सुनिता नारायण			
12		लक्ष्मीचंद मयाचंद	220 से अंत तक				
बिराली		13	गोतीराम छगन	1 से 21	मुकेश महावीर		
		14	अनोखी कालू	23 से 47	मंजू पुंजन		
		15	राधेश्याम दयाराम	48 से 70	ममता गोकूल		
		16	चंपालाल गजा	71 से 101	शिला गिरधारी		
		17	सुशीला बालकराम	102 से 126	कविता चंपालाल		
		18	अनोखीलाल सुखलाल	129 से 147	दीपक भगवान		
	19	बोंदर नंदराम	148 से 163	देवकन्या सुरेश			
	20	चेताराम ठाकूर	164 से अंत तक				

1	2	3	4	5	6
हीरापुर	1	हुकूमचंद रतनलाल	1 से 25	भारती गिरधारी	अजा 4
	2	मंगत मयाराम	26 से 46	दुर्गा मयाचंद	अजजा 7
	3	ठाकूर रामाजी	47 से 72	सुमन आत्माराम	अ.पिवर्ग 0
	4	ग्यारसीबाई मांगीलाल	73 से 95	बालकृष्ण जगदीश	अनारक्षित 8
	5	सूरज देवराग	96 से 119	मनीषा महेश	महिला अजा 2
	6	गुलाबचंद बाबूलाल	121 से 148	लक्ष्मी दिनेश	महिला अजजा 4
	7	छित्तू सखाराम	149 से 179	देवराम विठठल	महिला अ.पिवर्ग 0
	8	कलाबाई कालू	180 से 213	निशा केलाश	महिला अनारक्षित 4
	9	छितर हिरा	219 से 237	गणेश फत्तू	
	10	लखन तेजा	238 से 260	ललीत भवानीसिंह	
	11	मांगीलाल कडवा	261 से 283	ज्योति महेश	
	12	प्रेमलाल बाबू	284 से 303	सुभाष भोपालसिंह	
	13	ओंकार देवेसिंह	304 से 327	रेखा दिनेश	
	14	लक्ष्मण चैनया	328 से 347	सुरसिंह दामा	
	15	रमकूबाई बादशाह	348 से 356	रजनी गाठिया	
	16	सूरला बांगा	357 से 370	ममता राधेश्याम	
	17	समोति रायसिंह	1 से 104	राकेश सालकराम	
गुमठी	18	कालू गोविंद	1 से 21 ग	सुभद्रा महेश	
	19	सीता जामसिंह	22 से 48 ग	हिना ताराचंद	
अतरसुम्बा	1	दुमसिंग नकला	1 से 18 ख	सुनिता महेन्द्र	अजा 2
	2	रेबान हाबजी	19 से 35	ललीता अखिलेश	अजजा 18
	3	नकला रामा	36 से 52	सोनु गंगाराम	अ.पिवर्ग 0
	4	नराण माधु	53 से 64	हेमलता चैनसिंग	अनारक्षित 0
	5	हजारिया जायु	65 से 80	माधुरी छगन	महिला अजा 1
	6	झिगला नहारसिंग	81 से 94	अनिल	महिला अजजा 9
	7	मधरी	95 से 111 क	बादल	महिला अ.पिवर्ग 0
	8	भाउसिंग नवल क	112 से 127	राधा	महिला अनारक्षित 0
	9	प्रताप	128 से 146/1	लखमाबाई	
	10	बालसिंग	147 से 161	अंजु	
	11	सिताराम	162 से 176	झिना	
	12	नानली	177 से 187	पिंकी	
	13	रेंमसिंग	188 से 202	जमना	
	14	भुरसिंग	203 से 215	निर्मल	
	15	गोमती	216 से 232	राकेश	
	16	गंगाराम	233 से अंत तक	अंततक	
गोराडिया	17	चुन्निबाई	3 से 25	राजेश	
	18	खुश्याल	27 से 51	सचिन	
	19	रूपसिंग	52 से 56	दिनेश	
	20	चिमा	57 से अंत तक	अंततक	

1	2	3	4	5	6	
बागदा बुर्जुग	1	अलताफ गनी खां	1 से 24	दिपीका राजेन्द्र	अजा	2
	2	छितर बी शोभाराम	25 से 47	कृष्णा गुलाबचंद	अजजा	1
	3	जिजा तुकाराम	48 से 65	अन्नपूर्णा भगवान	अ.पिवर्ग	3
	4	केशोर मोतीराम	67 से 85	पंकज नंदराम	अनारक्षित	5
	5	अनोकचंद कन्हैया	86 से 103	भागवत सुखदेव	महिला अजा	1
	6	भलाजी सखाराम	104 से 147	गुलपती गुलाबचंद	महिला अजजा	0
	7	टीकाराम कडवा	148 से 167	कविता धमेन्द्र	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	भुवानीराम लक्ष्मण	168 से 182	सावित्री प्रकाश	महिला अनारक्षित	3
	9	गीता फत्तू	183 से 196	रेखा भगवान		
	10	रुखमा राजाराम	197 से 208	मंजूला देवेन्द्र		
	11	हिरू फत्तू	209 से अंत तक	सुनिता सदीया		
अम्बा	1	सुखलाल नानसिंह	1 से 16	राधेश्याम सोमा	अजा	1
	2	भगना राधू	17 से 34	विमला	अजजा	16
	3	सोहन मुकूंद	35 से 46	मनोज ओमप्रकाश	अ.पिवर्ग	0
	4	गोपाल काशीराम	47 से 63	रानी गोविंद	अनारक्षित	3
	5	नागलबाई रूपा	64 से 71	मिरा शिवराम	महिला अजा	0
	6	लालसिंह कनसिंह	72 से 88	प्याली सुखलाल	महिला अजजा	8
	7	रेमला गमरिया	90 से 106	राधा धनसिंह	महिला अ.पिवर्ग	0
	8	गलाजी नानसिंह	107 से 116	लक्ष्मी नहारसिंह	महिला अनारक्षित	2
	9	प्रेमसिंह भीलू	117 से 128	आरती मोहन		
	10	रघुवीर कनसिंह	129 से 143	अनिता नरेन्द्र		
	11	नाहरसिंह मोतेसिंह	144 से 154	संदीप करण		
	12	नन्नु परसराम	155 से 172	अन्नपूर्णा मुकेश		
	13	हिराबाई मालसिंह	177 से 191	रुखमा बद्दीलाल		
	14	रूमाबाई हटिया	192 से 198 क	झूना दालसिंह		
	15	सूरा आपा	198 से 213 ग	गेंदूबाई खुमसिंह		
	16	बूदा गमा	214 से अंत तक	काली केलाश		
बलखड	17	विक्रम थावलसिंह	1 से 24	सेवंती बलिराम		
	18	पुनीबाई भीमसिंह	25 से 56	संगीता रणसिंह		
	19	सुरभान बेराग	57 से 87	झिना दोगलिया		
	20	भावसिंह सुरला	88 से 556			

1	2	3	4	5	6			
बाल्या	1	अनार परसराम	1 से 21	से	21	ललीता ताराचंद	अजा	1
	2	रेवाराम बालाजी	22 से 36	से	36	सुंदर राकेश	अजजा	15
	3	चेतराम सीताराम	37 से 47	से	47	ममत अशोक	अ.पिवर्ग	0
	4	बसंती बालाजी	48 से 63	से	63	रविना प्रेमलाल	अनारक्षित	4
	5	कडवा गोपाल	64 से 78	से	78	ममता संतोष	महिला अजा	0
	6	रामलाल चंपालाल	79 से 90	से	90	भारती पूनमचंद	महिला अजजा	8
	7	सिद्धांत	91 से 109	से	109	रमेश	महिला अ.पिवर्ग	0
	8	गलसिंह नरसिंह	110 से 124	से	124	लक्ष्मण रमेश	महिला अनारक्षित	2
	9	गुरुलाल छितर	125 से 136	से	136	क बसंती कमलसिंह		
	10	एडू नरसिंह	137 से	से	अंत तक			
पिपरीखेडा	11	शांताबाई किशन	1 से 16	से	16/1	शर्मिला		
	12	रुमसिंह किशन	16/2 से 24	से	24	झूनाबाई अमरसिंह		
	13	सनी सेमला	25/1 से 40	से	40	प्यारी दिनेश		
	14	कुवरसिंह फूलसिंह	41 से 54	से	54	सीमा दिनेश		
	15	रामा अलसिंह	55 से 69	से	69	संतू नराण		
	16	भसरी रूपसिंह	70 से 91	से	91/1	मालू छतरसिंह		
	17	कुमार परसिया	92 से 109	से	109	ग्यारसी रामसिंह		
	18	रूपसिंह धुरकिया	110 से 128	से	128	ख सीमा खुश्याल		
	19	रामसिंह भुवान	128 से 148	से	148	रमतीबाई ध्यानसिंह		
			ग					
	20	गानसिंह बडा	149 से	से	अंत तक			
	1	अनारासह वजय	1 से 18	से	18	गोलू देवचंद	अजा	2
	2	नाना कन्हेया	19 से 40	से	40	कविता सदाशिव	अजजा	7
	3	कडवा तेजा	41 से 60	से	60	रिना रवि	अ.पिवर्ग	3
	4	महावीर धनाजी	62 से 80	से	80	क सारिका नारायण	अनारक्षित	1
	5	नथी शोभाराम	81 से 92	से	92	सविता जगदीश	महिला अजा	1
	6	मंगती हुकूमचंद	93 से 109	से	109	वंदना जगदीश	महिला अजजा	4
	7	मोतीराम दयाराम	110 से 131	से	131	मयाराम बोखार	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	चिडई शोभाराम	132 से 155	से	155	ममता पंडित	महिला अनारक्षित	0
	9	देवराम चंपालाल	157 से 173	से	173	मधू बनवारी		
	10	धापली बालू	179 से 193	से	193	गोहबाई मांगीलाल		
	11	नूरी धनसिंह	194 से 207	से	207	गवरी भूरेसिंह		
	12	चंपा खुमसिंह	208 से 223	से	223	सुनिता सुरेश		
	13	झूमा हरसिंह	224 से	से	अंत तक	अखिलेश चेताराम		

1	2	3	4	5	6	
दसोडा	1	नादान काशीराम	1 से 12	पिंकी अनोकचंद	अजा	3
	2	श्यामलाल तुलाराम	13 से 29	जितेन्द्र खुश्याल	अजजा	2
	3	भुवानीराम सखाराम	30 से 39	गजानंद देवराम	अ.पिवर्ग	4
	4	गजानंद गेंदालाल	40 से 50 ख	सुनिता दिनेश	अनारक्षित	8
	5	आनंदराम कुवरजी	51 से 65	प्रमिला महेश	महिला अजा	2
	6	बसू राजाराम	66 से 91	रामकृष्ण लेखराम	महिला अजजा	1
	7	नारायण भोलू	92 से 109	सोना पुनिया	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	गंशाराम गोपाल	110 से 128 ग	हरिकरण दगडू	महिला अनारक्षित	4
	9	श्यामा लालचंद	129 से 142	फत्तू बाबू		
	10	किशोर रामसिंह	143 से 160 ग	सुभाद्रा शरदा		
	11	देवराम टिकाराम	161 से 180 घ	जयश्री भेरूलाल		
	12	बलिराम धनाजी	181 से 191 क	रामकृष्ण नत्थु		
	13	आत्माराम छगन	192 से 202	दयाबाई तुलाराम		
	14	चेतराम श्रीकिशन	204 से 209	बसू श्रीराम		
	15	रेवाराम तोताराम	210 से 226	गुलाबबाई रामसिंह		
	16	मटूबाई तुकाराम	227 से 242 क	पार्वती रामरतन		
	17	समोती मंगत्या	243 से अंत तक	प्रभावती अखिलेश		
छापरा	1	सजनबाई गोपाल	1 से 27	गायत्री रितेश	अजा	4
	2	रामेश्वर चेताराम	28 से 50 क	अकलेश परसराम	अजजा	7
	3	बाबूलाल ठाकूरलाल	54 से 67	इंदर नानकराम	अ.पिवर्ग	0
	4	लक्ष्मण बाबूलाल	68 से 89	रेखाबाई जगदीश	अनारक्षित	9
	5	मरूबाई रामकिशन	90 से 112 ख	भागवत बुदिया	महिला अजा	2
	6	सेवंती पुंजन	113 से 141 क	गिरजा सीताराम	महिला अजजा	4
	7	काशीराम डोंगर	142 से 162 क	नर्मदा गणपत	महिला अ.पिवर्ग	0
	8	मांगीलाल बाबू	165 से अंत तक		महिला अनारक्षित	4
जिरावट	9	नत्थु बाबू	1 से 14	अनिल राधेश्याम		
	10	अनारसिंह अभय	15 से 31	पिंकी सुंदरलाल		
	11	मोजीलाल किशन	33 से 47	सीमा भैयालाल		
	12	शोभाराम बाबू	48 से 62	अरविंद दुर्गाराम		
	13	शिवराम किशन	63 से 82	अनिता धमेन्द्र		
	14	बलीराम रामलाल	83 से अंत तक			
सगडियाव	15	मीनाबाई मनोहर	1 से 22 क	कुसूम केलाश		
	16	केलाश	23 से 43	संदीप सरदार		
	17	राजूबाई जसवंत	44 से 58 ख	अनिल सुरेश		
	18	कमलाबाई चेताराम	59 से 74	नासीम गफीया		
	19	छोटे खां नत्थु	75 से 90	फरजाना इरशाद		
	20	मेहबूब अजीत खा	91 से अंत तक			

1	2	3	4	5	6	
मुख्त्यारा	1	श्रीहरि ध्यानरि.े	1 से 10	आशा पवन	अजा	4
	2	लखनलाल बाबूलाल	11 से 26	उर्मिला इंडल	अजजा	0
	3	इंदर मंशाराम	26 क से 36	अशोक सोहनलाल	अ.पिवर्ग	4
	4	गेंदा मांगीलाल	37 से 56	दिनेश राधेश्याम	अनारक्षित	6
	5	रामेश्वर करण	57 से 74	कपिल लक्ष्मी	महिला अजा	2
	6	मनोरमाबाई	75 से 90	भूरी दिनेश	महिला अजजा	0
	7	शारदा ग्यारसीलाल	91 से 110	गोपाल हरिराम	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	छोटेलाल	111 से 127	बलराम हुकूमचंद	महिला अनारक्षित	3
	9	रामकली	128 से 148	रेखा मुकेश		
	10	सखाराम	148 से 165	परवीन ग्यारसिंह		
	11	भूरीबाई	166 से 176	बिरजू नरसिंह		
	12	घीसालाल	177 से 196	सेवंती राकेश		
	13	नंदलाल	197 से 333	संजय		
	14	ओमप्रकाश	1 से 134	रवि संतोष		
दानकुआ		विरान				
झारकुआ		विरान				
भौमवाडा	1	रविन्द्र दिनेश	3 से 19	माया विरेन्द्र	अजा	2
	2	पारूबाई रामलाल	20 से 40	कमलेश निर्भय	अजजा	7
	3	भरत मांगीलाल	41 से 56	धमेन्द्र नत्थुलाल	अ.पिवर्ग	5
	4	रमेश गणपत	57 से 72	रुखमणी कमलेश	अनारक्षित	6
	5	अंबर राजाराम	73 से 89	रंजना सोहन	महिला अजा	1
	6	गजानंद भोलू	90 से 120	प्रमिला शंकर	महिला अजजा	4
	7	रामलाल फत्तू	122 से 135	सुमित्रा पवन	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	जीवन भैयालाल	136 से 166	रूपेश राधेश्याम	महिला अनारक्षित	3
	9	चंदन विश्राम	168 से 180	रविन्द्र भगवान		
	10	जगदीश माधव	181 से 211	चंपाबाई विक्रम		
	11	सीताराम गंगाराम	212/ से 241/2	दिपक बाबूलाल		
			1			
	12	सरीफ इब्राहीम	247 से 282 क	भीमा राधेश्याम		
	13	मंगत उमराव	282 से 305	काबूल हरि		
			ख			
	14	शिवराम प्यारा	306 से 337	सतीश रामदुलारे		
	15	छोटेलाल	338 से 362	सविता प्रदीप		
	16	रमेशचंद्र छोगालाल	363 से 384	अंतिम नरेन्द्र		
	17	बाबूलाल जगन्नाथ	386 से 309	विजय भागीरथ		
	लोहारी	18	सुरेश रमेश	1 से 45	प्रवीण सुमेर	
19		कोमल देलत	47 से 95	हरशि प्रभुलाल		
20		केशरी गणपत	96 से 105 क	बलवीर नखरिया		

1	2	3	4	5	6		
कोटल्याखेडी	1	कालू फत्तू	6 स	30/1	सलू जगदीश	अजा	3
	2	दुर्गाबाई बंशीलाल	31 से	53 क	अशोक भैयालाल	अजजा	5
	3	जीवंती सीगदार	55 से	78	सुरेश विजय	अ.पिवर्ग	4
	4	मांगीलाल श्यामा	79 से	102/1	सुमित राजेन्द्र	अनारक्षित	5
	5	खुमानसिंह भारतसिंह	103 से	130	चेतना विक्रमसिंह	महिला अजा	2
	6	संतराबाई उंकार	131/1 से	150/1	आशाबाई नहारसिंह	महिला अजजा	2
	7	शांताबाई शोभगसिंह	152 से	168	दिपिका सत्येन्द्र	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	देवेन्द्रसिंह भवरलाल	169 से	189	संगीता दिनेश	महिला अनारक्षित	3
धुलवाडा	9	सुरेश बापूसिंह	191 से	202	भग्गू जोगीलाल		
	10	अनोखीराम देवराम	1 से	18	जयराम गंगाराम		
	11	गजराज मांगीलाल	19 से	41	बुली सुकराम		
	12	हजारी जीता	42 से	53	पवन जसवंत		
	13	कल्लीबाई कल्लू	54 से	57	ज्योति लक्ष्मण		
	14	प्रेमसिंह उमेरसिंह	57/1 से	69	प्रदीप पुनाजी		
	15	अनोखी मयाराम	70 से	88	रविन्द्र जगदीश		
	16	नरतम इठल	89 से	108	राधिका मनोज		
	17	मथुरा चंपालाल	110 से	513	राधाबाई		
	1	मांतोराम नत्थु	1 स	26	ममता शांतीलाल	अजा	3
	2	शांताबाई आनंदराम	27 से	40	कुसूम जगन्नाथ	अजजा	0
	3	तुलसीराम धीराजी	41 से	52 क	ललीत हरिकरण	अ.पिवर्ग	5
	4	पार्वती ठाकूर	53 से	65	परितोष संतोष	अनारक्षित	11
	5	पुनाजी नत्थु	66 से	78	इंद्राबाई कमलेश	महिला अजा	1
	6	हिरालाल केशव	79 से	98	अम्रवती शांतीलाल	महिला अजजा	0
	7	हरिकरण बाबूलाल	102 से	115	सुलोचना रामकरण	महिला अ.पिवर्ग	3
	8	नानकराम बालाराम	116 से	131	सुनिल मिश्रीलाल	महिला अनारक्षित	6
9	महावीर सीताराम	132 से	146	जयश्री रामकृष्ण			
10	बालकराम सीताराम	147 से	165 ख	नत्थु हुकूम			
11	बसंती टीकाराम	172 से	191	रेशमबाई बालकराम			
12	देवराम चंपालाल	193 से	213	शंकर कडवाजी			
13	राजाराम गोपाल	214 से	235	रविन्द्र कोमल			
14	लखनलाल गेंदालाल	236 से	249	दिलीप आनंदराम			
15	लक्ष्मण तुकाराम	250 से	274	अनिल धन्नालाल			
16	प्रेमलाल नंदराम	275 से	303 ख	अमोलबाई शेरा			
17	हिरा शोभाराम	304 से	328 ख	सीताबाई भुवानीराम			
18	हिरालाल गंगाराम	329 से	370	गणेश कडवाजी			
19	पुनाजी गोपाल	373 से	391	पार्वती सखाराम			

1	2	3	4	5	6	
बांगरदा	1	1	1	संगीता पुजन	जजा	2
	2	छगनलाल	46 से 83	विनोद सुरेश	अजजा	6
	3	मांगीलाल लक्ष्मीनारायण शंकर	85 से 128	क अनिताबाई सियाराम	अ.पिवर्ग	5
	4	कुसुमबाई राधेश्याम	130 से 163	हेमलता लखन	अनारक्षित	7
	5	अनोखीलाल नथु	165 से 198/2	अनिता अशोक	महिला अजा	1
	6	ईशराक टुटल	199 से 229	क कचनबाई रामचन्द्र	महिला अजजा	3
	7	शंकर भैयालाल	231 से 265/2	महेश कैलाश	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	औंकार बाबुलाल	268/1 से 300	सिमाबाई सुधिर	महिला अनारक्षित	4
	9	मांगीलाल जयराम	301 से 337	निर्मल दयाराम		
	10	गैदालाल नथु	339 से 381	महेन्द्र सागरसिंह		
	11	कान्ताबाई धुरन्धरकुमार	380 से 419/2	पिंकी हरेसिंह		
	12	बसुबाई अमानसिंग	421 से 455	मधुबाई मनोज		
	13	सुन्दरबाई बाबुलाल	456 से 484	राधेश्याम हंसराज		
	14	पन्नालाल फत्तु	486 से 537	धर्मेन्द्र मोतेसिंह		
	15	रेहमतबाई रहीम	540 से 587	ज्वालालसिंह कडवा		
	16	निर्भयसिंह कालु	588 से 643	वंदनाबाई नितिन		
	17	भौपासिंह गिरधर	644 से अंत तक	सिमा राकेश		
लाल्याखेडी	18	तुकाराम गणपत	1 से 34	कमलाबाई लक्ष्मीनारायण		
	19	साहुबाई आनंदराम	35 से 68	कोमलबाई भैयालाल		
	20	भाईराम मोजीलाल	70 से अंत तक	भारतीबाई राधाकिशन		
मानबरड	1	सगाता रामकृष्ण	1 स. 18	रावन्द्र दुगाराम	अजा	3
	2	काशिराम शोभाराम	19 से 36	कुन्दन कमलचंद	अजजा	4
	3	कडवाजी तुलसीराम	37 से 54	ज्योति मुकेश	अ.पिवर्ग	4
	4	हरेसिंग हुकुम	55 से 72	भोलेनाथ मेहकाल	अनारक्षित	7
	5	औंकार मुरार	73 से 90	रक्षा तिलोकचंद	महिला अजा	1
	6	दुर्गाराम बाबुलाल	91 से 108	मोसम यशवंत	महिला अजजा	2
	7	पुनाजी नथु	109 से 126	मालती मुकेश	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	चम्पाबाई सखाराम	127 से 144	भाग्यश्री किरण कुमार	महिला अनारक्षित	4
	9	बाबुलाल मंशराम	145 से 162	मंजुबाई महेश		
	10	गंगाबाई हल्कु	163 से 180	अजय महेश		
	11	सुखलाल माधव	181 से 198	गीताबाई पुनाजी		
	12	रेवाराम फत्तु	199 से 216	मायाबाई राघोराम		
	13	बलीराम लच्छीराम	217 से 234	समोती शंकर		
	14	फुन्दाबाइ नारायण	235 से 252	मोतीराम सखाराम		
	15	शांताबाई माखन	253 से 270	रक्षा भैयालाल		
	16	फुन्दाबाई बाबुलाल	271 से 288	किरण जितेन्द्र		
	17	शोभाराम सुखलाल	289 से 306	रुखमणी ताराचंद		
	18	झलईबाई गोविन्द	307 से अंत तक	रुखमणी गणपत		

1	2	3	4	5	6	
बोदगांव	1	राहुल दिनेश	1 से 9	कोमलासिंह लखम	अजा	2
	2	मानसिंह भगवान	10 से 18	शिवपाल संतोष	अजजा	1
	3	मानसिंह सोभाग	19 से 35	ज्योति जयपालसिंह	अ.पिवर्ग	4
	4	प्रहलाद हरेसिंह	36 से 48	संतोषबाई बलदेव	अनारक्षित	9
	5	अर्जुन गणपत	49 से 57	आरती प्रहलाद	महिला अजा	1
	6	अंतर गंगाराम	59 से 71/1	रमा घनश्याम	महिला अजजा	1
	7	विक्रम नाना	72 से 92	मधू रविन्द्र	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	शिवराम नत्थु	93 से 118	मुकेश दुर्गाप्रसाद	महिला अनारक्षित	4
	9	रणजीत अनारक	119 से 136	पिटू आसाराम		
	10	अंतर नहारसिंह	137/ से 151	कालीबाई राजाराम		
	11	निला चंदर	152 से 165	प्रमिला महेश		
	12	भाईराम रतन	166 से 181 क	मायाबाई मांगीलाल		
	13	सुकलाल कन्हेयालाल	182 से अंत तक	कडवी भैयालाल		
घोसला	14	राधेश्याम बोखार	1 से 27	नसरी सीताराम		
	15	नत्थु रेवाराम	28 से 44	उषा कुंदन		
	16	गजानंद जोगीलाल	45 से अंत तक	मंगल्या बोंदर		
बमनगाँव	1	नीला मिश्रीलाल	1 से 20	ारका अशाक	अजा	2
	2	देवका गंगाराम	22 ख से 45	ज्योति संजय	अजजा	1
	3	रागरतन मयाराम	46 से 58	रिना गोपाल	अ.पिवर्ग	3
	4	रामकिशन राजाराम	59 से 89	रानू मुकेश	अनारक्षित	7
	5	धनईबाई भलाजी	91 से 117	लोकेन्द्र लालसिंह	महिला अजा	1
	6	लखमे नहारसिंह	118 से 135	सुरक्षा गजानंद	महिला अजजा	0
	7	श्रीराम आपाजी	136 से 152	रानू मुकेश	महिला अ.पिवर्ग	2
	8	भगवानसिंह गंगाराम	154 से 172	नदान भगन	महिला अनारक्षित	4
	9	फूलचंद जयराम	174 से 198	जाकिर यासिन		
	10	अनवर दिलावार	199 से 211 क	सुनिता भगवान		
	11	चांद खां बाबू	212 से 234	माया सचिन		
	12	अनोखीलाल सीताराम	235 से 250 क	रिना विक्रम		
	13	तारा देवा	253 से अंत तक			

1	2	3	4	5	6
बासवा	1	उषा रामचंद	1 से 36	शिवकन्या विक्रम	अजा 3
	2	रमेश देवराम	37 से 75/1	दोलतसिंह	अजजा 4
	3	दशरथ बापू	76 से 126	टिना दोलतसिंह	अ.पिवर्ग 5
	4	मानसिंह हमेरसिंह	127 से 164	पूजा श्यामलाल	अनारक्षित 8
	5	श्रीराम इकाजी	167 से 190	छाया सुरजसिंह	महिला अजा 1
	6	बाकसिंह नत्थु	192 से 235	शिवकला प्रभुजी	महिला अजजा 2
	7	मंजू कालू	236 से 283	जयंती सियाराम	महिला अ.पिवर्ग 3
	8	आनंदराम दूटाजी	284 से 329	शेलेन्द्र खडकसिंह	महिला अनारक्षित 4
	9	मरू भगवान	329/1 से 370	पवन बलराम	
	10	दातारसिंह	371 से 386	उमेश एडूजी	
	11	कस्तूरीबाई	387 से 436	नितेश शिवाजी	
	12	भीकईबाई	438 से 484	गुलाबचंद	
	13	सोमारिया	485 से 537	बसंत रघुनाथ	
	14	तेजा बाबू	539 से 573	ज्योति अनिल	
	15	छितर हिरालाल	574 से 617/2	भूपेन्द्रसिंह	
	16	खुमानसिंह	618 से 677	राधाबाई	
	17	रूखडू तुलसीराम	678 से 722/3	सीताबाई	
खनगांव	18	मांगीलाल शंभू	1 से 35	सुगनबाई	
	19	गोदावरीबाई	36 से 134	धनूबाई	
खेडी	20	तुलसीबाई	1 से 135	बारकीबाई	
रूपखेडा	1	शांता नत्थु	1 से 26/1	सोमा थावरांसह	अजा 1
	2	रमेश रूपसिंह	26/2 से 41	पंकज केलाश	अजजा 4
	3	गजराज घीसाजी	41 ग से 65	रितेश राजकुमार	अ.पिवर्ग 5
	4	रमूबाई नेकराम	66 से 89	तारा चंपालाल	अनारक्षित 10
	5	शारदा महेश	89/1 से 104/2	हेमलता रंजीत	महिला अजा 0
	6	देवीसिंह गुमान	104/3 से 122/4	रानू अकाश	महिला अजजा 2
	7	राजलबाई	123 से 146	पूजा अनारसिंह	महिला अ.पिवर्ग 3
	8	कालू केलाश	147 से 168	मीनायोगी नानू	महिला अनारक्षित 5
	9	राधा नानूराम	169 से 197/2	सायना मेहबूब	
	10	सुंदरबाई रामनाथ	197/3 से 14/1	उषा खाण्डेराव	
	11	गजानंद अमरसिंह	160 से 214	शुभम परसराम	
	12	उमा गंगाराम	216 से 241	विकास हरि	
	13	भैयालाल शोभाराम	241/2 से 267	सीमा मुकेश	
	14	कंचन शिवराम	267/2 से 282	जसवंत जगदीश	
	15	बलिराम जीवराम	284 से 303	अनिता राजेन्द्र	
	16	विष्णु गुलाबचंद	305 से 325	प्रेमलाल अंतरसिंह	
	17	केलाश बाबूलाल	325 से 339	भगवती लक्ष्मण	
	18	नारायण मूलचंद	340 से 358	गिरजा सुरेश	
	19	यशवंत गणपत	359 से 379	दीपक नत्थु	
	20	सुरेश आनंदराम	380 से 409		

1	2	3	4	5	6	
खुडगांव	1	चिंताराम मंगल्या	1 से 23	गुलबसा कलाम	अजा	3
	2	गुलाम लालू	24 से 35	लखन खुबचंद	अजजा	13
	3	कमलाबाई	36 से 48	रविन्द्र राजेन्द्र	अ.पि.वर्ग	0
	4	प्रेमलाल गुलिया	49 से 60	राजेश ब्रजेश	अनारक्षित	4
	5	फूलचंद शंकर	60/1 से 72	रिहाना सदीफ	महिला अजा	2
	6	नबी अब्दूल	72 अ से 91	रुखसाना	महिला अजजा	6
	7	बाथला नरसिंह	93 से 102	मीना	महिला अ.पि.वर्ग	0
	8	तनेसिंह	103 से 108	जितेन्द्र	महिला अनारक्षित	2
	9	खुमसिंह	109 से 115/1	संजू		
	10	रालईबाई	117 से 126	जितेन्द्र		
	11	सोमला	127 से अंत तक	रूपसिंह		
जुनापानी	12	अमृतसिंह	1 से 6	भीमेश पाटक		
	13	लोकेन्द्र लखन	5 से 20	जितेन्द्र		
	14	इंगली भीमसिंह	21 से 30	गदरी खजान		
	15	अमरसिंह	31 से 40 ग	गुंदा रायमल		
	16	नकल गणपत	41 से 50/1	रवि जयराम		
	17	दयाराम रंगल्या	51 से 63/3	महेन्द्र केलाश		
	18	बिहारी	62 से 73	रोशनी रमेश		
	19	पुना	73/1 से 81	केरमा		
	20	रंगली	82 से अंत तक	हेमंत		
चित्रमोड	1	दुरपता पुंजन	1 से 20 घ	दयाबाई राधेश्याम	अजा	2
	2	बगवारी अनोकचंद	20 से 32	संगीता राधेश्याम	अजजा	4
	3	जगन दशरथ	33 से 52	सुमन गजानंद	अ.पि.वर्ग	4
	4	दिनेश रेवाराम	53 से 70	शांता लक्ष्मण	अनारक्षित	8
	5	देवराम राजाराम	71 से 97	योगेश सुकलाल	महिला अजा	1
	6	बलिराम कुवरजी	101 से 119	मीरा देवेन्द्र	महिला अजजा	2
	7	नानी बाबू	120 से 134	अजय रेवाराम	महिला अ.पि.वर्ग	2
	8	दुरपता दशरथ	135 से 153	अजय गजानंद	महिला अनारक्षित	4
	9	मायाबाई पुनाजी	154 से 170	रामप्यारी राजाराम		
	10	अनोकचंद राजाराम	171 से 188	शीला सुनिल		
राजपुरा	11	आनंदी तोताराम	189 से 211	रजाक फरियाद		
	12	सईदा बी मजीद	212 से 225	रीना अनोकचंद		
	13	देवराम भुक्कण	226 से 247	सुनिल गुलाबचंद		
	14	लक्ष्मी हरिकरण	248 से 269	माधुरी नरेन्द्र		
	15	देवराम रामचंद्र	270 से 291	रविन्द्र आशाराम		
	16	बुलुरबाई ओंकार	292 से अंत तक	राजेन्द्र कृष्णू		
	17	लाडकी धमेन्द्र	1 से 20	जयश्री अकलेश		
	18	तुसलीराम भवानीराम	21 से 32	दुर्गा लखन		

1	2	3	4	5	6	
खंगवाडा	1	अजुदयाबाई सिकदार	1 से	22	मिनाबाई नहारसिंग	अजा 4
	2	कुसुमबाई गोकुल	23 से	36	कोबरा मोहन	अजजा 3
	3	तोताराम मांगीलाल	39 से	55	मुन्ना जगदीश	अ.पिवर्ग 5
	4	रामु झुरईया	56 से	66 ख	दिपक रेवसिंग	अनारक्षित 8
	5	प्यारु धन्नालाल	67 से	74 घ	सुनिल सुन्दर	महिला अजा 2
	6	धन्नु कन्नु	75 क से	89	राहुल जगन्नाथ	महिला अजजा 1
	7	शोभराम भुवानीराम	90 से	119	वन्दना रामकरण	महिला अ.पिवर्ग 3
	8	गिसरबाई घिसाजी	121 से	138	राकेश बलीराम	महिला अनारक्षित 4
	9	कडवाजी मकुन्दर	139 से	156	जयश्री रामकरण	
	10	हुकुमचंद हिरालाल	158 से	168	आशिष नानकराम	
	11	दगडीबाई भगन	169 से	185	अखिलेश पन्नालाल	
	12	बाबु बोन्दर	186 से	201	सुरेशबाई चेताराम	
	13	आँकार काशीराम	202 से	221	ज्योति श्रीराम	
	14	मंगतीबाई हरीकरण	222 से	232	मुकेश बोन्दर	
	15	नानकराम मांगु	224 से	258	भुपेन्द्र रामखिलावन	
	16	मेहराजबी मोहब्बत सबिर	234 से	278	दशरथ जगदीश	
	17	मंगतिया कन्हैया	279 से	295	वैणीराम आनंदराम	
	18	सोर्माया रूपा	296 से	308	मंजु धर्मन्द्र	
	19	मंगत्या सिताराम	309 से	329	कविता मुकेश	
	20		330 से	340	रेखा भुराजी	
अजरुद	1	बनारस राजाराम	7 से	20	जारा पूरण	अजा 2
	2	पोमडिया गोकूल	28 से	49	रामदेव	अजजा 5
	3	मंगत्या	50 से	68	अंजू शांतिलाल	अ.पिवर्ग 4
	4	राजाराम छज्जू	69 से	82	जयश्री सुरज	अनारक्षित 5
	5	भुवानीबाई	83 से	107	ग्यारस रामकरण	महिला अजा 1
	6	हरिकरण चुन्नीलाल	108 से	123	मंगलेश दयाराम	महिला अजजा 3*
	7	जितेन्द्र बाबूलाल	124 से	136	विजय सेवकराम	महिला अ.पिवर्ग 2
	8	अनोखीलाल	137 से	164	कविता राधेश्याम	महिला अनारक्षित 2
	9	नंदराम	165 से	192/2	संतोष अंतिम	
	10	नानकराम	193 से	214/1	विनोद नंदलाल	
	11	आनंदराम मदन	215 से	241	माया दिपक	
	12	बालकराम नत्थु	242 से	255	धरम तोताराम	
	13	रेवाराम गणपत	256 से	269	लाडकी अनारसिंह	
कपासी	14	रायमल लालजी	1 से	18	रेवा कालू	
भोकरिया	15	छगन लालसिंह	1 से	18 घ	हरेसिंह सीताराम	
	16	मिटीया दर्जी	19 से	अंत तक		

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट-5 अ

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	रतनपुर	1	क्रमांक 1 वंदना के घर से 15 सुपड़िया के घर तक	अ.जा.	3
2	रतनपुर	2	क्रमांक 16 गोकूल के घर से 35 डोडिया के घर तक	अ.ज.जा.	6
3	रतनपुर	3	क्रमांक 36 जहरिला के घर से 57 लखन के घर तक	पि. वर्ग	1
4	रतनपुर	4	क्रमांक 58 बिन्दाबाई के घर से 81 कालुसिंह के घर तक	अनारक्षित	3
5	रतनपुर	5	क्रमांक 82 नरेन्द्रसिंह के घर से 97 प्रहलाद के घर तक	महिला अ.जा.	2
6	रतनपुर	6	क्रमांक 98 अर्जुन के घर से 116 बेबीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	3
7	रतनपुर	7	क्रमांक 117 मंगतीबाई के घर से 137 देवी के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	रतनपुर	8	क्रमांक 138 शांताबाई के घर से 153 गोरशिया के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	रतनपुर	9	क्रमांक 154 बास्या के घर से 167 जुवानसिंह के घर तक		
10	रतनपुर	10	क्रमांक 168 रामसिंह के घर से 187 अन्या के घर तक		
11	रतनपुर	11	क्रमांक 188 मालुबाई के घर से 203 रिछाबाई के घर तक		
12	रतनपुर	12	क्रमांक 204 मांगीलाल के घर से 217 रिछा के घर तक		
13	रतनपुर	13	क्रमांक 218 शोभाराम के घर से 278 सुखलाल के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	अम्बाडोचर	1	क्रमांक 1 अमीर खां के घर से 14 साजदा फरीद के घर तक	अ.जा.	1
2	अम्बाडोचर	2	क्रमांक 17 गफुर के घर से 32 कालु के घर तक	अ.ज.जा.	12
3	अम्बाडोचर	3	क्रमांक 33 नानकी के घर से 53 सीताबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	अम्बाडोचर	4	क्रमांक 54 जग्गु के घर से 73 अनिता के घर तक	अनारक्षित	4
5	अम्बाडोचर	5	क्रमांक 74 कैलाश बाई के घर से 86 संतोषबाई के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	अम्बाडोचर	6	क्रमांक 87 शेख ईलाही के घर से 100 सोनाली के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	अम्बाडोचर	7	क्रमांक 101 सजनलाल के घर से 110 शाहरुख के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	अम्बाडोचर	8	क्रमांक 111 शब्बीर के घर से 119 जाहीदा बी के घर तक	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	अम्बाडोचर	9	क्रमांक 120 रेशमीबाई के घर से 127 निर्मला के घर तक	
10	अम्बाडोचर	10	क्रमांक 128 अल्फा के घर से 136 चंपाबाई के घर तक	
11	अम्बाडोचर	11	क्रमांक 137 केरलीबाई के घर से 144 नानसिंह के घर तक	
12	अम्बाडोचर	12	क्रमांक 145 सोमवारिया के घर से 157 प्यारीबाई के घर तक	
13	अम्बाडोचर	13	क्रमांक 158 रूमसिंह के घर से 163 इकला के घर तक	
14	अम्बाडोचर	14	क्रमांक 164 टेमसिंह के घर से 172 मालबाई के घर तक	
15	अम्बाडोचर	15	क्रमांक 173 केनसिंह के घर से 181 नरलीबाई के घर तक	
16	अम्बाडोचर	16	क्रमांक 182 तुमसिंह के घर से 193 अशीष के घर तक	
17	गाता	17	क्रमांक 1 भागीरथ के घर से 18क हुलसिंह के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	नरवट	1	क्रमांक 1 रजु से 16 मंजुबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	नरवट	2	क्रमांक 17 नासला से 31 हरसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	नरवट	3	क्रमांक 32 बोंदरबाई से 46 रेखाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	नरवट	4	क्रमांक 47 बसंत से 63 मसरी के घर तक	अनारक्षित	1
5	नरवट	5	क्रमांक 64 सुपडिया से 81 सुनिल के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	नरवट	6	क्रमांक 82 मालसिंह से 95 राधिका के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	नरवट	7	क्रमांक 96 सजन से 109 प्रतिभा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	नरवट	8	क्रमांक 110 नारायण से 117 रेखा के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	नरवट	9	क्रमांक 118 भुरीबाई से 122 रंजना के घर तक		
10	नरवट	10	क्रमांक 123 कालु से 124 गोतमी के घर तक		
11	नरवट	11	क्रमांक 125 गुलाबसिंह से 131 बसंतीबाई के घर तक		
12	नरवर	12	क्रमांक 132 आपसिंह से 141 अम्बा के घर तक		
13	नरवट	13	क्रमांक 142 भंगडा से 166 गीताबाई के घर तक		
14	नरवट	14	क्रमांक 1 अनुबाई से 16 गीताबाई के घर तक		
	(काठियाबंधान)				
15	— " —	15	क्रमांक 17 गोविंदा से 32 शेरू के घर तक		
16	— " —	16	क्रमांक 33 बिसन से 52 मालतीबाई के घर तक		
17	— " —	17	क्रमांक 53 सावित्रीबाई से 66 रेवलसिंह के घर तक		
18	— " —	18	क्रमांक 67 देवसिंह से 78 मांगलीबाई के घर तक		
19	— " —	19	क्रमांक 79 हुलकारीबाई से 97 अनिताबाई के घर तक		
20	— " —	20	क्रमांक 98 नत्थु से 209 कृष्णाबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	भडलेन	1	क्रमांक 1 कालीबाई के घर से 20 अनिल के घर तक	अ.जा.	1
2	भडलेन	2	क्रमांक 21 नानसिंह के घर से 32 अर्चना के घर तक	अ.ज.जा.	6
3	भडलेन	3	क्रमांक 33 शिवचरण के घर से 47 रोहित के घर तक	पि. वर्ग	0
4	भडलेन	4	क्रमांक 48 ईश्वरलाल के घर से 71 ज्योती के घर तक	अनारक्षित	3
5	भडलेन	5	क्रमांक 72 हरचन्द के घर से 84 राकेश के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	भडलेन	6	क्रमांक 85 शांतिलाल के घर से 101 भारती के घर तक	महिला अ.ज.जा.	3
7	भडलेन	7	क्रमांक 102 जगन के घर से 114 दिपिका के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	भडलेन	8	क्रमांक 115 नत्थु के घर से 131 लक्ष्मी के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	भडलेन	9	क्रमांक 132 शोभाराम के घर से 151 रूखमणी के घर तक		
10	भडलेन	10	क्रमांक 152 जामसिंह के घर से 169 सहारिया के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पिपरी	1	क्रमांक 1 रानु के घर से 12 ममता के घर तक	अ.जा.	0
2	पिपरी	2	क्रमांक 13 दरियाव के घर से 24 अरविन्द के घर तक	अ.ज.जा.	13
3	पिपरी	3	क्रमांक 25 रिकु के घर से 34 कविता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पिपरी	4	क्रमांक 35 लक्ष्मण के घर से 46 शारदाबाई के घर तक	अनारक्षित	5
5	पिपरी	5	क्रमांक 47 नरसिंह लजालु के घर से 58 संगिता के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	पिपरी	6	क्रमांक 59 ओमप्रकाश के घर से 75 मनिषा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	7
7	पिपरी	7	क्रमांक 76 झबीबाई के घर से 88 धर्मेन्द्र के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पिपरी	8	क्रमांक 89 अनोखी के घर से 103 रिकु के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	पिपरी	9	क्रमांक 104 आयवन के घर से 129 सुभद्रा के घर तक		
10	बोरखेड़ा	10	क्रमांक 1 रूलजी के घर से 10 मिलाबाई के घर तक		
11	बोरखेड़ा	11	क्रमांक 11 नंदराम के घर से 19 ममता के घर तक		
12	बोरखेड़ा	12	क्रमांक 20 भावसिंह के घर से 31 संजय के घर तक		
13	बोरखेड़ा	13	क्रमांक 32 इनाज्या के घर से 39 रमेश के घर तक		
14	बोरखेड़ा	14	क्रमांक 40 मांगा के घर से 48 हिन्दु के घर तक		
15	बोरखेड़ा	15	क्रमांक 49 हुसन के घर से 55 नानीबाई के घर तक		
16	बोरखेड़ा	16	क्रमांक 56 गंगाराम के घर से 69 रितु के घर तक		
17	बोरखेड़ा	17	क्रमांक 70 रतन के घर से 81 रितेश के घर तक		
18	बोरखेड़ा	18	क्रमांक 82 अनार के घर से 118 राजलबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	खोई	1	क्रमांक 1 गंगाबाई के घर से 18 सुरेश के घर तक	अ.जा.	0
2	खोई	2	क्रमांक 19 तेजु के घर से 34 रीना के घर तक	अ.ज.जा.	7
3	खोई	3	क्रमांक 35 निजुलाल 48 नर्मदाबाई के घर तक	पि. वर्ग	3
4	खोई	4	क्रमांक 49 बल्ला के घर से 60 लाबबई के घर तक	अनारक्षित	4
5	खोई	5	क्रमांक 61 गजानंद के घर से 78 राहुल के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	खोई	6	क्रमांक 79 गंगाराम के घर से 95 सुरेश के घर तक	महिला अ.ज.जा.	4
7	खोई	7	क्रमांक 96 अनाबाई के घर से 112 जानकीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	खोई	8	क्रमांक 113 कन्नु के घर से 130 रामसहि के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	खोई	9	क्रमांक 131 गणेश के घर से 142 दिनेश के घर तक		
10	खोई	10	क्रमांक 143 सुपडु के घर से 162 ममता के घर तक		
11	खोई	11	क्रमांक 163 भगवान के घर से 173 अनिताबाई के घर तक		
12	खोई	12	क्रमांक 174 कोयलबाई के घर से 194 संगीता के घर तक		
13	सोनूद	13	क्रमांक 1 केलीबाई के घर से 17 रेतली के घर तक		
14	सोनूद	14	क्रमांक 18 देवला के घर से 25 वाहरिया के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	ढसलगांव	1	क्रमांक 1 वंदना के घर से 7 इकराम के घर तक	अ.जा.	1
2	ढसलगांव	2	क्रमांक 8 लोहज्या के घर से 17 सुकीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	14
3	ढसलगांव	3	क्रमांक 18 दगडया के घर से 31 सुनीता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	ढसलगांव	4	क्रमांक 32 फुलसिंह के घर से 46 चनीबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	ढसलगांव	5	क्रमांक 47 जगतसिंह के घर से 61 सेवतीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	ढसलगांव	6	क्रमांक 62 कांजा के घर से 74 परमाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	7
7	ढसलगांव	7	क्रमांक 75 बयानसिंह के घर से 85 गुड्डीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	ढसलगांव	8	क्रमांक 86 गन्या वागरिया के घर से 96 राजेश के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	ढसलगांव	9	क्रमांक 97 महेन्दीबाई के घर से 106 सुनिताबाई के घर तक		
10	ढसलगांव	10	क्रमांक 107 गिलदार के घर से 123 रेलसिंह के घर तक		
11	ढसलगांव	11	क्रमांक 124 सुरमल के घर से 131 पप्पू के घर तक		
12	ढसलगांव	12	क्रमांक 132 जामसिंह के घर से 138 सुकलाल के घर तक		
13	ढसलगांव	13	क्रमांक 139 वेस्ता के घर से 144 कलाबाई के घर तक		
14	ढसलगांव	14	क्रमांक 145 मन्या के घर से 150 कालु के घर तक		
15	ढसलगांव	15	क्रमांक 151 झलीबाई के घर से 160 पिंकी के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मेंडागढ़	1	क्रमांक 1 मीराबाई के घर से 7 कालु के घर तक	अ.जा.	0
2	मेंडागढ़	2	क्रमांक 8 मनीबाई के घर से 14 गंगलीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	10
3	मेंडागढ़	3	क्रमांक 15 बिशन के घर से 22 रोशनीबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मेंडागढ़	4	क्रमांक 23 रेमलीबाई के घर से 33 शारदा के घर तक	अनारक्षित	0
5	मेंडागढ़	5	क्रमांक 34 सुमलीबाई के घर से 41 लुसी के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	मेंडागढ़	6	क्रमांक 42 रामसहि मूनस्या के घर से 53 हतरी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	मेंडागढ़	7	क्रमांक 54 बनीबाई के घर से 64 सजलीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मेंडागढ़	8	क्रमांक 65 झुमलीबाई के घर से 72 पुनीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	मेंडागढ़	9	क्रमांक 73 अमरसिंह के घर से 81 माधू के घर तक		
10	मेंडागढ़	10	क्रमांक 82 सुकलीबाई के घर से अंत तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मारूगढ़	1	क्रमांक 1 विजय के घर से 15 करणसिंह के घर तक	अ.जा.	0
2	मारूगढ़	2	क्रमांक 16 बंशीबाई के घर से 30 लालसहि के घर तक	अ.ज.जा.	10
3	मारूगढ़	3	क्रमांक 31 भगवान के घर से 48 पप्पू के घर तक	पि. वर्ग	3
4	मारूगढ़	4	क्रमांक 48 चंपालाल के घर से 60 जमनाबाई के घर तक	अनारक्षित	4
5	मारूगढ़	5	क्रमांक 62 जमनाबाई के घर से 77 अलकाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	मारूगढ़	6	क्रमांक 78 भुरीबाई के घर से 87 मनोहर के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	मारूगढ़	7	क्रमांक 88 रामचन्द्र के घर से 111 समोति के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	मारूगढ़	8	क्रमांक 1123 बिनाबाई के घर से 14 शिवानी के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	मारूगढ़	9	क्रमांक 145 गोन्या के घर से 152 अयज के घर तक		
10	मारूगढ़	10	क्रमांक 154 सीराम के घर से 169 संगिता के घर तक		
11	मारूगढ़	11	क्रमांक 170 मयाराम के घर से 190 रजनी के घर तक		
12	मारूगढ़	12	क्रमांक 191 मंगु के घर से 203 ज्योती के घर तक		
13	मारूगढ़	13	क्रमांक 204 मंशारा के घर से 219 ध्याना के घर तक		
14	मारूगढ़	14	क्रमांक 220 सेतोष के घर से 225 दिनेश के घर तक		
15	शाहपुरा	15	क्रमांक 1 सुरली के घर से 5 बारी के घर तक		
16	शाहपुरा	16	क्रमांक 7 भारता के घर से 16 रमु के घर तक		
17	शाहपुरा	17	क्रमांक 17 सुरसिंह के घर से 34 बनारस के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	घोडी बुजूर्ग	1	क्रमांक 1 अकलसिंह के घर से 91 गंगाराम के घर तक	अ.जा.	1
2	घोडी बुजूर्ग	2	क्रमांक 92 प्रेमलाल के घर से 184 मोनीका के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	घोडी बुजूर्ग	3	क्रमांक 105 बिन्दा के घर से 276 काली के घर तक	पि. वर्ग	0
4	घोडी बुजूर्ग	4	क्रमांक 277 गेमसिंह के घर से 366 गेंदली के घर तक	अनारक्षित	0
5	घोडी बुजूर्ग	5	क्रमांक 367 केरली के घर से 458 चास्तर के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	घोडी बुजूर्ग	6	क्रमांक 459 दुफारसिय के घर से 549 बायजाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	घोडी बुजूर्ग	7	क्रमांक 550 उहरा के घर से 639 गुजाबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	घोडी बुजूर्ग	8	क्रमांक 640 सुरम्याबाई के घर से 730 गोपाल के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	घोडी बुजूर्ग	9	क्रमांक 731 रिछडीबाई के घर से 823 हुमरीबाई के घर तक		
10	घोडी बुजूर्ग	10	क्रमांक 824 मांगीलाल के घर से 913 बठडा के घर तक		
11	घोडी बुजूर्ग	11	क्रमांक 914 नटा के घर से 1006 साहली के घर तक		
12	घोडी बुजूर्ग	12	क्रमांक 1007 किलरसिंह के घर से 1096 मुन्नी के घर तक		
13	घोडी बुजूर्ग	13	क्रमांक 1097 गोखरिया के घर से 1188 संगीता के घर तक		
14	घोडी बुजूर्ग	14	क्रमांक 1189 चेकाबाई के घर से 1277 गुडी के घर तक		
15	घोडी बुजूर्ग	15	क्रमांक 1278 रेंलाबाई के घर से 1367 उशीबाई के घर तक		
16	घोडी बुजूर्ग	16	क्रमांक 1368 रतनसिंह के घर से 1459 धमरिया के घर तक		
17	घोडी बुजूर्ग	17	क्रमांक 1460 कारवटीबाई के घर से 1548 बिना घर तक		
18	घोडी बुजूर्ग	18	क्रमांक 1549 ओंकार के घर से 1640 कुसमा के घर तक		
19	घोडी बुजूर्ग	19	क्रमांक 1641 रूमाली के घर से 1731 गुरल्या के घर तक		
20	घोडी बुजूर्ग	20	क्रमांक 1732 अमास्या के घर से 1824 गौरैलाल के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पुतला	1	क्रमांक 1 दिनेश के घर से 17 रेखाबाई के घर तक	अ.जा.	1
2	पुतला	2	क्रमांक 18 पुन्या के घर से 35 पातलीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	पुतला	3	क्रमांक 36 सकाराम के घर से 51 सुकमाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पुतला	4	क्रमांक 52 पुटा के घर से 65 हतरीबाई के घर तक	अनारक्षित	2
5	पुतला	5	क्रमांक 66 भीलु के घर से 77 सुनिल के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	पुतला	6	क्रमांक 78 केकडिबाई के घर से 95 नसरीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	पुतला	7	क्रमांक 96 मंगीबाई के घर से 110 संगीताबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पुतला	8	क्रमांक 112 जमनाबाई के घर से 130 मुकेश के घर तक	अनारक्षित महिला	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	पुतला	9	क्रमांक 131 काला के घर से 149 अनिल के घर तक	
10	कटझीरा	10	क्रमांक 150 भीमा के घर से अंत राकेश के घर तक	
11	कटझीरा	11	क्रमांक 1 पारूबाई के घर से 16 रूखमणीबाई के घर तक	
12	कटझीरा	12	क्रमांक 17 ठाकुर के घर से 33 जीजाबाई के घर तक	
13	कटझीरा	13	क्रमांक 34 आनार के घर से 44 छायाबाई के घर तक	
14	कटझीरा	14	क्रमांक 45 दरियाव के घर से 63 सोनुबाई के घर तक	
15	कटझीरा	15	क्रमांक 64 मुकेश के घर से 72 मीराबाई के घर तक	
16	कटझीरा	16	क्रमांक 73 देवराम के घर से 85 वेस्तीबाई के घर तक	
17	कटझीरा	17	क्रमांक 86 बुंदीबाई के घर से 89 बाटाबाई के घर तक	
18	कटझीरा	18	क्रमांक 90 सोमाजी के घर से अंत रेखाबाई के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	कुडी	1	क्रमांक 1 के घर से 78 सुभाष के घर तक	अ.जा.	0
2	कुडी	2	क्रमांक 79 के घर से 84 रंगुबाई के घर तक	अ.ज.जा.	13
3	कुडी	3	क्रमांक 85 के घर से 89 पंकी के घर तक	पि. वर्ग	0
4	कुडी	4	क्रमांक 90 के घर से 98 सरदार के घर तक	अनारक्षित	0
5	कुडी	5	क्रमांक 99 के घर से 108 सुमीता के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	कुडी	6	क्रमांक 109 के घर से 113 मसरी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	7
7	कुडी	7	क्रमांक 114 के घर से 127 दिनेश के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	कुडी	8	क्रमांक 128 के घर से 135 मंजु के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	कुडी	9	क्रमांक 136 के घर से 148 मुंज के घर तक		
10	कुडी	10	क्रमांक 149 के घर से 158 जमना के घर तक		
11	कुडी	11	क्रमांक 159 के घर से 164 जालम के घर तक		
12	कुडी	12	क्रमांक 165 के घर से 167 अशोक के घर तक		
13	कुडी	13	क्रमांक 168 के घर से अंत तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	नहालदरी	1	क्रमांक 1 रेखाबाई के घर से 10 बारकी के घर तक	अ.जा.	0
2	नहालदरी	2	क्रमांक 11 नूरीबाई के घर से 23 निर्मला के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	नहालदरी	3	क्रमांक 24 मोजा के घर से 33 मंगलीबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	नहालदरी	4	क्रमांक 35 बलिराम के घर से 43 मंजु के घर तक	अनारक्षित	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	नहालदरी	5	क्रमांक 44 रिछु के घर से 50 रूमली के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	नहालदरी	6	क्रमांक 52 शोभाराम के घर से 59 ज्योति के घर तक	महिला अ.ज.जा. 8
7	नहालदरी	7	क्रमांक 60 मोना के घर से 68 सुरमा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	नहालदरी	8	क्रमांक 69 गुलसिंह के घर से 76 संतु के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	नहालदरी	9	क्रमांक 78 ईडीबाई के घर से 102 सुरमा के घर तक	
10	नहालदरी	10	क्रमांक 106 सोमलीबाई के घर से 157 आशाबाई के घर तक	
11	नहालदरी	11	क्रमांक 158 भुटार के घर से 107 बाबी के घर तक	
12	नहालदरी	12	क्रमांक 110 बनसिंह के घर से 122 रूमलीबाई के घर तक	
13	नहालदरी	13	क्रमांक 123 गोटिया के घर से 131 नुरीबाई के घर तक	
14	नहालदरी	14	क्रमांक 132 भंगडीबाई के घर से 146 पातलीबाई के घर तक	
15	नहालदरी	15	क्रमांक 147 दरियाव के घर से 155 सुकलीबाई के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	झिरन्या	1	क्रमांक 1 गोमा के घर से 38 उमेश के घर तक	अ.जा.	2
2	झिरन्या	2	क्रमांक 38 रमाकांत के घर से 59 राधाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	10
3	झिरन्या	3	क्रमांक 60 सरदार के घर से 100 रामसिंह के घर तक	पि. वर्ग	3
4	झिरन्या	4	क्रमांक 101 भारत के घर से 135 विमलबाई के घर तक	अनारक्षित	5
5	झिरन्या	5	क्रमांक 136 समोतीबाई के घर से 169 रूनीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	झिरन्या	6	क्रमांक 170 गणपत के घर से 202 सरला के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	झिरन्या	7	क्रमांक 203 नत्थु के घर से 241 अशोक के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	झिरन्या	8	क्रमांक 242 सुरेश के घर से 288 संगीता के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	झिरन्या	9	क्रमांक 290 गोकुल के घर से 324 सरीफ के घर तक		
10	झिरन्या	10	क्रमांक 325 हरिकिशन के घर से 371 जया के घर तक		
11	झिरन्या	11	क्रमांक 327 बंशीलाल के घर से 423 प्रिंस के घर तक		
12	झिरन्या	12	क्रमांक 424 दिलीप के घर से 726 साधना के घर तक		
13	झिरन्या	13	क्रमांक 728 राजेन्द्रसिंह के घर से 524 अनारीबाई के घर तक		
14	झिरन्या	14	क्रमांक 526 मेनाबाई के घर से 566 जलाउद्दिन के घर तक		
15	झिरन्या	15	क्रमांक 567 रहीम के घर से 620 बंशी के घर तक		
16	झिरन्या	16	क्रमांक 621 छमनीबाई के घर से 653 रफीक के घर तक		
17	झिरन्या	17	क्रमांक 654 कमलाबाई के घर से 693 चन्द्रसिंह के घर तक		
18	झिरन्या	18	क्रमांक 694 गीताबाई के घर से 756 कुसमबाई के घर तक		
19	झिरन्या	19	क्रमांक 757 देवीसिंह के घर से 801 जसमा के घर तक		
20	झिरन्या	20	क्रमांक 803 नरगीस के घर से 1197 गायत्री के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मानीकेरा	1	क्रमांक 1 नयना के घर से 12 मुन्नीबाई के घर तक	अ.जा.	1
2	मानीकेरा	2	क्रमांक 13 उषडिया के घर से 28 मंजु के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	मानीकेरा	3	क्रमांक 29 गोपाल के घर से 41 ममता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मानीकेरा	4	क्रमांक 42 कडवा के घर से 53 दीपक के घर तक	अनारक्षित	0
5	मानीकेरा	5	क्रमांक 54 उहरी के घर से 66 अन्नु के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	मानीकेरा	6	क्रमांक 67 कालु के घर से 77 बुधी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	मानीकेरा	7	क्रमांक 78 सुरला के घर से 69 फुगा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मानीकेरा	8	क्रमांक 90 चम्पालाल के घर से 99 बोहरी के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	मानीकेरा	9	क्रमांक 100 सुरमल के घर से 112 सोनाईडी के घर तक		
10	मानीकेरा	10	क्रमांक 113 नुरली के घर से 121 छाया के घर तक		
11	मानीकेरा	11	क्रमांक 122 केना के घर से अंत तक गुड्डी के घर तक		
12	कुसुम्बिया	12	क्रमांक 1 कालु के घर से 10 सदली के घर तक		
13	कुसुम्बिया	13	क्रमांक 12 छतरसिंह के घर से 24 गडबडी के घर तक		
14	कुसुम्बिया	14	क्रमांक 25 महारसिंह के घर से 33 सफन के घर तक		
15	कुसुम्बिया	15	क्रमांक 34 सायबीबाई के घर से 39 सहाबाई के घर तक		
16	कुसुम्बिया	16	क्रमांक 40 केलीबाई के घर से 43 नानी के घर तक		
17	कुसुम्बिया	17	क्रमांक 44 दूरसिंह के घर से 55 सुनील के घर तक		
18	कुसुम्बिया	18	क्रमांक 56 बिरछा के घर से 66 सियानीबाई के घर तक		
19	कुसुम्बिया	19	क्रमांक 67 रूपचंद के घर से अंत तक नासलीबाई के घर तक.		
20		20			

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बेडछा	1	क्रमांक 1 मालुबाई के घर से 8 दिलीप के घर तक	अ.जा.	0
2	बेडछा	2	क्रमांक 9 मूलचंद के घर से 18 गणपत के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	बेडछा	3	क्रमांक 19 बोंदरीबाई के घर से 33 मदन के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बेडछा	4	क्रमांक 34 मंजी के घर से 40 ललिताबाई के घर तक	अनारक्षित	1
5	बेडछा	5	क्रमांक 41 तुकाराम के घर से 55 बास्कर के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बेडछा	6	क्रमांक 56 हिरालाल के घर से 69 रामकुंवर के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	बेडछा	7	क्रमांक 70 गंगाराम के घर से 88 संगीताबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बेडछा	8	क्रमांक 89 यासीन के घर से 100 गंजाबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	बेडछा	9	क्रमांक 101 बुध्या के घर से 113 जमनाबाई के घर तक	
10	बेडछा	10	क्रमांक 114 फुलचन्द के घर से 127 रानुबाई के घर तक	
11	बेडछा	11	क्रमांक 128 नवलसिंह के घर से 134 सुमनबाई के घर तक	
12	बेडछा	12	क्रमांक 135 गुन्दलीबाई के घर से 141 केशरसिंह के घर तक	
13	बेडछा	13	क्रमांक 141 रेमल के घर से 147 नवलसिंह के घर तक	
14	बेडछा	14	क्रमांक 147 मोहनसिंह के घर से 160 फुन्दाबाई के घर तक	
15	बेडछा	15	क्रमांक 160 प्रेमलाल के घर से 172 कलुबाई के घर तक	
16	बेडछा	16	क्रमांक 174 रडतिया के घर से 128 कैलाश के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	सेमलकुट	1	क्रमांक 1 जगदीश के घर से 7 बुधी के घर तक	अ.जा.	0
2	सेमलकुट	2	क्रमांक 8 कुंवरसिंह के घर से 18 रमेश के घर तक	अ.ज.जा.	17
3	सेमलकुट	3	क्रमांक 19 लक्ष्मण के घर से 31 फुलसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	सेमलकुट	4	क्रमांक 32 गुलाब के घर से 44 सुबडी के घर तक	अनारक्षित	0
5	सेमलकुट	5	क्रमांक 46 केलीबाई के घर से 63 रमेश के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	सेमलकुट	6	क्रमांक 64 भीलु के घर से 73 बालु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	सेमलकुट	7	क्रमांक 75 जैसिया के घर से 87 मुकेश के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	सेमलकुट	8	क्रमांक 88 टेटिया के घर से 101 सकाराम के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	सेमलकुट	9	क्रमांक 102 लहंगी के घर से 113 बीना के घर तक		
10	सेमलकुट	10	क्रमांक 115 रघुनाथ के घर से 126 गौवरी के घर तक		
11	सेमलकुट	11	क्रमांक 128 गेंदी के घर से 137 वेस्ती के घर तक		
12	सेमलकुट	12	क्रमांक 138 पुना के घर से 153 मुधी के घर तक		
13	सेमलकुट	13	क्रमांक 155 धनसिंह के घर से 173 सुनिता के घर तक		
14	सेमलकुट	14	क्रमांक 174 प्यारसिंह के घर से 190 डोगरसिंह के घर तक		
15	सेमलकुट	15	क्रमांक 191 गोरेलाल के घर से 201 प्रकाश के घर तक		
16	सेमलकुट	16	क्रमांक 202 रायसिंह के घर से 211 सयती के घर तक		
17	सेमलकुट	17	क्रमांक 213 वेसला के घर से 231 रेश्मा के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	चौपाली	1	क्रमांक 1 सुकमाबाई के घर से 34 सुशीला के घर तक	अ.जा.	0
2	चौपाली	2	क्रमांक 35 भावसिंह के घर से 72 रूजंलीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	चौपाली	3	क्रमांक 73 धुधरीबाई के घर से 99 भंगडीबाई के घर तक	पि. वर्ग 0
4	चौपाली	4	क्रमांक 102 मना के घर से 130 अबरसिंह के घर तक	अनारक्षित 1
5	चौपाली	5	क्रमांक 131 कलिया के घर से 165 गोरेलाल के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	चौपाली	6	क्रमांक 166 रतन के घर से 195 नानसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा. 10
7	चौपाली	7	क्रमांक 197 कैलाश के घर से 226 रीछु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	चौपाली	8	क्रमांक 228 चमार के घर से 254 रीछु के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	चौपाली	9	क्रमांक 255 बाटिया के घर से 276 बावलिया के घर तक	
10	चौपाली	10	क्रमांक 1 सरस्वती के घर से 20 ढुडीबाई के घर तक	
11	चौपाली	11	क्रमांक 21 उमराव के घर से 45 सत्यनारायण के घर तक	
12	चौपाली	12	क्रमांक 46 रामेश्वर के घर से 68 कालु के घर तक	
13	चौपाली	13	क्रमांक 69 तिख्या के घर से 89 मसरीबाई के घर तक	
14	चौपाली	14	क्रमांक 90 रीछाबाई के घर से 111 रामनरेश के घर तक	
15	चौपाली	15	क्रमांक 1 नवसीबाई के घर से 33 सुबीबाई के घर तक	
16	चौपाली	16	क्रमांक 35 बिरजीबाई के घर से 82 कुवरसिंह के घर तक	
17	चौपाली	17	क्रमांक 83 गंगुबाई के घर से 116 झलुबाई के घर तक	
18	चौपाली	18	क्रमांक 117 मुरसिंह के घर से 217 अनिकेत के घर तक	
19	चौपाली	19	क्रमांक 3 दरियाव के घर से 19 माध्या के घर तक	
20	चौपाली	20	क्रमांक 20 दिलीप के घर से 104 पुटिया के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पुनासला	1	क्रमांक 1 नारायण के घर से 13 आत्माराम के घर तक	अ.जा.	0
2	पुनासला	2	क्रमांक 14 रम्भाबाई के घर से 31 गोपीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	9
3	पुनासला	3	क्रमांक 32 कमलाबाई के घर से 49 सीताराम के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पुनासला	4	क्रमांक 50 राधेश्याम के घर से 70 कडवा के घर तक	अनारक्षित	4
5	पुनासला	5	क्रमांक 71 जयराम के घर से 91 लाडकीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	पुनासला	6	क्रमांक 92 पुनमचन्द के घर से 106 राधेश्याम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	पुनासला	7	क्रमांक 108 गिरधारी के घर से 119 जगन के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पुनासला	8	क्रमांक 120 सेवाराम के घर से 132 सवकार के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	पुनासला	9	क्रमांक 133 सगुलाबसिंह के घर से 197 गोपाल के घर तक		
10	पुनासला	10	क्रमांक 148 मंगतीबाई के घर से 168 रमेश के घर तक		
11	पुनासला	11	क्रमांक 173 टेटिया के घर से 182 राजाराम के घर तक		
12	पुनासला	12	क्रमांक 183 धरमसिंह के घर से 186 नानकराम के घर तक		
13	पुनासला	13	क्रमांक 187 गणपत के घर से 193 कमलीबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	ठोकनबेडा	1	क्रमांक 1 बाटीबाई के घर से 12 किरण के घर तक	अ.जा.	0
2	ठोकनबेडा	2	क्रमांक 13 मोनाबाई के घर से 24 झुमाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	11
3	ठोकनबेडा	3	क्रमांक 25 वेशलीबाई के घर से 31 सोमा के घर तक	पि. वर्ग	0
4	ठोकनबेडा	4	क्रमांक 33 ज्ञानसिंह के घर से 41 लिबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	ठोकनबेडा	5	क्रमांक 42 बलिराम के घर से 50 सियाराम के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	ठोकनबेडा	6	क्रमांक 51 अबुल के घर से 57 बासली के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	ठोकनबेडा	7	क्रमांक 58 देवलीबाई के घर से 67 सुमन के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	ठोकनबेडा	8	क्रमांक 68 रायदाबाई के घर से 76 ममता के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	ठोकनबेडा	9	क्रमांक 97 चतरसिंह के घर से 84 जाकीया के घर तक		
10	पोखर खुर्द	10	क्रमांक 1 गुलाब के घर से 10 अशोक के घर तक		
11	पोखर खुर्द	11	क्रमांक 11 धनसिंह के घर से 18 फुलसिंह के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	आभापुरी	1	क्रमांक 1 लछिया के घर से 22 बेबीबाई के घर तक	अ.जा.	1
2	आभापुरी	2	क्रमांक 23 चंनलाल के घर से 50 टुकडिया के घर तक	अ.ज.जा.	6
3	आभापुरी	3	क्रमांक 51 सूरजबाई के घर से 75 डुकडु के घर तक	पि. वर्ग	2
4	आभापुरी	4	क्रमांक 75 जेनाबाई के घर से 104 मांगीलाल के घर तक	अनारक्षित	3
5	आभापुरी	5	क्रमांक 105 अखिलेश के घर से 135 नथीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	आभापुरी	6	क्रमांक 136 नानी के घर से 160 पुब्बेन्द्रसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	3
7	आभापुरी	7	क्रमांक 161 इंदुकुवर के घर से 178 फुलचन्द के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	आभापुरी	8	क्रमांक 179 किशन के घर से 201 हरि के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	आभापुरी	9	क्रमांक 202 यमना के घर से 234 बबन के घर तक		
10	आभापुरी	10	क्रमांक 235 गोकुल के घर से 259 नरेन्द्रसिंह के घर तक		
11	आभापुरी	11	क्रमांक 260 रामसिंह के घर से 279 मदन के घर तक		
12	आभापुरी	12	क्रमांक 280 भीमसिंह के घर से 295 देवकरण के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	टिगरिया	1	क्रमांक 1 जिला के घर से 23 पोरस्या के घर तक	अ.जा.	0
2	टिगरिया	2	क्रमांक 24 बाटिया के घर से 35 केशरीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	टिगरिया	3	क्रमांक 36 शंकर के घर से 45 चंदा के घर तक	पि. वर्ग 0
4	टिगरिया	4	क्रमांक 46 गंगाबाई के घर से 57 अनार के घर तक	अनारक्षित 2
5	टिगरिया	5	क्रमांक 58 लक्ष्मीबाई के घर से 72 तेरसिंह के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	टिगरिया	6	क्रमांक 73 रावल्या के घर से 86 फकीरा के घर तक	महिला अ.ज.जा. 5
7	टिगरिया	7	क्रमांक 88 श्याणी के घर से 100 शिवरा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	टिगरिया	8	क्रमांक 101 बाला के घर से 115 धन्नालाल के घर तक	अनारक्षित महिला 1
9	टिगरिया	9	क्रमांक 116 मोहन के घर से 135 रामसिंह के घर तक	
10	जामरदा	10	क्रमांक 1 नत्थुराम के घर से 23 नागु के घर तक	
11	जामरदा	11	क्रमांक 24 झमराल के घर से 34 गुलाब के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मुंडिया	1	कालीबाई के घर से रामसिंह के घर तक	अ.जा.	1
2	मुंडिया	2	मदन के घर से फत्तु के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	मुंडिया	3	जामसिंह के घर से वेस्ता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मुंडिया	4	सदु के घर से फुदी के घर तक	अनारक्षित	1
5	मुंडिया	5	रूखडिया के घर से पुटिया के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	मुंडिया	6	रूपाली के घर से गुमान के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	मुंडिया	7	ध्यानसिंह के घर से ईडा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मुंडिया	8	छतरसिंह के घर से मंगल्या के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	मुंडिया	9	रालु के घर से रामसिंह के घर तक		
10	मुंडिया	10	अन्तु के घर से भुरिया के घर तक		
11	मुंडिया	11	कोटिया के घर से बोंदरसिंह के घर तक		
12	मुंडिया	12	सरदार के घर से थावलीबाई के घर तक		
13	मुंडिया	13	सागरबाई के घर से नानसिंह के घर तक		
14	मुंडिया	14	तेरसिंह के घर से नुरलीबाई के घर तक		
15	मुंडिया	15	नभला के घर से कमलीबाई के घर तक		
16	मुंडिया	16	भुरली के घर से रमेश के घर तक		
17	मुंडिया	17	जामसिंह के घर से कैलाश के घर तक		
18	मुंडिया	18	गमरिया के घर से ध्यानसिंह के घर तक		
19	मुंडिया	19	चमेली के घर से पातल्या के घर तक		
20	मुंडिया	20	बदिया के घर से शोभाराम के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पिडीजामली	1	क्रमांक 1 लक्ष्मण 1 के घर से 10 संजय के घर तक	अ.जा.	1
2	पिडीजामली	2	क्रमांक 11 गुमनीबाई 2 के घर से 16 निरमा के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	पिडीजामली	3	क्रमांक 17 जामसिंह 3 के घर से 21 वेचली के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पिडीजामली	4	क्रमांक 12 दरकाश 4 के घर से 27 अंतुबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	पिडीजामली	5	क्रमांक 28 आपसिंह 5 के घर से 32 ईडलीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	पिडीजामली	6	क्रमांक 33 गोवरीबाई 6 के घर से 39 जगला के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	पिडीजामली	7	क्रमांक 40 कुवरसिंह 7 के घर से 48 सजनीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पिडीजामली	8	क्रमांक 49 इसराम 8 के घर से 57 सुरपाल के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	पिडीजामली	9	क्रमांक 58 रिछा 9 के घर से 60 इसराम के घर तक		
10	पिडीजामली	10	क्रमांक 61 जुखेला 10 के घर से 66 लालबाई के घर तक		
11	पिडीजामली	11	क्रमांक 67 भुटिया 11 के घर से 72 सेवतीबाई के घर तक		
12	पिडीजामली	12	क्रमांक 73 संतरीबाई 12 के घर से 82 फुलकीबाई के घर तक		
13	पिडीजामली	13	क्रमांक 83 खजान 13 के घर से 93 राजुबाई के घर तक		
14	पिडीजामली	14	क्रमांक 94 वेरला 14 के घर से 104 गोरेलाल के घर तक		
15	पिडीजामली	15	क्रमांक 105 झिनाबाई 15 के घर से 111 सुनिल के घर तक		
16	पिडीजामली	16	क्रमांक 112 अनसिंह 16 के घर से 117 सोनु के घर तक		
17	पिडीजामली	17	क्रमांक 118 झबलीबाई 17 के घर से 122 अंतुबाई के घर तक		
18	पिडीजामली	18	क्रमांक 123 रडत्या 18 के घर से 127 गेंदाबाई के घर तक		
19	पिडीजामली	19	क्रमांक 128 अनारसिंह 19 के घर से 133 सुरमल के घर तक		
20	पिडीजामली	20	क्रमांक 134 भला 20 के घर से अंत तक दरबार के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	दामखेडा	1	क्रमांक 2 मडिया के घर से 17 फुलसिंह के घर तक	अ.जा.	1
2	दामखेडा	2	क्रमांक 18 महेन्द्र के घर से 38 सेकडा के घर तक	अ.ज.जा.	13
3	दामखेडा	3	क्रमांक 39 ध्यानसिंह के घर से 47 रालीबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	दामखेडा	4	क्रमांक 48 रायसिंह के घर से 59 रूपसिंह के घर तक	अनारक्षित	2
5	दामखेडा	5	क्रमांक 60 केशरीबाई के घर से 74 सुभाष के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	दामखेडा	6	क्रमांक 75 पठान के घर से 88 रूखडिया के घर तक	महिला अ.ज.जा.	7
7	दामखेडा	7	क्रमांक 90 हामला के घर से 100 फुलसिंह के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	दामखेडा	8	क्रमांक 101 सीताराम के घर से 109 छगन के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	दामखेडा	9	क्रमांक 110 भंगडा के घर से 118 गुलाब के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	दामखेडा	10	क्रमांक 119 सखाराम के घर से 132 मेहताब के घर तक	
11	दामखेडा	11	क्रमांक 133 अनारसिंह के घर से 142 छगन के घर तक	
12	दामखेडा	12	क्रमांक 143 बहादर के घर से 159 दित्या के घर तक	
13	दामखेडा	13	क्रमांक 160 भुरू के घर से 173 रूपसिंह के घर तक	
14	दामखेडा	14	क्रमांक 174 जंगु के घर से 184 जसवंत के घर तक	
15	दामखेडा	15	क्रमांक 185 अजय के घर से 196 फुंदाबाई के घर तक	
16	दामखेडा	16	क्रमांक 197 झबरसिंह के घर से 230 कुवरसिंह के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	धुपी खुर्द	1	क्रमांक 1 कामिनी के घर से 16 नवसी के घर तक	अ.जा.	0
2	धुपी खुर्द	2	क्रमांक 17 सायरीबाई के घर से 30 संगीता के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	धुपी खुर्द	3	क्रमांक 31 गंगाबाई के घर से 47 रजिया के घर तक	पि. वर्ग	0
4	धुपी खुर्द	4	क्रमांक 49 भीलु के घर से 66 गुड्डी के घर तक	अनारक्षित	1
5	धुपी खुर्द	5	क्रमांक 67 खुमसिंह के घर से 74 सुमलीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	धुपी खुर्द	6	क्रमांक 75 ज्ञानसिंह के घर से 87 सुरेश के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	धुपी खुर्द	7	क्रमांक 88 मेदीबाई के घर से 103 रम्भा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	धुपी खुर्द	8	क्रमांक 104 बटु के घर से 116 कमली के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	धुपी खुर्द	9	क्रमांक 118 शोभाराम के घर से 123 पारूबाई के घर तक		
10	धुपी खुर्द	10	क्रमांक 124 सकम के घर से 133 नहाली के घर तक		
11	धुपी खुर्द	11	क्रमांक 136 अमरसिंह के घर से 145 नहाला के घर तक		
12	धुपी खुर्द	12	क्रमांक 146 कुहरीबाई के घर से 155 सुमलीबाई के घर तक		
13	धुपी खुर्द	13	क्रमांक 156 भुवान के घर से 161 बारकी के घर तक		
14	धुपी खुर्द	14	क्रमांक 162 नवलसिंह के घर से 173 परसराम के घर तक		
15	धुपी खुर्द	15	क्रमांक 174 थावलीबाई के घर से 182 लालीबाई के घर तक		
16	धुपी खुर्द	16	क्रमांक 183 मुनस्या के घर से 189 रेश्मी के घर तक		
17	धुपी खुर्द	17	क्रमांक 192 छगन के घर से 200 दितली के घर तक		
18	धुपी खुर्द	18	क्रमांक 201 फातिमा के घर से 215 पाच्या के घर तक		
19	धुपी खुर्द	19	क्रमांक 216 सुमली के घर से 232 भुरी के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	देवित बुजूर्ग	1	क्रमांक 1 मरूबाई के घर से 17 रमेश के घर तक	अ.जा.	0
2	देवित बुजूर्ग	2	क्रमांक 19 रतन के घर से 34 झेंदाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	देवित बुजूर्ग	3	क्रमांक 35 दिलावर के घर से 51 दशरथ के घर तक	पि. वर्ग 5
4	देवित बुजूर्ग	4	क्रमांक 52 सोहनलाल के घर से 69 भागीरथ के घर तक	अनारक्षित 5
5	देवित बुजूर्ग	5	क्रमांक 70 संजय के घर से 84 नवलसिंह के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	देवित बुजूर्ग	6	क्रमांक 85 मनोहर के घर से 96 चन्दाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा. 5
7	देवित बुजूर्ग	7	क्रमांक 97 बसंती के घर से 112 बाघसिंह के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 3
8	देवित बुजूर्ग	8	क्रमांक 113 मंगुसिंह के घर से 129 द्वारकीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला 2
9	देवित बुजूर्ग	9	क्रमांक 130 गीताबाई के घर से 147 देवकाबाई के घर तक	
10	देवित बुजूर्ग	10	क्रमांक 1 मोहन्या के घर से 26 तोलाराम के घर तक	
11	देवित बुजूर्ग	11	क्रमांक 27 अनारसिंह के घर से 44 भीमसिंह के घर तक	
12	देवित बुजूर्ग	12	क्रमांक 46 पदम के घर से अंत तक लिलाबाई के घर तक	
13	नेमित	13	क्रमांक 1 जयसिंह के घर से 14 जीवनसिंह के घर तक	
14	नेमित	14	क्रमांक 16 तेजुसिंह के घर से 33 यसोदाबाई के घर तक	
15	नेमित	15	क्रमांक 34 रेश्मा के घर से 46 छितरसिंह के घर तक	
16	नेमित	16	क्रमांक 47 बनारसबाई के घर से 66 कन्हैया के घर तक	
17	नेमित	17	क्रमांक 70 तुलसीराम के घर से 83 शांतिलाल के घर तक	
18	नेमित	18	क्रमांक 84 राजाराम के घर से 102 गोटु के घर तक	
19	नेमित	19	क्रमांक 103 अजित खां के घर से अंत तक नहारसिंह के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बिलखेड	1	क्रमांक 1 सोनाबाई 6 छोटिया के घर तक	अ.जा.	0
2	बिलखेड	2	क्रमांक 7 डेबा 14 अमरसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	बिलखेड	3	क्रमांक 15 छोटिया 27 सुरत के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बिलखेड	4	क्रमांक 28 अंतरसिंह 37 मसरीबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	बिलखेड	5	क्रमांक 38 रायसिंह 42 मीरलीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बिलखेड	6	क्रमांक 43 श्याणीबाई 52 मेंदरिया के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	बिलखेड	7	क्रमांक 53 जामसिंह 58 रायसिंह के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बिलखेड	8	क्रमांक 59 श्याणीबाई 59 मगनलाल के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	बिलखेड	9	क्रमांक 70 रडत्या 80 फुलसिंह के घर तक		
10	बिलखेड	10	क्रमांक 81 मेहताप 88 मांगीलाल के घर तक		
11	बिलखेड	11	क्रमांक 98 लालसिंह 97 देवसिंह के घर तक		
12	बिलखेड	12	क्रमांक 98 भावसिंह 107 हगरिया के घर तक		
13	बिलखेड	13	क्रमांक 108 ईडासिंह 125 दरबार के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	बिलखेड	14	क्रमांक 126 टेमरिया 140 दुर्गाबाई के घर तक	
15	बिलखेड	15	क्रमांक 141 सुकराम 154 भुरला के घर तक	
16	बिलखेड	16	क्रमांक 155 कुवरसिंह 168 रूपसिंह के घर तक	
17	बिलखेड	17	क्रमांक 169 धुमसिंह 180 नहारसिंह के घर तक	
18	बिलखेड	18	क्रमांक 181 कालुसिंह 191 बालीबाई के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	हरणकुंडिया	1	क्रमांक 1 झुमलीबाई के घर से 7 दिनेश के घर तक	अ.जा.	0
2	हरणकुंडिया	2	क्रमांक 8 रामसिंह के घर से 11 हिरालाल के घर तक	अ.ज.जा.	16
3	हरणकुंडिया	3	क्रमांक 12 फुटीबाई के घर से 19 किशन के घर तक	पि. वर्ग	0
4	हरणकुंडिया	4	क्रमांक 20 बनसिंह के घर से 27 दिलीप के घर तक	अनारक्षित	0
5	हरणकुंडिया	5	क्रमांक 28 थावरिया के घर से 36 गुदीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	हरणकुंडिया	6	क्रमांक 37 मंगल्या के घर से 46 प्रमिलाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	हरणकुंडिया	7	क्रमांक 47 दितला के घर से 53 रिकु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	हरणकुंडिया	8	क्रमांक 54 नानसिंह के घर से 60 लालीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	हरणकुंडिया	9	क्रमांक 61 डोकल्या के घर से 66 कलाबाई के घर तक		
10	हरणकुंडिया	10	क्रमांक 67 भावसिंह के घर से 74 दिनेश के घर तक		
11	हरणकुंडिया	11	क्रमांक 75 वेचाण के घर से 80 बालीबाई के घर तक		
12	हरणकुंडिया	12	क्रमांक 81 गणपत के घर से 92 सुनिल के घर तक		
13	हरणकुंडिया	13	क्रमांक 93 फगला के घर से 767 फुदीबाई के घर तक		
14	हरणकुंडिया	14	क्रमांक 89 रेमसिंह के घर से 97 अज्जीबाई के घर तक		
15	हरणकुंडिया	15	क्रमांक 98 कालु के घर से 107 नानली के घर तक		
16	हरणकुंडिया	16	क्रमांक 109 जागीलाल के घर से 121 मोली के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मोरदड	1	क्रमांक 1 प्रेमाबाई के घर से 6 बाहीबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	मोरदड	2	क्रमांक 7 दुलीचन्द के घर से 14 सरमीला के घर तक	अ.ज.जा.	12
3	मोरदड	3	क्रमांक 16 रूमालसिंह के घर से 22 फुटिया के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मोरदड	4	क्रमांक 23 मुन्ना के घर से 31 चिताबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	मोरदड	5	क्रमांक 32 फुदीबाई के घर से 39 लिलाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	मोरदड	6	क्रमांक 41 दतारिया के घर से 49 मुन्नीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	मोरदड	7	क्रमांक 50 चंदरिया के घर से 57 झेकलीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	मोरदड	8	क्रमांक 58 प्यारसिंह के घर से 64 रूखमाबाई के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	मोरदड	9	क्रमांक 65 चंदनसिंह के घर से 72 रामेश्वर के घर तक	
10	मोरदड	10	क्रमांक 73 गमा के घर से 80 सायबा के घर तक	
11	मोरदड	11	क्रमांक 81 खुमान के घर से 88 चलाछी के घर तक	
12	मोरदड	12	क्रमांक 89 टेमरिया के घर से अंत तक प्रमिला के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	तिनस्या	1	क्रमांक 1 के घर से बंशी 16 राजेन्द्रसिंह के घर तक	अ.जा.	0
2	तिनस्या	2	क्रमांक 16 के घर से विरेन्द्रसिंह के 24 राजेन्द्रसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	12
3	तिनस्या	3	क्रमांक 25 के घर से देवेसिंह 38 दुलीचन्द के घर तक	पि. वर्ग	0
4	तिनस्या	4	क्रमांक 39 के घर से रिंगलीबाई 56 सुखराम के घर तक	अनारक्षित	3
5	तिनस्या	5	क्रमांक 57 के घर से सुरेन्द्रसिंह 65 भाटिया के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	तिनस्या	6	क्रमांक 66 के घर से जामु 79 रज्जु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	तिनस्या	7	क्रमांक 80 के घर से नुरा 87 सोनार के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	तिनस्या	8	क्रमांक 88 के घर से मगन 119 पन्नालाल के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	रोस्या	9	क्रमांक 1 के घर से फेरंग्या 8 धुलसिंह के घर तक		
10	रोस्या	10	क्रमांक 9 के घर से रामा 16 सखाराम के घर तक		
11	रोस्या	11	क्रमांक 17 के घर से 22 मालु के राठिया के घर तक		
12	रोस्या	12	क्रमांक के घर से के घर तक		
13	रोस्या	13	क्रमांक 32 के घर से सावजी 43 वेचली के घर तक		
14	रोस्या	14	क्रमांक 44 के घर से 51 वाहरिया प्रकाश के घर तक		
15	रोस्या	15	क्रमांक 52 के घर से भुलजी 65 सुरमल के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	गुवाडा	1	क्रमांक 1 कालीबाई के घर से 6 नहारसिंह के घर तक	अ.जा.	0
2	गुवाडा	2	क्रमांक 7 सवादीबाई के घर से 14 संतुबाई के घर तक	अ.ज.जा.	10
3	गुवाडा	3	क्रमांक 15 फुलसिंह के घर से 25 जिलाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	गुवाडा	4	क्रमांक 26 मालसिंह के घर से 31 छगन के घर तक	अनारक्षित	0
5	गुवाडा	5	क्रमांक 34 जगदीश के घर से 40 सुमी के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	गुवाडा	6	क्रमांक 42 गोरीबाई के घर से 49 परसी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	गुवाडा	7	क्रमांक 50 हुल्या के घर से 60 लालु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	गुवाडा	8	क्रमांक 61 महेन्द्र के घर से 67 अर्जुन के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	गुवाडा	9	क्रमांक 68 हजारिया के घर से 73 रूमली के घर तक	
10	गुवाडा	10	क्रमांक 74 धिचलीबाई के घर से 99 तुमडिया के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पिपरखेडनाका	1	क्रमांक 1 सोनु के घर से 10 रामा के घर तक	अ.जा.	0
2	पिपरखेडनाका	2	क्रमांक 11 वेस्ता के घर से 19 विजय के घर तक	अ.ज.जा.	8
3	पिपरखेडनाका	3	क्रमांक 20 कप्तानसिंह के घर से 26 जीवन के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पिपरखेडनाका	4	क्रमांक 27 छोगालाल के घर से 34 लता के घर तक	अनारक्षित	2
5	पिपरखेडनाका	5	क्रमांक 35 सोरठबाई के घर से 44 श्याणीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	पिपरखेडनाका	6	क्रमांक 45 तोताराम के घर से 51 लक्ष्मी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	4
7	पिपरखेडनाका	7	क्रमांक 52 राल्या के घर से 63 हेमलता के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पिपरखेडनाका	8	क्रमांक 64 डोंगरिया के घर से 71 राधा के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	पिपरखेडनाका	9	क्रमांक 75 हरसिंह के घर से 80 सुनील के घर तक		
10	पिपरखेडनाका	10	क्रमांक 81 रूमाल के घर से 85 माया के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	सोनखेडी	1	क्रमांक 2 भागाबाई के घर से 21 दिनेश के घर तक	अ.जा.	0
2	सोनखेडी	2	क्रमांक 22 मंगलु के घर से 37 सुखराम के घर तक	अ.ज.जा.	11
3	सोनखेडी	3	क्रमांक 40 कुवरबाई के घर से 58 रामेश्वर के घर तक	पि. वर्ग	0
4	सोनखेडी	4	क्रमांक 58 परसराम के घर से 72 झेण्डाबाई के घर तक	अनारक्षित	3
5	सोनखेडी	5	क्रमांक 72 हवीलाल के घर से 88 राधेश्याम के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	सोनखेडी	6	क्रमांक 89 चिन्ताबाई के घर से 101 अंतराम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	सोनखेडी	7	क्रमांक 102 भारत के घर से 114 तोहन्या के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	सोनखेडी	8	क्रमांक 114 नानसिंह के घर से 121 अनारसिंह के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	सोनखेडी	9	क्रमांक 122 बाघीराम के घर से 135 चिमा के घर तक		
10	सोनखेडी	10	क्रमांक 136 लखनलाल के घर से 151 लकड़ा के घर तक		
11	धनावा	11	क्रमांक 2 गुलाब के घर से 13 बिशन के घर तक		
12	धनावा	12	क्रमांक 15 रेमा के घर से 25 विमलचंद के घर तक		
13	महुफाटा	13	क्रमांक 1 जालु के घर से 13 मदन के घर तक		
14	महुफाटा	14	क्रमांक 14 लहगीबाई के घर से 17 लक्ष्मण के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पलोना	1	क्रमांक 1 तुलसीराम के घर से 12 तारूबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	पलोना	2	क्रमांक 13 करण के घर से 25 सुमा के घर तक	अ.ज.जा.	20
3	पलोना	3	क्रमांक 26 केशवसिंह के घर से 43 रिताबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पलोना	4	क्रमांक 46 लथ्या के घर से 61 फुलकीबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	पलोना	5	क्रमांक 62 आपसिंह के घर से 75 रेवाराम के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	पलोना	6	क्रमांक 77 शिवराम के घर से 107 कजलीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	पलोना	7	क्रमांक 108 लावरिया के घर से 142 सिराम के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पलोना	8	क्रमांक 4 जमना के घर से 20 गंगा के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	पलोना	9	क्रमांक 21 झेतरिया के घर से 36 संतुबाई के घर तक		
10	पलोना	10	क्रमांक 37 कालीबाई के घर से 54 मिनाबाई के घर तक		
11	पलोना	11	क्रमांक 56 रायकी के घर से 79 कुसुम के घर तक		
12	पलोना	12	क्रमांक 80 भारसिंह के घर से 102 धनसिंह के घर तक		
13	पलोना	13	क्रमांक 103 गुरज्या के घर से 121 संगीताबाई के घर तक		
14	पलोना	14	क्रमांक 122 साबलीबाई के घर से 143 प्यारसिंह के घर तक		
15	खडक्यानदी	15	क्रमांक 2 गंगास के घर से 16 साहबाई के घर तक		
16	खडक्यानदी	16	क्रमांक 17 भीलाबाई के घर से 33 बुदलीबाई के घर तक		
17	खडक्यानदी	17	क्रमांक 34 रेशमीबाई के घर से 47 चुनकीबाई के घर तक		
18	खडक्यानदी	18	क्रमांक 49 रेवलसिंह के घर से 63 सहंगुबाई के घर तक		
19	खडक्यानदी	19	क्रमांक 64 मंगुबाई के घर से 74 दुमलीबाई के घर तक		
20	खडक्यानदी	20	क्रमांक 76 हिरालाल के घर से 121 संगीताबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	रेहटफल	1	क्रमांक 1 जगराम के घर से 14 कोटवाल के घर तक	अ.जा.	0
2	रेहटफल	2	क्रमांक 15 भंगी के घर से 25 संगीता के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	रेहटफल	3	क्रमांक 26 मांग्या के घर से 36 सायमल के घर तक	पि. वर्ग	0
4	रेहटफल	4	क्रमांक 37 चाटिया के घर से 45 माया के घर तक	अनारक्षित	1
5	रेहटफल	5	क्रमांक 46 वेस्ता के घर से 54 प्रमिला के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	रेहटफल	6	क्रमांक 55 सुकलाल के घर से 69 मंज्या के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	रेहटफल	7	क्रमांक 70 हरसिंह के घर से 75 समोती के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	रेहटफल	8	क्रमांक 76 देवीसिंह के घर से 83 रेन्दा के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	रूफाटा	9	क्रमांक 1 सुखराम के घर से 8 सुरली के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	रूफाटा	10	क्रमांक 9 रेलसिंह के घर से 19 रमोती के घर तक	
11	रूफाटा	11	क्रमांक 20 गवरीबाई के घर से 32 संगीता के घर तक	
12	रूफाटा	12	क्रमांक 33 देवेसिंह के घर से 47 रेसली के घर तक	
13	रूफाटा	13	क्रमांक 49 रानु के घर से 61 रोशनी के घर तक	
14	रूफाटा	14	क्रमांक 62 कुवरबाई के घर से 80 उस्मान के घर तक	
15	रूफाटा	15	क्रमांक 81 जीवाबाई के घर से 87 माया के घर तक	
16	रूफाटा	16	क्रमांक 88 अनारबाई के घर से 91 अशोक के घर तक	
17	रूफाटा	17	क्रमांक 92 साहदीबाई के घर से 106 अन्तु के घर तक	
18	पिपल्या खुर्द	18	क्रमांक 1 मुकेश के घर से 15 रूपाली के घर तक	
19	पिपल्या खुर्द	19	क्रमांक 19 रेल्या के घर से 84 रूकमा के घर तक	
20	पिपल्या खुर्द	20	क्रमांक 35 डोंगरसिंह के घर से 41 सुनिता के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पाडल्या	1	क्रमांक 1 बाबुलाल के घर से 19 संपरीबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	पाडल्या	2	क्रमांक 20 शिव के घर से 39 मोहीन के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	पाडल्या	3	क्रमांक 40 कालीबाई के घर से 55 ममता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	पाडल्या	4	क्रमांक 56 शंकर के घर से 66 गेदलीबाई के घर तक	अनारक्षित	1
5	पाडल्या	5	क्रमांक 67 भुरू के घर से 86 बसंतीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	पाडल्या	6	क्रमांक 87 रतन के घर से 99 माखनलाल के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	पाडल्या	7	क्रमांक 100 रम्भाबाई के घर से 109 राजू के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पाडल्या	8	क्रमांक 110 कुसुम के घर से 123 बीनाबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	पाडल्या	9	क्रमांक 124 कैलाश के घर से 133 सुनिता के घर तक		
10	पाडल्या	10	क्रमांक 134 भुराबाई के घर से 150 पुनाबाई के घर तक		
11	पाडल्या	11	क्रमांक 151 सोनाबाई के घर से 165 लक्ष्मीबाई के घर तक		
12	पाडल्या	12	क्रमांक 166 सुमिया के घर से 173 सुताबाई के घर तक		
13	पाडल्या	13	क्रमांक 174 नेवली के घर से 190 उर्मिला के घर तक		
14	पाडल्या	14	क्रमांक 191 धमुबाई के घर से 209 राधाबाई के घर तक		
15	पाडल्या	15	क्रमांक 210 छितु के घर से 227 मनिषा के घर तक		
16	पाडल्या	16	क्रमांक 228 रिछु के घर से 244 संतोष के घर तक		
17	पाडल्या	17	क्रमांक 245 कालु के घर से 262 भुरू के घर तक		
18	पाडल्या	18	क्रमांक 263 बनीबाई के घर से 287 चम्पाबाई के घर तक		
19	पाडल्या	19	क्रमांक 288 रेवलसिंह के घर से 299 नानट्या के घर तक		
20	पाडल्या	20	क्रमांक 300 बारकीबाई के घर से 223 केकडिया के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	काकरिया	2	क्रमांक 81 तेरसिंह के घर से 152 गरदन के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	काकरिया	3	क्रमांक 154 छतरसिंह के घर से 248 चिमाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	काकरिया	4	क्रमांक 249 केरिया के घर से 316 सालीराम के घर तक	अनारक्षित	0
5	काकरिया	5	क्रमांक 317 जवानसिंह के घर से 401 कला के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	काकरिया	6	क्रमांक 402 प्रतापसिंह के घर से 511 गुनाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	काकरिया	7	क्रमांक 512 रिछडी के घर से 623 सर्जन के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	काकरिया (रेहकल्या)	8	क्रमांक 624 सुबला के घर से 694 किरमा के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	—''—	9	क्रमांक 695 कहारिया के घर से 795 निरमा के घर तक		
10	—''—	10	क्रमांक 796 भावसिंह के घर से 877 निरमा के घर तक		
11	—''—	11	क्रमांक 878 पठान के घर से 970 लक्ष्मीबाई के घर तक		
12	—''—	12	क्रमांक 971 आपसिंह के घर से 1034 सुरेश के घर तक		
13	—''—	13	क्रमांक 1035 अंग्रेजा के घर से 1109 सालीराम के घर तक		
14	—''—	14	क्रमांक 1110 नानसिंह के घर से 1170 दुना के घर तक		
15	—''—	15	क्रमांक 1171 वालीबाई के घर से 1197 भुलीबाई के घर तक		
16	—''—	16	क्रमांक 1198 वाकलीबाई के घर से 1228 मांगी के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	चिरिया	1	क्रमांक 1 जुवानसिंह के घर से 24 जेतु के घर तक	अ.जा.	1
2	चिरिया	2	क्रमांक 25 दशरिया के घर से 49 गमा के घर तक	अ.ज.जा.	11
3	चिरिया	3	क्रमांक 50 रंगलीबाई के घर से 83 श्रीराम के घर तक	पि. वर्ग	3
4	चिरिया	4	क्रमांक 83 एम नि के घर से 117 भुरीबाई के घर तक	अनारक्षित	5
5	चिरिया	5	क्रमांक 118 सावीजी के घर से 151 लतीफ के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	चिरिया	6	क्रमांक 152 भुरखा के घर से 168 लिलाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	चिरिया	7	क्रमांक 169 हाफिजा के घर से 192 भंगडीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	चिरिया	8	क्रमांक 193 बिहारी के घर से 211 सालकराम के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	चिरिया	9	क्रमांक 212 मालसिंह के घर से 234 ककडीबाई के घर तक		
10	चिरिया	10	क्रमांक 235 नानकीबाई के घर से 268 डुडीबाई के घर तक		
11	चिरिया	11	क्रमांक 269 एचान के घर से 297 मेहताब के घर तक		
12	चिरिया	12	क्रमांक 298 चमारसिंह के घर से 327 मोहबाई के घर तक		
13	चिरिया	13	क्रमांक 326 थावलीबाई के घर से 346 नहाला के घर तक		
14	चिरिया	14	क्रमांक 347 छोटू के घर से 383 जवानसिंह के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	चिरिया	15	क्रमांक 384 पातलीबाई के घर से 419 मदन के घर तक	
16	चिरिया	16	क्रमांक 1 उंकार के घर से 27 काल्ला के घर तक	
17	चिरिया	17	क्रमांक 28 रामा के घर से 56 छोटु के घर तक	
18	चिरिया	18	क्रमांक 57 दशरिया के घर से 85 नानसिंह के घर तक	
19	चिरिया	19	क्रमांक 86 लहंगीया के घर से 122 श्याणी के घर तक	
20	चिरिया	20	क्रमांक 124 रूपसिंह के घर से 556 मांगीलाल के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	तितरान्या	1	क्रमांक 1 काली के घर से 15 रमेश के घर तक	अ.जा.	1
2	तितरान्या	2	क्रमांक 20 कालु के घर से 27 भुरीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	तितरान्या	3	क्रमांक 33 प्रविण के घर से 45 सिनेर के घर तक	पि. वर्ग	0
4	तितरान्या	4	क्रमांक 46 अंतरसिंह के घर से 59 सुरमाबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	तितरान्या	5	क्रमांक 61 इसराम के घर से 73 सुधा के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	तितरान्या	6	क्रमांक 74 भावसिंह के घर से 84 कमलाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	तितरान्या	7	क्रमांक 85 बदरीबाई के घर से 92 फुलसिंह के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	तितरान्या	8	क्रमांक 93 मदन के घर से 115 गुंदाबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	तितरान्या	9	क्रमांक 118 अर्जुन के घर से 208 जानकाबाई के घर तक		
10	मांडवाभट्टी	10	क्रमांक 1 हिरलीबाई के घर से 5 राजान के घर तक		
11	मांडवाभट्टी	11	क्रमांक 6 चमारसिंह के घर से 13 प्रमिला के घर तक		
12	मांडवाभट्टी	12	क्रमांक 14 जामसिंह के घर से 21 गुरलीबाई के घर तक		
13	मांडवाभट्टी	13	क्रमांक 22 मालसिंह के घर से 278 बिल्लु के घर तक		
14	मांडवाभट्टी	14	क्रमांक 28 झेतरीबाई के घर से 34 संगीता के घर तक		
15	मांडवाभट्टी	15	क्रमांक 35 रेमा के घर से 39 किरण के घर तक		
16	मांडवाभट्टी	16	क्रमांक 40 सुभाष के घर से 45 मंजु के घर तक		
17	मांडवाभट्टी	17	क्रमांक 46 डुडीबाई के घर से 50 बबलु के घर तक		
18	मांडवाभट्टी	18	क्रमांक 51 रिछाबाई के घर से 60 वैशाली के घर तक		
19	मांडवाभट्टी	19	क्रमांक 61 पुना के घर से 70 दवलसिंह के घर तक		
20	मांडवाभट्टी	20	क्रमांक 71 गोपीबाई के घर से 114 दुवाकीबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	खारवा	1	क्रमांक 1 प्रकाश के घर से 11 सोहन के घर तक	अ.जा.	0
2	खारवा	2	क्रमांक 12 संतोष के घर से 32 पुजा के घर तक	अ.ज.जा.	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	खारवा	3	क्रमांक 33 राजाराम के घर से 51 पिन्दु के घर तक	पि. वर्ग 3
4	खारवा	4	क्रमांक 52 भारत के घर से 65 सुगनाबाई के घर तक	अनारक्षित 3
5	खारवा	5	क्रमांक 66 करसन के घर से 86 गुलाब के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	खारवा	6	क्रमांक 87 मांगीया के घर से 110 रानु के घर तक	महिला अ.ज.जा. 4
7	खारवा	7	क्रमांक 111 बावरिया के घर से 132 सुभद्रा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 2
8	खारवा	8	क्रमांक 134 हंसराज के घर से 148 रामदास के घर तक	अनारक्षित महिला 1
9	खारवा	9	क्रमांक 149 सरवण के घर से 170 गणेश के घर तक	
10	खारवा	10	क्रमांक 171 कमला के घर से 195 निशा के घर तक	
11	खारवा	11	क्रमांक 196 कालु के घर से 226 गिताबाई के घर तक	
12	खारवा	12	क्रमांक 227 गोपीबाई के घर से 296 भगतसिंह के घर तक	
13	खारवा	13	क्रमांक 297 रूकमाबाई के घर से अंत तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	कोठडा	1	क्रमांक 1 चम्पाबाई के घर से 9 नायबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	कोठडा	2	क्रमांक 10 गोडया के घर से 19 पपीताबाई के घर तक	अ.ज.जा.	16
3	कोठडा	3	क्रमांक 20 गणपत के घर से 26 गीताबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	कोठडा	4	क्रमांक 26 विश्राम के घर से 34 योगेश के घर तक	अनारक्षित	4
5	कोठडा	5	क्रमांक 35 मोजीलाल के घर से 42 उषा के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	कोठडा	6	क्रमांक 43 पदमसिंह के घर से 54 ममताबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	कोठडा	7	क्रमांक 55 मोती के घर से 65 रिंतुबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	कोठडा	8	क्रमांक 66 गिलदार के घर से 82 सुनीता के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	कोठडा	9	क्रमांक 83 वासुदेव के घर से 99 कमलाबाई के घर तक		
10	कोठडा	10	क्रमांक 100 भागीरथ के घर से 114 सुभ्रम के घर तक		
11	कोठडा	11	क्रमांक 115 छोग्या के घर से 123 कुसुमबाई के घर तक		
12	कोठडा	12	क्रमांक 124 रूपचन्द के घर से 140 अंतिम के घर तक		
13	कोठडा	13	क्रमांक 141 ननु के घर से 152 सिलुबाई के घर तक		
14	कोठडा	14	क्रमांक 153 नियाली के घर से 166 सुस्यानीबाई के घर तक		
15	कोठडा	15	क्रमांक 167 अणपत के घर से 178 अनिल के घर तक		
16	कोठडा	16	क्रमांक 179 नत्थु के घर से 190 चम्पाबाई के घर तक		
17	कोठडा	17	क्रमांक 191 रजान के घर से 199 दुलीचंद के घर तक		
18	कोठडा	18	क्रमांक 200 लुधा के घर से 208 गीताबाई के घर तक		
19	कोठडा	19	क्रमांक 209 रंगारा के घर से 223 हिनाबाई के घर तक		
20	कोठडा	20	क्रमांक 225 पारोबाई के घर से 240 ममताबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या (5)
1	कोटबेडा	1	क्रमांक 1 माल्या के घर से 17 पुजा के घर तक	अ.जा.	1
2	कोटबेडा	2	क्रमांक 18 मसरीबाई के घर से 27 वेस्ता के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	कोटबेडा	3	क्रमांक 27 सुरलीबाई के घर से 36 लक्ष्मी के घर तक	पि. वर्ग	0
4	कोटबेडा	4	क्रमांक 36 आशाराम के घर से 52 नुरलीबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	कोटबेडा	5	क्रमांक 52 गोरेलाल के घर से 70 नत्थु के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	कोटबेडा	6	क्रमांक 70 गंगलीबाई के घर से 89 मांगलाल के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	कोटबेडा	7	क्रमांक 89 सावित्री के घर से 106 टेमा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	कोटबेडा	8	क्रमांक 106 समोती के घर से 125 मंगली के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	कोटबेडा	9	क्रमांक 125 अनकीबाई के घर से 144 काशीराम के घर तक		
10	कोटबेडा	10	क्रमांक 145 सुरमीबाई के घर से 160 रूपसिंह के घर तक		
11	कोटबेडा	11	क्रमांक 160 हरसिंह के घर से 177 बट्टु के घर तक		
12	कोटबेडा	12	क्रमांक 178 भत्या के घर से 192 मिश्रीलाल के घर तक		
13	कोटबेडा	13	क्रमांक 193 लालसिंह के घर से 211 डुमसिंह के घर तक		
14	कोटबेडा	14	क्रमांक 212 बुधीबाई के घर से 226 कालु के घर तक		
15	रायलबेडा	15	क्रमांक 227 धुमा के घर से 356 सुंदरसिंह के घर तक		
16	रायलबेडा	16	क्रमांक 1 महेन्द्रसिंह के घर से 12 रायमल के घर तक		
17	रायलबेडा	17	क्रमांक 13 नुरीबाई के घर से 31 दितल्या के घर तक		
18	रायलबेडा	18	क्रमांक 34 शाहबाई के घर से 45 कालु के घर तक		
19	रायलबेडा	19	क्रमांक 46 सकुंतलाबाई के घर से 59 कालु के घर तक		
20	रायलबेडा	20	क्रमांक 60 महेन्द्रसिंह के घर से 341 भुरू के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या (5)
1	साईखेडा	1	क्रमांक 1 सजनबाई के घर से 17 रेशमबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	साईखेडा	2	क्रमांक 18 मंगु श्यामा के घर से 28/1 सूनिताबाई के घर तक	अ.ज.जा.	14
3	साईखेडा	3	क्रमांक 29 तुकाराम के घर से 44 मनिष के घर तक	पि. वर्ग	0
4	साईखेडा	4	क्रमांक 46 प्रहलाद के घर से 53/1 सुराईरण के घर तक	अनारक्षित	2
5	साईखेडा	5	क्रमांक 54 राजु के घर से 59 ज्ञानुबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	साईखेडा	6	क्रमांक 60 तारजाबाई के घर से 73 सुनिता के घर तक	महिला अ.ज.जा.	7
7	साईखेडा	7	क्रमांक 74 मंशाराम के घर से 82 सागरबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	साईखेडा	8	क्रमांक 83 रूमलिया के घर से 95 स्यानीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	साईखेडा	9	क्रमांक 96 बहादर के घर से 119 रमेश के घर तक	
10	रेहटावाडी	10	क्रमांक 7 करोटीबाई के घर से 12 बसंतीबाई के घर तक	
11	रेहटावाडी	11	क्रमांक 13क अनारसिंह के घर से 21 केंदा के घर तक	
12	रेहटावाडी	12	क्रमांक 22 रूमाल के घर से 31क राधाबाई के घर तक	
13	रेहटावाडी	13	क्रमांक 31ख रूमसिंह के घर से 40 माधुरीबाई के घर तक	
14	रेहटावाडी	14	क्रमांक 41 रीछु के घर से 45 रीयानबाई के घर तक	
15	रेहटावाडी	15	क्रमांक 46 गरासिया के घर से 55 साबु के घर तक	
16	रेहटावाडी	16	क्रमांक 56 नावलिया के घर से 86 रेखा के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मलगांव	1	क्रमांक 1 कोटबाल के घर से 11 सुशीला के घर तक	अ.जा.	1
2	मलगांव	2	क्रमांक 13 गप्फार के घर से 22क तानुबाई के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	मलगांव	3	क्रमांक 23 माखला के घर से 32 आशीराम के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मलगांव	4	क्रमांक 33 वेरसिंह के घर से 38ख छमकारिया के घर तक	अनारक्षित	0
5	मलगांव	5	क्रमांक 39 वनसिंह के घर से 45 हीका के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	मलगांव	6	क्रमांक 46 झलीबाई के घर से 52 कविता के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	मलगांव	7	क्रमांक 55 नरसिंह के घर से 73 कालू के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मलगांव	8	क्रमांक 74 नाहरसिंह के घर से 87 सीमा के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	मलगांव	9	क्रमांक 88 गायत्री के घर से 103 नुरू के घर तक		
10	मलगांव	10	क्रमांक 105 तेरसिंह के घर से 123 गुमान के घर तक		
11	मलगांव	11	क्रमांक 124 भावसिंग के घर से 137 मडिया के घर तक		
12	मलगांव	12	क्रमांक 138 कालू के घर से 152 जराटा के घर तक		
13	मलगांव	13	क्रमांक 158 रूमसिंह के घर से 173 राधाबाई के घर तक		
14	मलगांव	14	क्रमांक 174 नाथू के घर से 186 मंजूबाई के घर तक		
15	मलगांव	15	क्रमांक 187 अनारसिंह के घर से 195 संगीता के घर तक		
16	मलगांव	16	क्रमांक 196 रायजाबाई के घर से 206 राधा के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	छेंडिया	1	क्रमांक 1 सोनीबाई के घर से 21 नारायण के घर तक	अ.जा.	0
2	छेंडिया	2	क्रमांक 22 सबल्या के घर से 34 भगवान के घर तक	अ.ज.जा.	8
3	छेंडिया	3	क्रमांक 35 राल्या के घर से 45 रूखडु के घर तक	पि. वर्ग	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	छेंडिया	4	क्रमांक 46 लालसिंह के घर से 59 गेंदाबाई के घर तक	अनारक्षित 3
5	छेंडिया	5	क्रमांक 60 नवल के घर से 71 राजेन्द्र के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	छेंडिया	6	क्रमांक 72 नाहर के घर से 85 दयाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा. 4
7	छेंडिया	7	क्रमांक 86 रूखमणी के घर से 97 बनूबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 1
8	छेंडिया	8	क्रमांक 98 भुरे के घर से 108 भुरीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला 2
9	छेंडिया	9	क्रमांक 109 फुलकुवरबाई के घर से 123 लक्ष्मण के घर तक	
10	छेंडिया	10	क्रमांक 124 राजय के घर से 140 गुलाब के घर तक	
11	छेंडिया	11	क्रमांक 141 हिरला के घर से 150 सीताबाई के घर तक	
12	गायबेडा	12	क्रमांक 1 रूपाबाई के घर से 33 नंदराम के घर तक	
13	गायबेडा	13	क्रमांक 34 आत्माराम के घर से 126 ठेकेदार के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	कोठा बुजर्ग	1	क्रमांक 1 सालम के घर से 7 सुभान के घर तक	अ.जा.	0
2	कोठा बुजर्ग	2	क्रमांक 8 सुकलीबाई के घर से 20 अंतिम के घर तक	अ.ज.जा.	16
3	कोठा बुजर्ग	3	क्रमांक 21 भानसिंह के घर से 29 लता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	कोठा बुजर्ग	4	क्रमांक 30 बारका के घर से 37 गुंदलीबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	कोठा बुजर्ग	5	क्रमांक 38 डुरीबाई के घर से 46 दरारीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	कोठा बुजर्ग	6	क्रमांक 47 नवलसिंह के घर से 56 प्यारसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	कोठा बुजर्ग	7	क्रमांक 57 सहंगुबाई के घर से 62 विजय के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	कोठा बुजर्ग	8	क्रमांक 63 बालसिंह के घर से 69 भुरलीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	कोठा बुजर्ग	9	क्रमांक 70 रेमसिंह के घर से 81 उमाबाई के घर तक		
10	कोठा बुजर्ग	10	क्रमांक 83 खुमसिंह के घर से 94 नायजा के घर तक		
11	कोठा बुजर्ग	11	क्रमांक 95 चोदिया के घर से 135 सुंदलीबाई के घर तक		
12	कोठा खुर्द	12	क्रमांक 100 राजाराम के घर से 109 रेवलसिंह के घर तक		
13	कोठा खुर्द	13	क्रमांक 110 खुमसिंह के घर से 123 बनाबाई के घर तक		
14	कोठा खुर्द	14	क्रमांक 124 हिरलाबाई के घर से 133 संगीता के घर तक		
15	कोठा खुर्द	15	क्रमांक 134 वेरला के घर से 140 जगदीश के घर तक		
16	कोठा खुर्द	16	क्रमांक 141 हुसल्या के घर से 160 मिश्रीबाई के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मिटावल	1	क्रमांक 1 स्वरूपबाई के घर से 17 हरकचन्द के घर तक	अ.जा.	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	मिटावल	2	क्रमांक 18 मंशाराम के घर से 29 सारिका के घर तक	अ.ज.जा. 9
3	मिटावल	3	क्रमांक 30 लोभीलाल के घर से 51 नगेन्द्र के घर तक	पि. वर्ग 3
4	मिटावल	4	क्रमांक 52 आत्माराम के घर से 65 भावना के घर तक	अनारक्षित 5
5	मिटावल	5	क्रमांक 66 गुलाबचन्द के घर से 78 हेमलता के घर तक	महिला अ.जा. 1
6	मिटावल	6	क्रमांक 79 कृष्णाबाई के घर से 97 रवि के घर तक	महिला अ.ज.जा. 5
7	मिटावल	7	क्रमांक 98 मगनबाई के घर से 119 रूपईबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 2
8	मिटावल	8	क्रमांक 121 नन्नुलाल के घर से 136 वासुदेव के घर तक	अनारक्षित महिला 2
9	मिटावल	9	क्रमांक 139 मुलचन्द के घर से 158 मनिष के घर तक	
10	मिटावल	10	क्रमांक 160 हरि के घर से 173 करूणबाई के घर तक	
11	मिटावल	11	क्रमांक 174 छगन के घर से 193 मोहन के घर तक	
12	मिटावल	12	क्रमांक 196 राधेश्याम के घर से 212क गिरिराज के घर तक	
13	मिटावल	13	क्रमांक 216 जगदीशचन्द्र के घर से 230 अशोक के घर तक	
14	मिटावल	14	क्रमांक 234 परसराम के घर से 243 ज्योतिबाई के घर तक	
15	मिटावल	15	क्रमांक 244 गोपाल के घर से 266 जितेन्द्र के घर तक	
16	मिटावल	16	क्रमांक 267 लक्ष्मण के घर से 282ख राधेश्याम के घर तक	
17	मिटावल	17	क्रमांक 283 शांताबाई के घर से 306 राधेश्याम के घर तक	
18	मिटावल	18	क्रमांक 308 दरियाव के घर से 323 आशुतोष के घर तक	
19	मिटावल	19	क्रमांक 234 चम्पालाल के घर से 349 उमाबाई के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	भावसिहपुरा	1	क्रमांक 1 भुरू के घर से 11 मुकेश के घर तक	अ.जा.	3
2	भावसिहपुरा	2	क्रमांक 12 विट्ठल के घर से 25 रामेश्वर के घर तक	अ.ज.जा.	12
3	भावसिहपुरा	3	क्रमांक 26 हरि के घर से 40 कैलाश के घर तक	पि. वर्ग	0
4	भावसिहपुरा	4	क्रमांक 45 सुकराम के घर से 54 लक्ष्मण के घर तक	अनारक्षित	4
5	भावसिहपुरा	5	क्रमांक 55 सुपडू के घर से 72 प्रताप के घर तक	महिला अ.जा.	2
6	भावसिहपुरा	6	क्रमांक 73 नान्या के घर से 86 कन्हैया के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	भावसिहपुरा	7	क्रमांक 87 चन्दु के घर से 105 राजु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	भावसिहपुरा	8	क्रमांक 106 रूखडु के घर से 124 फुलचन्द के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	भावसिहपुरा	9	क्रमांक 125 सरजु के घर से 137 लालचंद के घर तक		
10	भावसिहपुरा	10	क्रमांक 138 बावरा के घर से 152 नथीबाई के घर तक		
11	भावसिहपुरा	11	क्रमांक 153 गीताबाई के घर से 164 बिहारी के घर तक		
12	भावसिहपुरा	12	क्रमांक 165 गोविन्द के घर से 194 दिनेश के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	नीमखेडा	13	क्रमांक 1 छितर के घर से 14 फुलचन्द के घर तक	
14	नीमखेडा	14	क्रमांक 15 हरि के घर से 25 चम्पालाल के घर तक	
15	नीमखेडा	15	क्रमांक 26 कैलाश के घर से 44 सुपडू के घर तक	
16	नीमखेडा	16	क्रमांक 45 गन्नु के घर से 60 चम्पालाल के घर तक	
17	नीमखेडा	17	क्रमांक 61 लक्ष्मण के घर से 71 गंगाबाई के घर तक	
18	नीमखेडा	18	क्रमांक 72 भागीरथ के घर से 89 अजुदया के घर तक	
19	दड फाल्या	19	क्रमांक 1 बिशन के घर से 104 कनसिंह के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बुन्दा	1	क्रमांक 1 महारिया के घर से 15 केनीबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	बुन्दा	2	क्रमांक 16 लुहारसिंह के घर से 25 भायली के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	बुन्दा	3	क्रमांक 27 रमाबाई के घर से 38 सिनाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बुन्दा	4	क्रमांक 38ख सोभागसिंह के घर से 47 सेकडी के घर तक	अनारक्षित	0
5	बुन्दा	5	क्रमांक 49 मिरखां के घर से 65 भक्ता के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बुन्दा	6	क्रमांक 66 भंगी के घर से 85 हिरालाल के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	बुन्दा	7	क्रमांक 86 राहबाई के घर से 94क हाबिया के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	सुलाबेडी	8	क्रमांक 1 सुंदरीबाई के घर से 14 छगन के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	सुलाबेडी	9	क्रमांक 15 वेरलीबाई के घर से 28 डोंगरसिंह के घर तक		
10	सुलाबेडी	10	क्रमांक 29 रूलजी के घर से 52 चांदखां के घर तक		
11	सुलाबेडी	11	क्रमांक 54 सलिम के घर से 66 जंगु के घर तक		
12	सुलाबेडी	12	क्रमांक 67 सब्बीर के घर से 79 नानसिंह के घर तक		
13	साकड	13	क्रमांक 1 गुरलीबाई के घर से 17 देवेसिंह के घर तक		
14	साकड	14	क्रमांक 18 भलसिंह के घर से 37 मडिया के घर तक		
15	साकड	15	क्रमांक 41 रूमजी के घर से 59 किशन के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	साका	1	क्रमांक 1 तुलसीबाई के घर से 15 जामयबाई के घर तक	अ.जा.	1
2	साका	2	क्रमांक 16 सागरबाई के घर से 38 छतर के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	साका	3	क्रमांक 39 सुंदरबाई के घर से 57 रामसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	साका	4	क्रमांक 58 मेकाल के घर से 71 भिमाबाई के घर तक	अनारक्षित	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	साका	5	क्रमांक 72 हिरमल के घर से 99 ज्ञानसिंह के घर तक	महिला अ.जा. 1
6	बागदरी	6	क्रमांक 1 कोटवाल के घर से 7 भावसिंह के घर तक	महिला अ.ज.जा. 9
7	बागदरी	7	क्रमांक 8 झबरसिंह के घर से 20 शर्मिबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	बागदरी	8	क्रमांक 21 रेमल के घर से 35 हिरमल के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	बागदरी	9	क्रमांक 36 भिकला के घर से 49 नहारसिंह के घर तक	
10	बागदरी	10	क्रमांक 50 गणस्या के घर से 61 डरावर के घर तक	
11	मुरम्या	11	क्रमांक 1 नंदकिशोर के घर से 13 राकेश के घर तक	
12	मुरम्या	12	क्रमांक 14 कैलाश के घर से 26 दोगली के घर तक	
13	मुरम्या	13	क्रमांक 27 सरजन के घर से 36 जुगी के घर तक	
14	मुरम्या	14	क्रमांक 37 रानु के घर से 47 नवलसिंह के घर तक	
15	मुरम्या	15	क्रमांक 48 रायसिंह के घर से 57 वेस्ता के घर तक	
16	मुरम्या	16	क्रमांक 58 मिताराम के घर से 68 हिरली के घर तक	
17	मुरम्या	17	क्रमांक 69 घुसाई के घर से 76 रायसिंह के घर तक	
18	पालदा	18	क्रमांक 1 भुरसिंह के घर से 15 जसवंत के घर तक	
19	पालदा	19	क्रमांक 16 बिकरम के घर से 37 पहाडसिंह के घर तक	
20	पालदा	20	क्रमांक 38 सिंदा के घर से 50 गोखडिया के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	गवला	1	क्रमांक 1 मिठीबाई के घर से 10 ताराचन्द के घर तक	अ.जा.	1
2	गवला	2	क्रमांक 11 पन्नालाल के घर से 20 रमेश के घर तक	अ.ज.जा.	7
3	गवला	3	क्रमांक 21 बिनाबाई के घर से 36 लक्ष्मण के घर तक	पि. वर्ग	2
4	गवला	4	क्रमांक 37 मोहन के घर से 39 शंकर के घर तक	अनारक्षित	4
5	गवला	5	क्रमांक 40 सारजाबाई के घर से 48 लक्ष्मण के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	गवला	6	क्रमांक 40 भोलु के घर से 63 कडवा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	4
7	गवला	7	क्रमांक 63 मांगीलाल के घर से 77 अमरा के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	गवला	8	क्रमांक 78क प्रेमलाल के घर से 86ग देवराम के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	गवला	9	क्रमांक 87 समोतिबाई के घर से 98 अनोखी के घर तक		
10	गवला	10	क्रमांक 100 श्यामाबाई के घर से 108 राधेश्याम के घर तक		
11	गवला	11	क्रमांक 109 सांताबाई के घर से 123क रेवसिंह के घर तक		
12	गवला	12	क्रमांक 123ख दावनीबाई के घर से 136 मुन्ना के घर तक		
13	खुश्याला	13	क्रमांक 1 केलाबाई के घर से 9क फुलसिंह के घर तक		
14	खुश्याला	14	क्रमांक 10 गुलाबसिंह के घर से 25 बलिराम के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बडी	1	क्रमांक 1 रिछु के घर से 24 रूमसिंह के घर तक	अ.जा.	1
2	बडी	2	क्रमांक 25 देविसिंह के घर से 38 कस्तुरी के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	बडी	3	क्रमांक 39 रूखमाबाई के घर से 57 कालीबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बडी	4	क्रमांक 58 गंगाराम के घर से 77 बंदरिया के घर तक	अनारक्षित	1
5	बडी	5	क्रमांक 76 भुवानसिंह के घर से 96 हसिनाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	बडी	6	क्रमांक 97 मिशाबाई के घर से 118 रेहाना बी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	बडी	7	क्रमांक 119 रब्बा के घर से 147 खाडीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बडी	8	क्रमांक 148 मांगीलाल के घर से 162 दयाराम के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	बडी	9	क्रमांक 163 सोनार के घर से 180 झुमाबाई के घर तक		
10	बडी	10	क्रमांक 180 क खाज्या के घर से 194 ख रमबाई के घर तक		
11	बडी	11	क्रमांक 1 सायरसिंह के घर से 205 चनीबाई के घर तक		
12	बडी	12	क्रमांक 9 जवानसिंह के घर से 37 नुरा के घर तक		
13	बडी	13	क्रमांक 32 मडिया के घर से 55 हिरली के घर तक		
14	बडी	14	क्रमांक 56 रतन के घर से 70 रूखमणी के घर तक		
15	पिछोडिया	15	क्रमांक 71 भुवानसिंह के घर से 83 भुरेसिंह के घर तक		
16	पिछोडिया	16	क्रमांक 84 गुलाब के घर से 93 सुनिल के घर तक		
17	पिछोडिया	17	क्रमांक 97 नवसीबाई के घर से 142 क सिरवटीबाई के घर तक		
18	पिछोडिया	18	क्रमांक 1 जितबाई के घर से 12 डोंगरसिंह के घर तक		
19	पिछोडिया	19	क्रमांक 14 सुरसिंह के घर से 32 पिडु के घर तक		
20	पिछोडिया	20	क्रमांक 33 मांजिया के घर से 83 तेरसिंह के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बोरवाल	1	क्रमांक 1 रिछु के घर से 24 रूमसिंह के घर तक	अ.जा.	1
2	बोरवाल	2	क्रमांक 25 देविसिंह के घर से 38 कस्तुरी के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	बोरवाल	3	क्रमांक 39 रूखमाबाई के घर से 57 कालीबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बोरवाल	4	क्रमांक 58 गंगाराम के घर से 77 बंदरिया के घर तक	अनारक्षित	1
5	बोरवाल	5	क्रमांक 76 भुवानसिंह के घर से 96 हसिनाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बोरवाल	6	क्रमांक 97 मिशाबाई के घर से 118 रेहाना बी के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	बोरवाल	7	क्रमांक 119 रब्बा के घर से 147 खाडीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बोरवाल	8	क्रमांक 148 मांगीलाल के घर से 162 दयाराम के घर तक	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	बोरवाल	9	क्रमांक 163 सोनार के घर से 180 झुमाबाई के घर तक	
10	बोरवाल	10	क्रमांक 180 क खाज्या के घर से 194 ख रमबाई के घर तक	
11	बोरवाल	11	क्रमांक 1 सायरसिंह के घर से 205 चनीबाई के घर तक	
12	बोरवाल	12	क्रमांक 9 जवानसिंह के घर से 37 नुरा के घर तक	
13	बोरवाल	13	क्रमांक 32 मडिया के घर से 55 हिरली के घर तक	
14	बोरवाल	14	क्रमांक 56 रतन के घर से 70 रूखमणी के घर तक	
15	बोरवाल	15	क्रमांक 71 भुवानसिंह के घर से 83 भुरेसिंह के घर तक	
16	बोरवाल	16	क्रमांक 84 गुलाब के घर से 93 सुनिल के घर तक	
17	बोरवाल	17	क्रमांक 97 नवसीबाई के घर से 142 क सिरवटीबाई के घर तक	
18	बोरवाल	18	क्रमांक 1 जितबाई के घर से 12 डोंगरसिंह के घर तक	
19	बोरवाल	19	क्रमांक 14 सुरसिंह के घर से 32 पिडु के घर तक	
20	बोरवाल	20	क्रमांक 33 मांजिया के घर से 83 तेरसिंह के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	रून्दा	1	क्रमांक 1 सनाबाई के घर से 20 धनराज के घर तक	अ.जा.	1
2	रून्दा	2	क्रमांक 21 शोभाराम के घर से 46 झगडिया के घर तक	अ.ज.जा.	11
3	रून्दा	3	क्रमांक 47 कालीबाई के घर से 47ग रायकु के घर तक	पि. वर्ग	0
4	रून्दा	4	क्रमांक 48 वेरसिंह के घर से 68 सकाराम के घर तक	अनारक्षित	0
5	रून्दा	5	क्रमांक 69 अनसिंह के घर से 83 मिश्रीलाल के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	रून्दा	6	क्रमांक 84क रिछु के घर से 101 हिरलीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	रून्दा	7	क्रमांक 104 टेगडिया के घर से 122 केंनवल के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	रून्दा	8	क्रमांक 123 रेवलसिंह के घर से 135 ज्ञानसिंह के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	रून्दा	9	क्रमांक 136 टेमरसिंह के घर से 140 भाचरिया के घर तक		
10	रून्दा	10	क्रमांक 141 चमार के घर से 156 दलसहि के घर तक		
11	रून्दा	11	क्रमांक 157 फुलसिंह के घर से 173 नानसिंह के घर तक		
12	रून्दा	12	क्रमांक 173 कुवरसिंह के घर से 1067 नासीराम के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	रातलीपुरा	1	क्रमांक 1 गणस्या के घर से 17 रेगा के घर तक	अ.जा.	1
2	रातलीपुरा	2	क्रमांक 18 इंदरसिंह के घर से 34 चतरू के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	रातलीपुरा	3	क्रमांक 35 अनारसिंह के घर से 49 महेन्द्र के घर तक	पि. वर्ग	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	रातलीपुरा	4	क्रमांक 50 भिका के घर से 68 रूपसिंह के घर तक	अनारक्षित 1
5	रातलीपुरा	5	क्रमांक 69 फुंदलीबाई के घर से 99 इंदरसिंह के घर तक	महिला अ.जा. 1
6	रातलीपुरा	6	क्रमांक 100 कालू के घर से 132 दशरथ के घर तक	महिला अ.ज.जा. 9
7	रातलीपुरा	7	क्रमांक 133 नाथु के घर से 150 फुलसिंह के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	रातलीपुरा	8	क्रमांक 151 गुला के घर से 183 भारता के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	रातलीपुरा	9	क्रमांक 184 बाल्या के घर से 202 भुरला के घर तक	
10	रातलीपुरा	10	क्रमांक 203 मालसिंह के घर से 294 महारिया के घर तक	
11	रातलीपुरा	11	क्रमांक 295 आलु के घर से 367 रायसिंह के घर तक	
12	रातलीपुरा	12	क्रमांक 1 सिकदार के घर से 59 अमनाबाई के घर तक	
	(भोज्यापठार)			
13	रातलीपुरा	13	क्रमांक 60 भारता के घर से 101 सुधिर के घर तक	
	(भोज्यापठार)			
14	रातलीपुरा	14	क्रमांक 102 जामा के घर से 167 आपसिंह के घर तक	
	(भोज्यापठार)			
15	निहाली	15	क्रमांक 1 छतरसिंह के घर से 12 ध्यानसिंह के घर तक	
16	निहाली	16	क्रमांक 14 सायबीबाई के घर से 31 सुकलाल के घर तक	
17	निहाली	17	क्रमांक 32 चैनसिंह के घर से 49 बजारिया के घर तक	
18	निहाली	18	क्रमांक 50 प्रेमसिंह के घर से 64 रजलीबाई के घर तक	
19	निहाली	19	क्रमांक 65 रेमाबाई के घर से 79 कनीबाई के घर तक	
20	निहाली	20	क्रमांक 80 अमरसिंह के घर से 97 तेरसिंह के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	सपाटिया	1	क्रमांक 1 महेश के घर से 10 ध्यानसिंह के घर तक	अ.जा.	2
2	सपाटिया	2	क्रमांक 11 टेगरिया के घर से 23 मंजुबाई के घर तक	अ.ज.जा.	17
3	सपाटिया	3	क्रमांक 24 सुरिया के घर से 34 हमाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	सपाटिया	4	क्रमांक 35 बजारिया के घर से 46 ममताबाई के घर तक	अनारक्षित	1
5	सपाटिया	5	क्रमांक 47 पिंजारीबाई के घर से 56 झिन्या के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	सपाटिया	6	क्रमांक 57 रूमालसिंह के घर से 68 वसली के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	सपाटिया	7	क्रमांक 70 सरदार के घर से 78 राजेश के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	सपाटिया	8	क्रमांक 79 सुरपाल के घर से 90 कमीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	सपाटिया	9	क्रमांक 91 अंग्रेज के घर से 104 रविना के घर तक		
10	सपाटिया	10	क्रमांक 105 जेकली के घर से 118 राधाबाई के घर तक		
11	सपाटिया	11	क्रमांक 120 नानसिंह के घर से 132 समरा के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	सपाटिया	12	क्रमांक 133 मिला के घर से 143 अमासी के घर तक	
13	सपाटिया	13	क्रमांक 145 सरदार के घर से 153 झिंगली के घर तक	
14	सपाटिया	14	क्रमांक 154 सरदार के घर से 162 ज्ञानीबाई के घर तक	
15	सपाटिया	15	क्रमांक 163 ज्ञानसिंह के घर से 174 बिन्दाबाई के घर तक	
16	सपाटिया	16	क्रमांक 175 नहारसिंह के घर से 184 मेथलीबाई के घर तक	
17	सपाटिया	17	क्रमांक 185 वाहरिया के घर से 192 भुरली के घर तक	
18	सपाटिया	18	क्रमांक 194 भीकला के घर से 198 बाडिया के घर तक	
19	सपाटिया	19	क्रमांक 200 रूमालसिंह के घर से 208 मनीषा के घर तक	
20	सपाटिया	20	क्रमांक 209 लालसिंह के घर से 232 अनिता के घर तक.	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	लखापुर	1	क्रमांक 1 दिनेश के घर से 90 अर्जुन के घर तक	अ.जा.	0
2	लखापुर	2	क्रमांक 91 नाजोबाई के घर से 181 पार्वतीबाई के घर तक	अ.ज.जा.	9
3	लखापुर	3	क्रमांक 182 दशरथ के घर से 271 रणिया के घर तक	पि. वर्ग	4
4	लखापुर	4	क्रमांक 272 प्रताप के घर से 318 अनोप के घर तक	अनारक्षित	5
5	लखापुर	5	क्रमांक 319 भंगीबाई के घर से 432 सुलकीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	लखापुर	6	क्रमांक 433 भावसिंह के घर से 543 ख्याली के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	लखापुर	7	क्रमांक 544 दयाराम के घर से 625 चमकदेव के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	लखापुर	8	क्रमांक 626 हेदरा के घर से 696 रूखमणि के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	लखापुर	9	क्रमांक 697 छबीबाई के घर से 778 भारती के घर तक		
10	लखापुर	10	क्रमांक 779 तोतिबाई के घर से 877 गायत्री के घर तक		
11	घोडी खुर्द	11	क्रमांक 1 ज्ञानसिंह के घर से 61 सविता के घर तक		
12	घोडी खुर्द	12	क्रमांक 62 नबीबाई के घर से 159 रूखडिया के घर तक		
13	घोडी खुर्द	13	क्रमांक 160 थानसिंह के घर से 225 पंकी के घर तक		
14	घोडी खुर्द	14	क्रमांक 226 अनार के घर से 332 सुशीला के घर तक		
15	घोडी खुर्द	15	क्रमांक 333 इगराम के घर से 443 आशाराम के घर तक		
16	घोडी खुर्द	16	क्रमांक 444 बोबडीबाई के घर से 530 बिंदीबाई के घर तक		
17	घोडी खुर्द	17	क्रमांक 531 मालु के घर से 624 रिछडीबाई के घर तक		
18	घोडी खुर्द	18	क्रमांक 625 कालीबाई के घर से 18 चैनसिंह के घर तक.		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या (5)
1	काकोडा	1	क्रमांक 1 शोभाराम के घर से 22 सायरीबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	काकोडा	2	क्रमांक 23 तोताराम के के घर से 37 रिंगु के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	काकोडा	3	क्रमांक 39 सीताराम के घर से 51 मदरिया के घर तक	पि. वर्ग	0
4	काकोडा	4	क्रमांक 52 बिनाबाई के घर से 63 जिंदर के घर तक	अनारक्षित	1
5	काकोडा	5	क्रमांक 64 अमास्या के घर से 74 राहुल के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	काकोडा	6	क्रमांक 76 हसली के घर से 90 राधाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	काकोडा	7	क्रमांक 93 केशरसिंह के घर से 116 ममता के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	काकोडा	8	क्रमांक 119 रमेश के घर से 134 ममता के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	काकोडा	9	क्रमांक 136 रावरीबाई के घर से 150 दुर्गा के घर तक		
10	काकोडा	10	क्रमांक 151 नानल्या के घर से 165 शोभाराम के घर तक		
11	काकोडा	11	क्रमांक 166 सुकलाल के घर से 179 ग्यानीबाई के घर तक		
12	काकोडा	12	क्रमांक 180 रूखली के घर से 190 मेथलीबाई के घर तक		
13	काकोडा	13	क्रमांक 191 कालु के घर से 205 थावली के घर तक		
14	काकोडा	14	क्रमांक 206 जवानसिंह के घर से 219 रंजीत के घर तक		
15	काकोडा	15	क्रमांक 220 मांगल्या के घर से 777 ठलीबाई के घर तक		
16	खारियामाल	16	क्रमांक 2 जितेन्द्र के घर से 15 संतुबाई के घर तक		
17	खारियामाल	17	क्रमांक 18 रेवलसिंह के घर से 35 सोनीबाई के घर तक		
18	खारियामाल	18	क्रमांक 36 नानला के घर से 48 सोकीबाई के घर तक		
19	खारियामाल	19	क्रमांक 49 रेंजला के घर से 77 चैनाबाई के घर तक		
20	खारियामाल	20	क्रमांक 78 मोहनसिंह के घर से 162 संतोष के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या (5)
1	मोरवा	1	क्रमांक 1 नत्थु के घर से 22 गोपाल के घर तक	अ.जा.	0
2	मोरवा	2	क्रमांक 23 मांगीलाल के घर से 41 भीमा के घर तक	अ.ज.जा.	17
3	मोरवा	3	क्रमांक 42 रामसिंह के घर से 564 झामु के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मोरवा	4	क्रमांक 55 कालु के घर से 70 लाडकीबाई के घर तक	अनारक्षित	3
5	मोरवा	5	क्रमांक 71 लक्ष्मण के घर से 85 ममदिया के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	मोरवा	6	क्रमांक 86 झबरीबाई के घर से 101 सायदीबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	मोरवा	7	क्रमांक 102 रामसिंह के घर से 114 कालु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मोरवा	8	क्रमांक 115 कुसमीबाई के घर से 130 दलसिंह के घर तक	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	मोहद	9	क्रमांक 1 नाकु के घर से 20 मथुराला के घर तक	
10	मोहद	10	क्रमांक 21 कन्हैया के घर से 44 दयालु के घर तक	
11	मोहद	11	क्रमांक 45 श्यामलाल के घर से 61 बाघसिंह के घर तक	
12	मोहद, संगवाडा, कमोदवाड़ा	12	क्रमांक 62 सुन्दरबाई के घर से 10 आशीष के घर तक	
13	—''—	13	क्रमांक 1 फुलचन्द के घर से 19 धनसिंह के घर तक	
14	—''—	14	क्रमांक 20 कावेरीबाई के घर से 36क लखन के घर तक	
15	—''—	15	क्रमांक 37 राधेश्याम के घर से 59क संतोष के घर तक	
16	—''—	16	क्रमांक 60 किशोर के घर से 71 नहाली के घर तक	
17	—''—	17	क्रमांक 72 रायसिंह के घर से 87 चेताराम के घर तक	
18	—''—	18	क्रमांक 88 कालु के घर से 108 एडु के घर तक	
19	—''—	19	क्रमांक 109 सीताराम के घर से 128 अनोखीलाल घर तक	
20	—''—	20	क्रमांक 129 शांतिलाल के घर से 146 सीताराम के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	राजपुरा	1	क्रमांक 1 भावसिंह के घर से 14 दुर्गाबाई के घर तक	अ.जा.	0
2	राजपुरा	2	क्रमांक 16 कैलाश के घर से 28 कालु के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	राजपुरा	3	क्रमांक 29 शिवराम के घर से 41 मेनाबाई के घर तक	पि. वर्ग	0
4	राजपुरा	4	क्रमांक 43 राजलीबाई के घर से 53 रेगु के घर तक	अनारक्षित	0
5	राजपुरा	5	क्रमांक 54 अमरसिंह के घर से 64 ग्यारसीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	राजपुरा	6	क्रमांक 65 मांग्या के घर से 72 ईडा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	राजपुरा	7	क्रमांक 73 मदनसिंह के घर से 87 सकरी के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	राजपुरा	8	क्रमांक 88 ग्यानसिंह के घर से 95 रानु के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	राजपुरा	9	क्रमांक 96 सोभानसिंह के घर से 107 दुजीबाई के घर तक		
10	राजपुरा	10	क्रमांक 108 झलुबाई के घर से 123 सुबला के घर तक		
11	राजपुरा	11	क्रमांक 124 झुमला के घर से 135 खिमला के घर तक		
12	राजपुरा	12	क्रमांक 136 धनसिंह के घर से 147 लाडकी के घर तक		
13	मालीपुरा	13	क्रमांक 1 इंंदरसिंह के घर से 16 ज्योति के घर तक		
14	मालीपुरा	14	क्रमांक 17 फजीत के घर से 30 मोना के घर तक		
15	मालीपुरा	15	क्रमांक 31 देडू के घर से 43 राधा के घर तक		
16	मालीपुरा	16	क्रमांक 44 बाला के घर से 57 निरली के घर तक		
17	मालीपुरा	17	क्रमांक 58 ताराचन्द के घर से 67 जवानसिंह के घर तक		
18	मालीपुरा	18	क्रमांक 68 प्यारसिंह के घर से अंत तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	जामली	1	क्रमांक 1 रूजीया के घर से 14 पठान के घर तक	अ.जा.	0
2	जामली	2	क्रमांक 15 नानसिंह के घर से 23 जिरमल के घर तक	अ.ज.जा.	16
3	जामली	3	क्रमांक 24 जायमल के घर से 36 रिंगन्या के घर तक	पि. वर्ग	0
4	जामली	4	क्रमांक 37 लालबाई के घर से 47 गाडिया के घर तक	अनारक्षित	2
5	जामली	5	क्रमांक 48 तुकली के घर से 55 भागडा के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	जामली	6	क्रमांक 56 पिंजारी के घर से 66 पेंदा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	जामली	7	क्रमांक 67 छमली के घर से 76क सुरली के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	जामली	8	क्रमांक 77 तेरसिंह के घर से 88 पठान के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	लोहरिया	9	क्रमांक 1 गोपी के घर से 11 खुमान के घर तक		
10	लोहरिया	10	क्रमांक 12 गुलाबीबाई के घर से 23 फत्तु के घर तक		
11	लोहरिया	11	क्रमांक 24 कालु के घर से 33 सहांग्या के घर तक		
12	लोहरिया	12	क्रमांक 34 गमाबाई के घर से 44क आशा के घर तक		
13	लोहरिया	13	क्रमांक 45 चवदिया के घर से 56 चमाडिया के घर तक		
14	लोहरिया	14	क्रमांक 57 भायसिंह के घर से 63 छतरसिंह के घर तक		
15	लोहरिया	15	क्रमांक 64 दुरसिंह के घर से 70 गेंदलीबाई के घर तक		
16	लोहरिया	16	क्रमांक 71 भायराम के घर से 162 बसंत के घर तक		
17	अगास्या	17	क्रमांक 1 हारबाई के घर से 11 रायसिंह के घर तक		
18	अगास्या	18	क्रमांक 12 सुगडिया के घर से 23 कालु के घर तक		
19	अगास्या	19	क्रमांक 24 डक्टरिया के घर से 71 मंशाराम के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	गाडग्याआम	1	क्रमांक 1 लालसिंह के घर से 13 सुनिता के घर तक	अ.जा.	3
2	गाडग्याआम	2	क्रमांक 9 दुरसिंह के घर से 158क गणेश के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	गाडग्याआम	3	क्रमांक 20 पठान के घर से 144 चन्द्रसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	गाडग्याआम	4	क्रमांक 45 गुलाब के घर से 69 मालसिंह के घर तक	अनारक्षित	1
5	गाडग्याआम	5	क्रमांक 70 ग्यारसिया के घर से 86 थावरिया के घर तक	महिला अ.जा.	2
6	गाडग्याआम	6	क्रमांक 69 थावलीबाई के घर से 105 राजु के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	गाडग्याआम	7	क्रमांक 105 झुमलीबाई के घर से 144 चंदरसिंह के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	गाडग्याआम	8	क्रमांक 55 कानु के घर से 121 रूमज्या के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	गाडग्याआम	9	क्रमांक 70 सुरुसिंह के घर से 95 छिरिया के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	मेहत्याखेडी	10	क्रमांक 23 पांडिया के घर से 36 जालमसिंह के घर तक	
11	मेहत्याखेडी	11	क्रमांक 22 दशरथ के घर से 40 मुरली के घर तक	
12	मेहत्याखेडी	12	क्रमांक 9 लवन्याबाई के घर से 38 सजनी के घर तक	
13	मेहत्याखेडी	13	क्रमांक 12 गजरीबाई के घर से 20 नंदली के घर तक	
14	मेहत्याखेडी	14	क्रमांक 1 गंगाराम के घर से 21 केदम के घर तक	
15	छेंडियाअंजन	15	क्रमांक 1 मनोहर के घर से 6 भांगडीबाई के घर तक	
16	छेंडियाअंजन	16	क्रमांक 7 नरसिंह के घर से 17 रमेश के घर तक	
17	छेंडियाअंजन	17	क्रमांक 18 चम्पालाल के घर से 29 रिछु के घर तक	
18	छेंडियाअंजन	18	क्रमांक 30 गुगा के घर से 37 गुडडी के घर तक	
19	छेंडियाअंजन	19	क्रमांक 38 जुवानसिंह के घर से 48 वेली के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	मांडवी	1	क्रमांक 1 जामसिंह के घर से 97 गेंदाबाई के घर तक	अ.जा.	1
2	मांडवी	2	क्रमांक 98 रघुनाथा के घर से 465 कमल के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	मांडवी	3	क्रमांक 26 संतुबाई के घर से 768 धनसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	मांडवी	4	क्रमांक 52 चिमन के घर से 449 गोपाल के घर तक	अनारक्षित	0
5	बोंदरान्या	5	क्रमांक 1 कालीबाई के घर से 1107 सेवतीबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बोंदरान्या	6	क्रमांक 21 सोम्या के घर से 1111 जितेन्द्र के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	बोंदरान्या	7	क्रमांक 43 हवसीलाल के घर से 1112 छाया के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बोंदरान्या	8	क्रमांक 68 डेडू के घर से 1115 दिपक के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	बोंदरान्या	9	क्रमांक 88 नहालीबाई के घर से 1124 बारकीबाई के घर तक		
10	बोंदरान्या	10	क्रमांक 106 खुमान के घर से 861 राधाबाई के घर तक		
11	बोंदरान्या	11	क्रमांक 121 हरसिंह के घर से 926 रिना के घर तक		
12	बोंदरान्या	12	क्रमांक 135 कालीबाई के घर से 1133 गेंदलीबाई के घर तक		
13	बोंदरान्या	13	क्रमांक 8 नासरीबाई के घर से 1135 पसरीबाई के घर तक		
14	बोंदरान्या	14	क्रमांक 165 लालसिंह के घर से 210 भुना के घर तक		
15	बोंदरान्या	15	क्रमांक 182 रूमसिंह के घर से 869 रमेश के घर तक		
16	बोंदरान्या	16	क्रमांक 192 मिश्रीबाई के घर से 881 नवसी के घर तक		
17	बोंदरान्या	17	क्रमांक 208 सुकलीबाई के घर से 889 मेश्री के घर तक		
18	बोंदरान्या	18	क्रमांक 219 गंगलीबाई के घर से 680 माया के घर तक		
19	बोंदरान्या	19	क्रमांक 230 गरिया के घर से 780 बहादर के घर तक		
20	बोंदरान्या	20	क्रमांक 243 दवल्या के घर से 860 रजना के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बेढान्या बुजूर्ग	1	क्रमांक 1 हसलीबाई के घर से 17 अशोक के घर तक	अ.जा.	1
2	बेढान्या बुजूर्ग	2	क्रमांक 18 कालीबाई के घर से 30 अनुबाई के घर तक	अ.ज.जा.	19
3	बेढान्या बुजूर्ग	3	क्रमांक 31 टकल्या के घर से 48 पिंकी के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बेढान्या बुजूर्ग	4	क्रमांक 49 सायसिंह के घर से 61 गुडडी के घर तक	अनारक्षित	0
5	बेढान्या बुजूर्ग	5	क्रमांक 62 नवादी के घर से 73 मुकेश के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बेढान्या बुजूर्ग	6	क्रमांक 74 गिलदार के घर से 85ड प्रकाश के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	बेढान्या बुजूर्ग	7	क्रमांक 86 चम्पालाल के घर से 93 कविता के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	उदयपुर	8	क्रमांक 1 गुमानसिंह के घर से रंगा के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	उदयपुर	9	क्रमांक 10 चुटकलीबाई के घर से 18 सुकमाबाई के घर तक		
10	उदयपुर	10	क्रमांक 19 नकल्या के घर से 26 मालती के घर तक		
11	उदयपुर	11	क्रमांक 28 देवीसिंह के घर से 45 समोतीबाई के घर तक		
12	उदयपुर	12	क्रमांक 46 लाडकी के घर से 58 गुमान के घर तक		
13	उदयपुर	13	क्रमांक 59 कैलाश के घर से 71 सुमेरसिंह के घर तक		
14	उदयपुर	14	क्रमांक 72 लक्ष्मी के घर से 87 माया के घर तक		
15	उदयपुर	15	क्रमांक 88 रेवा के घर से 102 सुकला के घर तक		
16	लाईखेड़ी	16	क्रमांक 1 दरियाव के घर से 10 ममता के घर तक		
17	लाईखेड़ी	17	क्रमांक 11 सुनिल के घर से 23 सुकराम के घर तक		
18	लाईखेड़ी	18	क्रमांक 24 जसोदा के घर से 37 सुकलाल के घर तक		
19	लाईखेड़ी	19	क्रमांक 38 राजाराम के घर से 51 भावना के घर तक		
20	लाईखेड़ी	20	क्रमांक 52 डोगरसिंह के घर से 107 प्रेमसिंह के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	अरदला	1	क्रमांक 1 पुना के घर से 8 झिरभान के घर तक	अ.जा.	0
2	अरदला	2	क्रमांक 9 सुरसिंह के घर से 16 गागीराम के घर तक	अ.ज.जा.	11
3	अरदला	3	क्रमांक 17 दुर्गासिंग के घर से 24 ग्यानसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	अरदला	4	क्रमांक 27 कासिया के घर से 34 गुलाब के घर तक	अनारक्षित	3
5	अरदला	5	क्रमांक 35 भीकला के घर से 44 ममता के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	अरदला	6	क्रमांक 45 दुरसिंग के घर से 50 गंगाराम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	6
7	पालधा	7	क्रमांक 1 करण के घर से 19 बसंतीबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पालधा	8	क्रमांक 20 नन्नु के घर से 33 बिहारी के घर तक	अनारक्षित महिला	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	पालधा	9	क्रमांक 34 सुकराम के घर से 47 कालु के घर तक	
10	पालधा	10	क्रमांक 48 छोगालाल के घर से 57 कुवरसिंह के घर तक	
11	पालधा	11	क्रमांक 58 रुहल्याबाई के घर से 63 रामलाल के घर तक	
12	पालधा	12	क्रमांक 64 रूझान के घर से 68 जोसला के घर तक	
13	पालधा	13	क्रमांक 69 टेमरिया के घर से 74 राजाराम के घर तक	
14	खामिद	14	क्रमांक 1 रायसिंह के घर से 9 सुजान के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	शिवना	1	क्रमांक 1 कुवरसिंह के घर से 25 सायबसिंह के घर तक	अ.जा.	2
2	शिवना	2	क्रमांक 26 शोभा के घर से 42 देवेसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	10
3	शिवना	3	क्रमांक 43 दिलावर के घर से 61 नत्थुजी के घर तक	पि. वर्ग	3
4	शिवना	4	क्रमांक 62 छितर के घर से 89 ध्यानसिंह के घर तक	अनारक्षित	5
5	शिवना	5	क्रमांक 90 सरदार के घर से 107 कैलाश के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	शिवना	6	क्रमांक 108 इंदरसिंह के घर से 127 रामेश्वर के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	शिवना	7	क्रमांक 128 गोविन्द के घर से 148 दादु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	शिवना	8	क्रमांक 149 प्रदिप के घर से 175 इंदर के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	शिवना	9	क्रमांक 176 राधेश्याम के घर से 202 मानसिंह के घर तक		
10	शिवना	10	क्रमांक 203 मोहन के घर से 222 गनु के घर तक		
11	शिवना	11	क्रमांक 223 आशाराम के घर से 252क कमलेश के घर तक		
12	शिवना	12	क्रमांक 253 सहानुर के घर से 283क अशोक के घर तक		
13	शिवना	13	क्रमांक 284 अफजल के घर से 312ख दगडु के घर तक		
14	शिवना	14	क्रमांक 321क कमला के घर से 335 गनिखां के घर तक		
15	शिवना	15	क्रमांक 336 हकिम के घर से 356 जब्बार के घर तक		
16	शिवना	16	क्रमांक 367 निजाम के घर से 388क बसुबाई के घर तक		
17	शिवना	17	क्रमांक 388ग मंशाराम के घर से 415 भंग्या के घर तक		
18	शिवना	18	क्रमांक 415क कुसुमबाई के घर से 437 रसीद खां के घर तक		
19	शिवना	19	क्रमांक 448 रनुबाई के घर से 473 दशरथ के घर तक		
20	शिवना	20	क्रमांक 473क राधेश्याम के घर से 491 रामलाल के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	नीमसेठी	1	क्रमांक 1 जंगल्या के घर से 12 नन्दु के घर तक	अ.जा.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	नीमसेठी	2	क्रमांक 13 कालु के घर से 19 भायराम के घर तक	अ.ज.जा. 11
3	नीमसेठी	3	क्रमांक 20 चिन्ताराम के घर से 33 रामकुवर के घर तक	पि. वर्ग 0
4	नीमसेठी	4	क्रमांक 34 लालु के घर से 44क भरत के घर तक	अनारक्षित 1
5	नीमसेठी	5	क्रमांक 45 कलाबाई के घर से 58 रामेश्वर के घर तक	महिला अ.जा. 1
6	नीमसेठी	6	क्रमांक 59 नथीबाई के घर से 66 छन्नु के घर तक	महिला अ.ज.जा. 6
7	नीमसेठी	7	क्रमांक 67 उमाशंकर के घर से 77 मिनाबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	नीमसेठी	8	क्रमांक 78 कैलाश के घर से 89 दारियाव के घर तक	अनारक्षित महिला 0
9	नीमसेठी	9	क्रमांक 90 कचरिया के घर से 104 गंगाराम के घर तक	
10	नीमसेठी	10	क्रमांक 105 जानकीबाई के घर से 116 नीला बाई के घर तक	
11	नीमसेठी	11	क्रमांक 117 प्यारीबाई के घर से 125 सुरज्या के घर तक	
12	नीमसेठी	12	क्रमांक 126 मिठीबाई के घर से 131 बजारिया के घर तक	
13	नीमसेठी	13	क्रमांक 132 राधु के घर से 137 जिरभान के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	तेड	1	क्रमांक 1 रूपसिंह के घर से 13 कोमल के घर तक	अ.जा.	0
2	तेड	2	क्रमांक 14 गाजा के घर से 30 रक्षा के घर तक	अ.ज.जा.	10
3	तेड	3	क्रमांक 31 मुकराम के घर से 41 देविसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	तेड	4	क्रमांक 42 गंगाबाई के घर से 51 कोमलबाई के घर तक	अनारक्षित	2
5	तेड	5	क्रमांक 52 कन्हैया के घर से 59 दीपक के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	तेड	6	क्रमांक 60 अमरबाई के घर से 70 जाग्रती के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	तेड	7	क्रमांक 71 नथीबाई के घर से 85 गुलाबबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	तेड	8	क्रमांक 86 मजलीबाई के घर से 105 ललिता के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	तेड	9	क्रमांक 106 वेस्ती के घर से 120 मनुबाई के घर तक		
10	पिपरखेडछोटी	10	क्रमांक 1 ओंकारलाल के घर से 11क बाबु के घर तक		
11	पिपरखेडछोटी	11	क्रमांक 12 अनोखी के घर से 26 भुवान के घर तक		
12	पिपरखेडछोटी	12	क्रमांक 27 सरदार के घर से अंत तक सुरमल के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	पखाल्या	1	क्रमांक 1 हिरमल के घर से 12 अस्तर के घर तक	अ.जा.	0
2	पखाल्या	2	क्रमांक 13 धवलीबाई के घर से 23 घासिराम के घर तक	अ.ज.जा.	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	पखाल्या	3	क्रमांक 24 कया के घर से 36 रंछोड के घर तक	पि. वर्ग 0
4	पखाल्या	4	क्रमांक 37 फुलक्या के घर से 47क दिनेश के घर तक	अनारक्षित 3
5	पखाल्या	5	क्रमांक 48 लखन के घर से 57 रामज्या के घर तक	महिला अ.जा. 0
6	पखाल्या	6	क्रमांक 58 बिछालीबाई के घर से 67 कुटी के घर तक	महिला अ.ज.जा. 6
7	पखाल्या	7	क्रमांक 69 ममदिया के घर से 76ख दुना के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग 0
8	पखाल्या	8	क्रमांक 77 कुसलीबाई के घर से 81 तुलसी के घर तक	अनारक्षित महिला 1
9	करान्या	9	क्रमांक 1 नानुराम के घर से 18 मनोज के घर तक	
10	करान्या	10	क्रमांक 19 करण के घर से 33 रतन के घर तक	
11	करान्या	11	क्रमांक 34 गुलाब के घर से 52 मुन्ना के घर तक	
12	करान्या	12	क्रमांक 53 रायसिंग के घर से 67 जहागरिया के घर तक	
13	करान्या	13	क्रमांक 68 खुमान के घर से 81 तेजु के घर तक	
14	करान्या	14	क्रमांक 82 कन्हैया के घर से 104 मोहन के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	धुपा बुजूर्ग	1	क्रमांक 1 लकडसिंह के घर से 28 संगीता के घर तक	अ.जा.	0
2	धुपा बुजूर्ग	2	क्रमांक 29 सायरीबाई के घर से 36 नियाबाई के घर तक	अ.ज.जा.	20
3	धुपा बुजूर्ग	3	क्रमांक 37 कंनकीबाई के घर से 48 बिलरसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	धुपा बुजूर्ग	4	क्रमांक 49 भुंडा के घर से 110 समराबाई के घर तक	अनारक्षित	0
5	धुपा बुजूर्ग	5	क्रमांक 111 भायला के घर से 125 रानु के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	धुपा बुजूर्ग	6	क्रमांक 126 फडक्या के घर से 149 मुखली के घर तक	महिला अ.ज.जा.	10
7	धुपा बुजूर्ग	7	क्रमांक 150 कानुबाई के घर से 170 मुन्नालाल के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	धुपा बुजूर्ग	8	क्रमांक 170 क परसीराम के घर से 184 संतोष के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	धुपा बुजूर्ग	9	क्रमांक 185 मुन्ना के घर से 197 फुलबाई के घर तक		
10	धुपा बुजूर्ग	10	क्रमांक 198 गंगाराम के घर से 215 सोमलीबाई के घर तक		
11	धुपा बुजूर्ग	11	क्रमांक 216 गठी के घर से 232 रूपसिंह के घर तक		
12	धुपा बुजूर्ग	12	क्रमांक 233 नांदु के घर से 253 फुगरिया के घर तक		
13	धुपा बुजूर्ग	13	क्रमांक 254 धिन्या के घर से 287 चंदन के घर तक		
14	धुपा बुजूर्ग	14	क्रमांक 288 अंनकीबाई के घर से 307 सायराम के घर तक		
15	धुपा बुजूर्ग	15	क्रमांक 308 फुगरिया के घर से 315 ध्यानसिंह के घर तक		
16	धुपा बुजूर्ग	16	क्रमांक 316 गंगाराम के घर से अंत तक राजेश के घर तक		
17	मांझल	17	क्रमांक 1 चमार के घर से 8 भारममजी के घर तक		
18	मांझल	18	क्रमांक 9 मंशाराम के घर से 15 अमरसिंह के घर तक		
19	मांझल	19	क्रमांक 16 सुरता के घर से 27 गंजीया के घर तक		
20	मांझल	20	क्रमांक 28 लछा के घर से अंत तक शांताराम के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	डेहरिया	1	क्रमांक 1 राजलबाई के घर से 15 मनोज के घर तक	अ.जा.	0
2	डेहरिया	2	क्रमांक 16 लिमडा के घर से 26 मुनिम के घर तक	अ.ज.जा.	17
3	डेहरिया	3	क्रमांक 27 बच्चु के घर से 37 धनसिंह के घर तक	पि. वर्ग	0
4	डेहरिया	4	क्रमांक 37क रमेश के घर से 43 जगदीश के घर तक	अनारक्षित	0
5	डेहरिया	5	क्रमांक 44 श्याणी के घर से 58 कालु के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	डेहरिया	6	क्रमांक 59 भुरा के घर से 68क जयराम के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	डेहरिया	7	क्रमांक 69 केकडया के घर से 73 शंकर के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	डेहरिया	8	क्रमांक 74 सेकडिया के घर से 83क भिकला के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	डेहरिया	9	क्रमांक 84 रिछु के घर से 99 जितेन्द्र के घर तक		
10	डेहरिया	10	क्रमांक 100 कालु के घर से 108क राजु के घर तक		
11	डेहरिया	11	क्रमांक 109 गुमान के घर से 120 छगन के घर तक		
12	डेहरिया	12	क्रमांक 121 भुरसिंह के घर से 136ग रमेश के घर तक		
13	डेहरिया	13	क्रमांक 137 जोगडिया के घर से 146क राजु के घर तक		
14	कालकराय	14	क्रमांक 1 वेस्ता के घर से 12 जिगरिया के घर तक		
15	कालकराय	15	क्रमांक 13 बालुसिंह के घर से 26 भंगडीबाई के घर तक		
16	कालकराय	16	क्रमांक 27 दरियाव के घर से 40 नाथु के घर तक		
17	कालकराय	17	क्रमांक 41 बाथु के घर से 56 भावसिंह के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	गोरखपुर	1	क्रमांक 1 अनारसिंह के घर से 13 रामनिवास के घर तक	अ.जा.	1
2	गोरखपुर	2	क्रमांक 14 दयाराम के घर से 34 शिवकरण के घर तक	अ.ज.जा.	18
3	गोरखपुर	3	क्रमांक 36 धन्नालाल के घर से 50 सम्पत के घर तक	पि. वर्ग	0
4	गोरखपुर	4	क्रमांक 51 बुधीबाई के घर से 64 नंदराम के घर तक	अनारक्षित	1
5	गोरखपुर	5	क्रमांक 65 रामलाल के घर से 73 भाया के घर तक	महिला अ.जा.	1
6	गोरखपुर	6	क्रमांक 74 खजान के घर से 82 गुताब के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	गोरखपुर	7	क्रमांक 83 पारलीबाई के घर से 92 बारीलाल के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	गोरखपुर	8	क्रमांक 93 नत्थु के घर से 100 दिनेश के घर तक	अनारक्षित महिला	0
9	गोरखपुर	9	क्रमांक 101 छरतसहि के घर से 110/3 मालसिंह के घर तक		
10	गोरखपुर	10	क्रमांक 111 जंगलसिंह के घर से 120 शिवराम के घर तक		
11	गोरखपुर	11	क्रमांक 121 शंकर के घर से 128/1 कैलाश के घर तक		
12	गोरखपुर	12	क्रमांक 140 बारना के घर से 147क रामसिंह के घर तक		
13	गोरखपुर	13	क्रमांक 148 रेमालीबाई के घर से 158 भीमसिंह के घर तक		
14	गोरखपुर	14	क्रमांक 159 आशाराम के घर से 169 जयराम के घर तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	गोरखपुर	15	क्रमांक 170 रामसिंह के घर से 182 जवानसिंह के घर तक	
16	गोरखपुर	16	क्रमांक 183 अमरसिंह के घर से 195 वालसिंह के घर तक	
17	गोरखपुर	17	क्रमांक 197 अन्तो के घर से 207 आशाराम के घर तक	
18	गोरखपुर	18	क्रमांक 208 खेमा के घर से 216 राकेश के घर तक	
19	गोरखपुर	19	क्रमांक 217 धनीबाई के घर से 226 नानला के घर तक	
20	गोरखपुर	20	क्रमांक 227 जामसिंह के घर से 232क अस्तरीया के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	नानकोडी	1	क्रमांक 1 राजाराम के घर से 24 कमलेश के घर तक	अ.जा.	0
2	नानकोडी	2	क्रमांक 25 नन्दु के घर से 36/6 आशा के घर तक	अ.ज.जा.	9
3	नानकोडी	3	क्रमांक 37 प्रेमलाल के घर से 60 जयन्ती के घर तक	पि. वर्ग	1
4	नानकोडी	4	क्रमांक 61 निजाम के घर से 80 रकसिंह के घर तक	अनारक्षित	4
5	नानकोडी	5	क्रमांक 81 सुखलाल के घर से 95 हरसिंह के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	नानकोडी	6	क्रमांक 97 किलांग के घर से 106 बसन्ती के घर तक	महिला अ.ज.जा.	5
7	नानकोडी	7	क्रमांक 107 काशीराम के घर से 117क सोलु के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	नानकोडी	8	क्रमांक 118 भाटा के घर से 128 शांतिबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	2
9	नानकोडी	9	क्रमांक 129 भायलाल के घर से 143 सुनिता के घर तक		
10	ईरपुर	10	क्रमांक 2 अमरसिंह के घर से 25 रेखा के घर तक		
11	ईरपुर	11	क्रमांक 27 सुन्दरबाई के घर से 46 भाया के घर तक		
12	ईरपुर	12	क्रमांक 48 दरबार के घर से 71 कमला के घर तक		
13	ईरपुर	13	क्रमांक 72 मीराबाई के घर से 97ख मीरा के घर तक		
14	ईरपुर	14	क्रमांक 99 अनादीबाई के घर से 39 राजु के घर तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	चैनपुर	1	क्रमांक 1 मिश्रीलाल के घर से 20 ललित के घर तक	अ.जा.	1
2	चैनपुर	2	क्रमांक 20/1 अनिल के घर से 55 करतारसिंह के घर तक	अ.ज.जा.	15
3	चैनपुर	3	क्रमांक 56 दुलीचन्द के घर से 72 अजय के घर तक	पि. वर्ग	0
4	चैनपुर	4	क्रमांक 77 देवराम के घर से 97ग देवकरण के घर तक	अनारक्षित	4
5	चैनपुर	5	क्रमांक 100 मोहन के घर से 114 अखिलेश के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	चैनपुर	6	क्रमांक 114/1 मानक के घर से 143 निरज के घर तक	महिला अ.ज.जा.	8
7	चैनपुर	7	क्रमांक 144 उर्मिलाबाई के घर से 178 बलिराम के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	चैनपुर	8	क्रमांक 179 छोटिया के घर से 196 गंगाराम के घर तक	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	चैनपुर	9	क्रमांक 201 सुजानबाई के घर से 222/1 सुलतानाबाई के घर तक	
10	चैनपुर	10	क्रमांक 223 नवसीबाई के घर से 251 दिलीप के घर तक	
11	चैनपुर	11	क्रमांक 252 सनुबाई के घर से 268/1 दिनेश के घर तक	
12	चैनपुर	12	क्रमांक 270 रामु के घर से 282 विश्राम के घर तक	
13	चैनपुर	13	क्रमांक 283 केशराम के घर से 297 सुरसिंह के घर तक	
14	चैनपुर	14	क्रमांक 300 नहारसिंह के घर से 312 प्रकाश के घर तक	
15	चैनपुर	15	क्रमांक 313 झुनाबाई के घर से 327 मुन्नालाल के घर तक	
16	चैनपुर	16	क्रमांक 328 हीरा के घर से 342 तुफान के घर तक	
17	चैनपुर	17	क्रमांक 343 सायदा के घर से 597 भयैया के घर तक	
18	गवलखेडा	18	क्रमांक 1 चैला के घर से 13 बालीबाई के घर तक	
19	गवलखेडा	19	क्रमांक 14 वेरसिंह के घर से 20 दशरथ के घर तक	
20	गवलखेडा	20	क्रमांक 23 करण के घर से 36 सुकमाबाई के घर तक	

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	बायखेडा	1	क्रमांक 1 मुसला के घर से 11 ललीता के घर तक	अ.जा.	0
2	बायखेडा	2	क्रमांक 12 थाड के घर से 21 भारती के घर तक	अ.ज.जा.	17
3	बायखेडा	3	क्रमांक 22 सरिया के घर से 34 संगीता के घर तक	पि. वर्ग	0
4	बायखेडा	4	क्रमांक 34क सुकलाल के घर से 41/2 बनवरी के घर तक	अनारक्षित	3
5	बायखेडा	5	क्रमांक 42 चम्पाबाई के घर से 45 कृष्णाबाई के घर तक	महिला अ.जा.	0
6	बायखेडा	6	क्रमांक 47 तुकाराम के घर से 58 सुगनाबाई के घर तक	महिला अ.ज.जा.	9
7	बायखेडा	7	क्रमांक 58ख जतनबाई के घर से 70क सीताबाई के घर तक	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बायखेडा	8	क्रमांक 71 नारायण के घर से 80 मुन्नीबाई के घर तक	अनारक्षित महिला	1
9	बायखेडा	9	क्रमांक 81 आरसिया के घर से 92 लालबाई के घर तक		
10	बलखड	10	क्रमांक 1 गंगाराम के घर से 14 दिलीप के घर तक		
11	बलखड	11	क्रमांक 15 डोगरसिंह के घर से 29 झापलीबाई के घर तक		
12	बलखड	12	क्रमांक 32 धुरीबाई के घर से 45 अशोक के घर तक		
13	बलखड	13	क्रमांक 47 भीमसिंह के घर से 71क प्रकाश के घर तक		
14	बलखड	14	क्रमांक 71ख हवसीलाल के घर से 79 सलमाबाई के घर तक		
15	बलखड	15	क्रमांक 83 पप्पू के घर से 98 रामईबाई के घर तक		
16	बलखड	16	क्रमांक 99 सुपडू के घर से 111 बरखा साबु के घर तक		
17	बलखड	17	क्रमांक 111/5 अजय के घर से 119क जगदीश के घर तक		
18	बलखड	18	क्रमांक 121 गिलदार के घर से 135 संगीता के घर तक		
19	बलखड	19	क्रमांक 137 तिखला के घर से 152 जमनाबाई के घर तक		
20	बलखड	20	क्रमांक 154 दयाराम के घर से 177 सेवतीबाई रेखा के घर तक		

1	2	3	4	5	6
2	सेगांव	1	1 ममता मलखान से 70 दिनेश बिहारी तक	अ.जा.	1
		2	70/2 संजय जगदीश से 123/2 घुसाई बाउ तक	अ.ज.जा.	10
		3	123/3 सीताराम बाबुलाल से 160/2 मांगीलाल धन्नालाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	160/4 शरदचन्द्र राधेश्याम से 200 आशाराम शिवलाल तक	अनारक्षित	5
		5	201 सलिताबाई सदाशिव से 261/1 सुनिल शिवराम तक	अ.जा.महिला	1
		6	265 शोभाराम रूखडिया से 315/2 हरिओम मोहन तक	अ.ज.जा.महिला	5
		7	316 गेंदालाल मांगीलाल से 385 लोकेश मोतीराम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
		8	387 राजु केशरीया से 460/1 गीरीश गोकुत तक	अनारक्षित महिला	2
		9	5/9 मनीषा हिरालाल से 534/1 पन्नालाल सुकलाल तक		
		10	536 हिरालाल राजनाथ से 547 सेवती जामसिंग तक		
		11	547/1 कमलसिंह काशीराम से 625 जितेन्द्र राधेश्याम तक		
		12	626/2 नानुराम ओंकार से 666 मुकेश हिरालाल तक		
		13	668 मंगत बाल्या से 709/3 संदीप बंशीलाल तक		
		14	709/4 पुनमचंद मांगीलाल से 65021 चंदन ओमप्रकाश तक		
		15	442 दिनेश मुन्नालाल से 775 मधु परसराम तक		
		16	776 रडत्या सुभान से 824/1 प्रताप नहारसिंग तक		
		17	824/2 ज्ञानी सड्या से 879 मंगल रायसिंग तक		
		18	880 फुंदा भोल्या से 913 काशीराम नुरा तक		
		19	914 सखाराम बाउ से 942 पुन्या दरियाव तक		
		20	942/1 शोभाराम पुन्या से 8708 बालकृष्ण रामलाल तक		
3	रसगांव	1	01 रमती घीसीलाल से 24 जसोदा बाबुलाल तक	अ.जा.	1
		2	25 पंढरी मांगीलाल से 40 काशीराम रणछोड तक	अ.ज.जा.	10
		3	41 राजाराम चुन्नीलाल से 53 लक्ष्मण माधव तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	54 महेश सुकलाल से 69 घीसीबाई तुलसीराम तक	अनारक्षित	5
		5	70 मरू जगदीश से 92 कंचन शोभाराम तक	अ.जा.महिला	1
		6	92/1 मांगीलाल जोगिया से 112 कन्हैया धन्नालाल	अ.ज.जा.महिला	5
		7	113 रूकमणी फकीरचंद से 128 सीताबाई मांगीलाल	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
		8	129 आशाराम दामा से 149 बाबुलाल दयाराम तक	अनारक्षित महिला	2
		9	150 काशीराम दयाराम से 169 मोतीराम काशीराम		
		10	171 सखाराम हिरालाल से 192 सुकदेव मोतीराम तक		
		11	193 आनंदा कालू से 222 कला राजाराम तक		
		12	223 रमेश छोग्या से 243 शिवराम मांगीलाल तक		
		13	243/1 प्रेमचंद रालिया से 259 बंनसिया बाला तक		
		14	260 चैनसिंग बाला से 271 रामा बुदसिंह तक		
		15	272 धन्नालाल पर्वतसिंह से 286 जलाल भला तक		
		16	287 मांगीलाल दामा से 304 रूखडिया धना तक		
		17	305 ग्यानी नंदलाल से 318 राजाराम दरियाव तक		
		18	320 शिवराम रघुनाथ से 336 सखाराम जलाल तक		
		19	337 पुनी किशन से 377 बिसन छीतु तक		

1	2	3	4	5	6
4	गाटलाखेडी	1	01 रतन लेपरिया से 12/1 रुघनाथ फुलसिंग तक	अ.जा.	0
		2	14 मदन भावला से 28 शोभाराम मालसिंग तक	अ.ज.जा.	13
		3	29 रघुनाथ काल्या से 41/क अलापसिंग शंकर तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	42 गुल्या हरसिंग से 54/क पुना भल्या तक	अनारक्षित	0
		5	55 बावरा भल्या से 64/घ नानीबाई डोगरसिंग तक	अ.जा.महिला	0
		6	65/1 पातल्या रूपसिंग से 76 मालसिंग नत्थु तक	अ.ज.जा.महिला	7
		7	77 मगन बंशीलाल से 87 रूखडिया पटु तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	88 राधा सुभान से 105 रामकौर अनसिंग तक	अनारक्षित महिला	0
		9	107 दयाराम सोकल्या से 122 रूखडिया नाना तक		
		10	123 फुंदा नाना से 138/क गलसिंग मांगीलाल तक		
		11	139 दितला भल्या से 150 कालु पुन्या तक		
		12	151 शेरा सुकलाल से 167 चमारसिंग नवल्या तक		
		13	168 अमरसिंग दितु से 183 हिरालाल दुल्या तक		
5	दसनावल	1	1 श्याणीबाई दरियाव से 25 भागूबाई मोहन तक	अ.जा.	1
		2	26 दयाराम गणपत से 46 गुलाबसिंग बाउ तक	अ.ज.जा.	12
		3	48 सीताबाई लच्छु से 76 नानुराम शोभाराम तक	अन्य पिछडा वर्ग	2
		4	77 काशीराम शोभाराम से 104 मयाराम कन्हैया तक	अनारक्षित	5
		5	105 किशन बालाजी से 121 शांतिलाल घुसाई तक	अ.जा.महिला	1
		6	122 रूखडिया बाउ से 140 शोभाराम शिवजी तक	अ.ज.जा.महिला	6
		7	141 जीवनलाल छितर से 160 देवराम रणछोड तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	1
		8	163 सेवकराम मंगत से 183 रामचन्द्र दयाराम तक	अनारक्षित महिला	2
		9	184 राधेश्याम बुदन से 208 दुरग्या छगन तक		
		10	209 सकुन्तलाबाई शोभाराम से 237 काशीराम पंचम तक		
		11	238 रामकुवंर नंदराम से 269/2 जितेन्द्र मेहताब तक		
		12	270 पन्नालाल चैन्या से 293 झबर जेमाल तक		
		13	294 सीताराम सुभान से 315 राजाराम रूमाल तक		
		14	317 लालू रघुनाथ से 334/2 कैलाश किशन तक		
		15	335 जतन मडिया से 353 मोहन देवेसिंग तक		
		16	354 छगन गुलाब से 372/1 मीना मयाराम तक		
		17	372/2 कंचन कालुसिंग से 383/1 चम्पालाल धनसिंग तक		
		18	384 सुगर भैया से 397 शेरू लटु तक		
		19	398 दितला छगन से 428/5 विश्राम नानसिंग तक		
		20	429 मालसिंग बुदन से 457 रमेश गुलसिंग तक		

1	2	3	4	5	6	
6	सतावड	1	1 जैपाल कुवर से 17 लीलाबाई राजेन्द्र तक	अ.जा.	1	
		2	18 लक्ष्मीबाई गुलाबसिंह से 33 कडवा शिवा तक	अ.ज.जा.	5	
		3	36 परसराम शोभाराम से 53 दशरथ बाउ तक	अन्य पिछडा वर्ग	1	
		4	54 पन्नालाल दशरथ से 83 कमलाबाई रतन तक	अनारक्षित	3	
		5	84 परसराम टन्त्या से 103 कलाबाई रणछोड तक	अ.जा.महिला	1	
		6	107 गंगाराम बाला से 126 ग्यारूबाई नैनसिंह तक	अ.ज.जा.महिला	3	
		7	127 भुवानसिंग चमारया से 138 मदन कन्हैया तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0	
		8	138/क दिनेश कन्हैया से 154 सदाशिव गंगाराम तक	अनारक्षित महिला	1	
		9	155 पार्वतीबाई मांगीलाल से 167 हरचन्द जोगीलाल तक			
		10	168 काशीराम सोमलिया से 264 छायाबाई किराड़सिंह तक			
7	कमोदवाडा	1	1 सुदर्शन संतोष से 17 शिवजी मांगीलाल तक	अ.जा.	2	
		2	17/क बालकृष्ण से 33/क गोविंद तक	अ.ज.जा.	7	
		3	34 बाबुलाल से 55 तुलसीराम तक	अन्य पिछडा वर्ग	1	
		4	56 मोहन रणछोड से 82 नत्थु कन्हैया तक	अनारक्षित	3	
		5	83 मंगती मोतीराम से 122 शिवकौर तक	अ.जा.महिला	1	
		6	123 राजाराम से 155/क अनिल तक	अ.ज.जा.महिला	4	
		7	156 हिरालाल से 184 दयाराम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	1	
		8	186 जानकी से 222 भारत बालाराम तक	अनारक्षित महिला	1	
		चंदावड	9	1 बंशीलाल से 9/घ रूखमणी तक		
			10	9 नीमा रणछोड से 21 मुकेश मकुंद तक		
			11	21/2 ओंकार से 44 द्वारकीबाई तक		
			12	45 मिश्रीलाल से 64 नानुराम तक		
			13	65 राजलबाई से 81/घ नाकु तक		
8	गंधावड	1	1 कडवा मंशाराम से 18 चन्द्रकांत कुवरजी तक	अ.जा.	2	
		2	19 धनजी गणपत से 36 महेश नाना तक	अ.ज.जा.	7	
		3	37 कुन्ताबाई 57 चन्दुबाई रमेश तक	अन्य पिछडा वर्ग	1	
		4	58 कलुबाई से 87/2 कैलाश तक	अनारक्षित	4	
		5	88 संतोष से 115 पंडरी तुलसीराम तक	अ.जा.महिला	1	
		6	116 रेवाराम से 151 लक्ष्मी पप्पु तक	अ.ज.जा.महिला	4	
		7	151/1 मुरारी से 173 सुभद्रा दयाराम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	1	
		8	174 गिरधारी नन्नु से 193 पंडरी जोगीलाल तक	अनारक्षित महिला	1	
		9	2 विजय नत्थु से 108/1 दगडीबाई तक			
		10	208/2 तुलसीराम से 225 कमला बाबुलाल तक			
		11	226 मांगीलाल से 247 मोतीराम तक			
		12	248 पुनमचंद से 270 शंकर जोगीलाल तक			
		13	271 समोति से 299 रामई गजानंद तक			
		14	302 ऐडु हरी से 326 नानीबाई रूमज्या तक			

1	2	3	4	5	6
9	दोमवाडा	1	1 गंगाराम ओंकार से 16 मयाराम किशन तक	अ.जा.	1
		2	17 नानुराम नत्थु से 31 मंशाराम मांगीलाल तक	अ.ज.जा.	16
		3	33 शोभाराम नत्थु से 45 काशीराम मयाराम तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	47 चम्पालाल कन्हैया से 58 रंगलीबाई जुवानसिंग तक	अनारक्षित	2
		5	59 कालु नानसिंग से 68 सुकलीबाई रायसिंग तक	अ.जा.महिला	1
		6	70 सायरी मालसिंग से 81 सुरपाल जान्या तक	अ.ज.जा.महिला	8
		7	82 काशीराम सीताराम से 91 फत्या डुडला तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	92 लोमी मदन से 101 झबली रतन तक	अनारक्षित महिला	1
		9	102 झेतरीबाई गुलाब से 110 फुलसिंग नहारसिंग तक		
	भिकारखेडी	10	1 ठाकुर भंगडा से 7 भलसिंग अमरसिंग तक		
		11	8 सुभाष नासरिया से 18 कालु मोटला तक		
		12	19 तेरसिंग हाबल्या से 39 नत्थु अमरसिंग तक		
		13	40 गुलाब दित्या से 50 मेहताब गटु तक		
		14	51 पातल्या गटु से 63 झीनाबाई गणस्या तक		
		15	64 भुरीबाई रघुनाथ से 73 गोमतीबाई गोपाल तक		
		16	74 हिरलीबाई कालु से 81 मेहकाल गटला तक		
		17	82 बन्दरीया केरीया से 88 सायरी जामसिंग तक		
		18	89 मांगीलाल सेकडिया से 95 मनीबाई गोरेलाल तक		
		19	96 सुरपाल पेमसिंह से 101 परसराम बाबुलाल तक		
10	बिरला	1	1 कंचनबाई रूखडिया से 12 नीलाबाई भल्या तक	अ.जा.	0
		2	13 कंचन मोतेसिंग से 34 करसन रणछेड तक	अ.ज.जा.	16
		3	35 भगवान कन्हैया से 50 सोनाबाई दगडू तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	51 मयाराम सालम से 74/ख मदन तुकाराम तक	अनारक्षित	1
		5	75 नत्थु कालु से 99 रेवाराम गणपत तक	अ.जा.महिला	0
		6	104 रानुबाई झबरसिंग से 158 पप्पु हरेसिंग तक	अ.ज.जा.महिला	8
		7	159 राकेश कालुसिंग से 217 सुभाष मांगीलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	218 कन्हैया किशोर से 247 सुरेश फकीरा तक	अनारक्षित महिला	1
		9	248 सुनिल गणस्या से 284 मसरीबाई सखाराम तक		
		10	1 रूखडिया कन्हैया से 116 बाबुलाल मुतरिया तक		
		11	118 सागरबाई धन्नालाल से 138 दगडु भीमा तक		
		12	139 केसरबाई मंशाराम से 159 कमलाबाई टुकडीया तक		
		13	160 रामसिंग भाचरिया से 180 धन्नालाल गणपत तक		
		14	181 बालुसिंग अभया से 213 बट्टी नहारसिंग तक		
		15	217 मडिया रामसिंग से 242 गोपाल रामसिंग तक		
		16	243 राजकौर नत्थु से 266 केशरीबाई बन्श्या तक		
		17	267 राजलबाई लालसिंग से 285 मदन पहाडसिंग तक		

1	2	3	4	5	6	
11	तलकपुरा	1	1 कोलु मंगल्या से 24 सुपडिया मंगल्या तक	अ.जा.	2	
		2	25 चन्द्रसिंह ठाकुर से 53 समोतिबाई ठाकुर तक	अ.ज.जा.	12	
		3	53/ख नन्हेसिंह गंगाराम से 85/2 रितेश त्रिलोकचंद तक	अन्य पिछडा वर्ग	0	
		4	87 पन्नालाल शंकर से 105 राधेश्याम रेवाराम तक	अनारक्षित	5	
		5	106 पन्नालाल दयाराम से 129/क आशाराम कन्हैया तक	अ.जा.महिला	1	
		6	130 नारायण रामसिंह से 155 बाटिया जोग्या तक	अ.ज.जा.महिला	6	
		7	156 कुवरबाई बावन्या से 182 प्रतापसिंह सधा तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0	
		8	185 कालूसिंह ध्यानसिंह से 218 सौदानसिंह दरियाव तक	अनारक्षित महिला	3	
		9	219 इन्द्रपालसिंह सदाशिव से 238 चैनसिंह पुंजा तक			
		10	239 दशरथ उंकार से 264 संतोष बाबुलाल तक			
		11	265 महिमाराम किशन से 292/758 नैनसिंह गोकुल तक			
		12	293 कालु भोल्या से 322/1 हिरालाल राजु तक			
		13	323 भुरी नत्थु से 351 बुदीया पोपडीया तक			
		14	352 सुनीबाई उमराव से 374 गुलाबसिंह उमराव तक			
		15	375 सयतुलबाई गोविंद से 397 आत्माराम छगन तक			
		16	398 मांगीलाल छगन से 415 पेमलसिंग मोतेसिंग तक			
		17	416 उदयसिंग गणपत से 440 बाबुलाल राजाराम तक			
		18	441 समोतीबाई ग्यासीलाल से 469 तोताराम फत्तु तक			
		19	470 मोहन रमेश से 490 अनारबाई छगन तक			
12	जलगोन	1	1 अनिल मांगीलाल से 16 मांगीलाल कन्हैया तक	अ.जा.	0	
		2	17 राधेश्याम रामलाल से 38 जानकीबाई कैलाश तक	अ.ज.जा.	14	
		3	39 अनोकसिंग गंगाराम से 54 तुकाराम मुतरिया तक	अन्य पिछडा वर्ग	0	
		4	56 लक्ष्मण तुकाराम से 69/2 दिनेश राजाराम	अनारक्षित	1	
		5	70 प्रताप बाउ से 222 सौदान ठाकुर तक	अ.जा.महिला	0	
		जामन्या	6	1 अमरसिंग गल्या से 12 मडिया भीका तक	अ.ज.जा.महिला	7
			7	13 रायसिंग बुदन से 20 लाडकी रणछोड तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
			8	20/क दयाराम रणछोड से 26 कला रूखडिया तक	अनारक्षित महिला	1
			9	26/क शोभाराम रतन से 32/क विश्राम कालुराम तक		
			10	33 गोकुल गणस्या से 37/ख नानसिंग कना तक		
			11	38 केशर शंकर से 45 रीछु केकडीया तक		
			12	46 रामा उमराव से 54/ख मोहन नानस्या तक		
			13	55 भुवान कलसिंग से 66/क सेकु मडया तक		
			14	67 जोग्या फूलसिंग से 75 प्रेमसिंग रामसिंग तक		
			15	76 सीता झेतरीया से 89 दुरपती छगन तक		

1	2	3	4	5	6
13	जमोटी	1	03 से भोल्या बालु से 19 सयजुबाई रमेश तक	अ.जा.	1
		2	20 तुमनसिंग कल्लु से 50 राधेश्याम गेंदालाल तक	अ.ज.जा.	10
		3	52 सौभागसिंग रामला से 73 जगदीश हागरू तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	74 पुन्या पंजा से 91 लक्ष्मण धना तक	अनारक्षित	3
		5	92 लखन लक्ष्मण से 126 नंदराम कन्हैया तक	अ.जा.महिला	1
		6	127 मोत्या रामसिंग से 149 घीसीबाई रामलाल तक	अ.ज.जा.महिला	5
		7	150 कोमल महेन्द्र से 175 रामलाल पंचम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	176 सकुबाई राधेश्याम से 197 रामलाल मांगीलाल तक	अनारक्षित महिला	1
		9	198 अंतरसिंग सीताराम से 211 सुरजसिंग ठाकूर तक		
		10	212 काबरबाई ठाकूर से 228 गजराबाई शोभाराम तक		
		11	229 दितला गणपत से 256 रमेश सदा तक		
		12	257 छगनलाल छितु से 283 रूमसिंग मोत्या तक		
	ग्यासपुरा	13	01 भगवान रूखडिया से 19/1 हिरालाल सदाशिव तक		
		14	20 सीताराम गंगाराम से 63 दिनेश बाबुलाल तक		
14	खामखेडा	1	1 आशीष बद्री से 18/2 सरदार बालु तक	अ.जा.	1
		2	19 मेहकाल जोग्या से 43 सरदार भीकालाल तक	अ.ज.जा.	9
		3	43/2 टंटू पुन्या से 52 सुरजबाई लछीराम तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	53 शारदाबाई मनोहर से 64 गंदालाल शोभाराम तक	अनारक्षित	1
		5	67 कडवीबाई बल्लु से 77/2 दिनेश दगडु तक	अ.जा.महिला	0
		6	79 छगन उंदरिया से 98 किशोर रूखडिया तक	अ.ज.जा.महिला	5
		7	100 मोहन हरि से 108 नानसिंग नाथु तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	109 तेरसिंग कना से 122 ईबरा नादरिया तक	अनारक्षित महिला	1
		9	123 नकू देवला से 133 सुकलाल गुलसिंग तक		
		10	134 खुमान गुलसिंह से 143 मालसिंग भुरला तक		
		11	144 आलसिंग भुरला से 693 कुसुम मंगलसिंग तक		
15	पनाली	1	01 हरी चुनका से 19 आंनदराम गंगाराम तक	अ.जा.	1
		2	21 पन्नालाल दौलत से 33/क रामकिशन रघुनाथ तक	अ.ज.जा.	15
		3	34 झालाबाई घनश्याम से 48 श्याणी छितु तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	49 पान्टिया दगडिया से 61/2 भगवान बोंदरसिंग तक	अनारक्षित	2
		5	61/3 नानुराम छितर से 71 रामेश्वर गुलाल तक	अ.जा.महिला	0
		6	73 सुखीबाई कोलु से 95 रमेश गणपत तक	अ.ज.जा.महिला	8
		7	96 मंगत शम्भु से 125 काबरबाई चुन्या तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	126 हिरालाल मकुंददास से 140 हिरदाराम मोत्या तक	अनारक्षित महिला	1
		9	141 अत्माराम सखाराम से 155 आरती राधेश्याम तक		
		10	160 द्रोपती अनिल से 179 सुपडया अन्नु तक		

1	2	3	4	5	6
		11	180 विक्रम ठाकुर से 203 मोतीलाल बिदया तक		
		12	205 दितला अमरया से 221 प्रमिला खुमसिंग तक		
		13	222 बाथु सदाशिव से 238 मनोहर हिरालाल तक		
		14	240 जानकी चमार से 258 मडया आपसिंग तक		
		15	259 गोमला पातल्या से 269 मोतिसिंग जामसिंग तक		
		16	270 प्रताप जामसिंग से 288 भग्या बिशन तक		
		17	290 गोदावरी विश्राम से 301 छगन केरिया तक		
		18	302 बुधा तात्या से 316 भुवान सेकडिया तक		
16	गोलवाडी	1	01 रामलाल पोमडिया से 11 राधा चेताराम तक	अ.जा.	2
		2	13 हिरालाल दरियाव से 28 रमेश छितर तक	अ.ज.जा.	11
		3	30 गंगाराम बिसन से 42 रोहित गोपीचंद तक	अन्य पिछडा वर्ग	1
		4	44 मेवालाल दयाराम से 54 सीताराम कालू तक	अनारक्षित	5
		5	56 सुरेश दयाराम से 73 शोभाराम काल्या तक	अ.जा.महिला	1
		6	74 मंशाराम बुदन से 83 सकरीबाई रूखडिया तक	अ.ज.जा.महिला	6
		7	84 छितरू श्रवण से 98 भोलाराम सीताराम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	1
		8	99 नयनसिंह बिलमण से 109 अनारबाई गला तक	अनारक्षित महिला	2
		9	110 कालूराम गला से 123 जलाल रूपसिंग तक		
		10	124 केसर अनारसिंह से 132 सीताराम गेंदालाल तक		
		11	132क सुशिला देवीराम से 145 सीताराम बाउ तक		
		12	146 गोपाल सुक्या से 156 कलाबाई कल्याण तक		
		13	157 कुंवर मंगल्या से 171 मांगीलाल दित्या तक		
		14	172 लाडकी शोभाराम से 187 शंकर भुरिया तक		
		15	188 मेहकाल खुमा से 203/4 भुवान भावल्या तक		
		16	204 रामसिंग झेतारा से 214 शोभाबाई तेरसिंह तक		
		17	216क केसरबाई सायबा से 227क सकाराम दोगल्या		
		18	228 धंधरीया झेतारा से 242 नहाला गुल्या तक		
		19	243 केकडिया नाथु से /14 चम्पालाल छितु तक		
17	जोजलवाडी	1	1 सायबा गटला से 17 सागरी भुरू तक	अ.जा.	0
		2	18 हिरालाल मालसिंग 32/2 नहारसिंग रूखडिया तक	अ.ज.जा.	15
		3	33 बेरंग गप्पल से 50 भंगडा सुकल्या तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	51 रामसिंग मडिया से 66 रामा सेकडिया तक	अनारक्षित	0
		5	67 सुभाष सेकडया से 84 भुरू भुवान तक	अ.जा.महिला	0
		6	85 फकू सद् से 99 सरखराम गजराज तक	अ.ज.जा.महिला	8
		7	101 सुकली नादडया से 119 मोटला भुरला तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	120 नानु फुदया से 137 प्यारसिंग मदन तक	अनारक्षित महिला	0
		9	138 मदन गजा से 156 रायसिंग मोना तक		

1	2	3	4	5	6
		10	157 लाडका मोना से 168 सुभाष जतन तक		
	दामखेडा	11	1 काशीराम गलसिंग से 11 अमरया भीमसिंग तक		
		12	12/1 नुरा नानसिंग से 20 स्याणी घमरीया तक		
		13	21 बुधा रिछु से 29 रेमसिंह नानसिंग तक		
		14	30 सेकडिया राल्या से 41 पुट्ट्या दुबल्या तक		
		15	42 तुलसीराम राधु से 51/क संजय किरण तक		
18	शरदपुरा	1	02 साबली मना से 16 जैमा भावला तक	अ.जा.	0
		2	17 लुंगा भावला से 33/2 बाटिया धनसिंग तक	अ.ज.जा.	10
		3	34 रतनसिंह धन्या से 45 बालु अमरिया तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	46/3 कालु रावत अमरसिंह से 64 डेडी नुरला तक	अनारक्षित	0
		5	64/1 गुलाब दित्या से 81 मेहकाल गटु तक	अ.जा.महिला	0
		6	82 बच्चु मंगत्या से 96 सुबु खुमसिंग तक	अ.ज.जा.महिला	5
		7	96/2 खुमसिंग रघुनाथ से 108 अनी रूपला तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	109 बोंदरसिंह तात्या से 119 बोंदरसिंह केरिया तक	अनारक्षित महिला	0
		9	120 मेरली कालू से 138 झुमका धनसिंग तक		
		10	141 झींगला रायसिंह से 161/1 दितला लटु तक		
19	रेहगून	1	01 डेबरा खजान से 12 नहारसिंग निहाला तक	अ.जा.	1
		2	13 कालू फल्लु से 25 लालसिंग नाथु तक	अ.ज.जा.	18
		3	26 नरसिंग कलसिंग से 33 रूमली दला तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	34 सुकल्या मंगत्या से 41 बिनाबाई चंदरसिंह तक	अनारक्षित	0
		5	42 नहारसिंग केरिया से 53 बिसन कन्हैया तक	अ.जा.महिला	1
		6	54 झेलीबाई फुलसिंग से 61 बुट्ट्या नाथु तक	अ.ज.जा.महिला	9
		7	62 छगन दौला से 71 रूखमाबाई रामसु तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	72 भंगडा केकडिया से 77 राध्या खुमसिंग तक	अनारक्षित महिला	0
		9	78 दुधरीबाई हिरु से 83 भुरला तेनसिंह तक		
		10	84 रमतु नकू से 88 वेरसिंह तेरु तक		
		11	89 वेस्तीबाई रूपसिंह से 99 उंदरिया मकुन्द तक		
		12	100 जयराम दलसिंग से 112 सोमला नहारसिंह तक		
		13	113 बिसन डोगरसिंह से 127 चमारसिंह सोमला तक		
		14	128 छोट्ट्या भंगडा से 143 रेमसिंह गंगाया तक		
	सीतापुरी	15	01 से छगन गना से 18 सालूबाई रामसिंह तक		
		16	22 दिनेश रमेश से 44 हरलिया मोना तक		
		17	45 झुमरीबाई मोटला से 67 नटड्या मंगल्या तक		
		18	67/2 गुलाब तेरसिंह से 89 सीताबाई सिगदार तक		
		19	93 पिंटु दगडिया से 312 सुमनबाई नहारसिंह तक		

1	2	3	4	5	6	
20	लेहकू	1	1 प्रेमबाई छगन से 14 जगदीश भीलु तक	अ.जा.	1	
		2	15 भीकालाल जोग्या से 31 मंशाराम जोग्या तक	अ.ज.जा.	13	
		3	32 परसराम तुकाराम से 48 दशरथ गणपत तक	अन्य पिछडा वर्ग	0	
		4	49 बाला रघुनाथ से 59 चैनसिंग मेहताब तक	अनारक्षित	0	
		5	60 करण तुकाराम से 77 मोतीराम नानुराम तक	अ.जा.महिला	0	
		6	78 गंगाराम छीतु से 98/क सचिन अनिल तक	अ.ज.जा.महिला	7	
		7	100 तुमेरसिंग श्रवण से 111 मांगीलाल नत्थु तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0	
		8	112 लीला गुलाबसिंग से 124 बोंदरसिंग नाथु तक	अनारक्षित महिला	0	
		9	125 अनु भुवान से 137 मंगल्या सदु तक			
		10	139 नाथु सेकडिया से 150/ख गरीब जग्गु तक			
		11	151 भेरू नहाला से 166 बासीराम फुलसिंग तक			
		12	167 नकली डोंगरीया से 181 धावली चमारीया तक			
		13	182 विश्राम चमारीया से 190 रामसिंग सुकल्या तक			
		14	191 हरसिंग सुकल्या से 199 दितला रूपसिंग तक			
21	जोगवाडा	1	1 धनी प्यारसिंह से 12/क दिता राया तक	अ.जा.	0	
		2	12/ख जुवानसिंह राया से 21 खजान बंशीया तक	अ.ज.जा.	11	
		3	23/क सायरी नासरीया से 40/क तात्या बुधा तक	अन्य पिछडा वर्ग	0	
		4	41 अनारसिंग ओंकार से 55/ग भुनकिया भुरू तक	अनारक्षित	0	
		5	57 भल्या मंगता से 68 चन्द्रीया पुना तक	अ.जा.महिला	0	
		6	68/क मुतरिया तेरसिंह से 83 नाथू भीका तक	अ.ज.जा.महिला	6	
		7	83/क गिलदार नाथु से 94 जानु मुनस्या तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0	
		चिचली	8	1 सीमा कैलाश से 214 कालु नानुराम तक	अनारक्षित महिला	0
			9	215 दलीबाई डेडु से 229 नहारसिंह नाथु तक		
			10	229/क काल्या नहाला से 240 मुला रूखडिया तक		
			11	241 प्यारसिंह रूखडिया से 282 मैयदा नटया तक		
22	उपडी	1	1 जतन गला से 12 मोटला सुभान तक	अ.जा.	0	
		2	13 भुरीबाई नहारसिंग से 25 भुवानसिंग भावसिंग तक	अ.ज.जा.	15	
		3	26 गंजा गंभीर से 44 भावसिंग जामसिंग तक	अन्य पिछडा वर्ग	0	
		4	44/क झेतरीबाई गुलाब से 55 कालु छोट्या तक	अनारक्षित	0	
		5	56 शोभाबाई कालु से 70 बदा तेरा तक	अ.जा.महिला	0	
		6	71 पहाडसिंग तेरसिंग से 90 सडिया मोना तक	अ.ज.जा.महिला	8	
		7	91 गमरीया रामसिंग से 112 रामा जगन्नाथ तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0	
		8	113 जगदीश दौला से 127 अनवर नांदडिया तक	अनारक्षित महिला	0	
		9	128 नवासिंग नांदडिया से 144 बिशन केन्दू तक			
		10	145 किशन केन्दु से 157 शोभाराम रूखडु तक			
		11	158 नाहू गटलिया स 174 ग्यानसिंग रायसिंग तक			

1	2	3	4	5	6
		12	175 सोना आलम से 196 ज्ञानसिंग डोंगरीया तक		
		13	197 विश्राम दवला से 419 सुभाष नाकू तक		
	बोरी	14	1 किशन नरसिंग से 16 गुमान सुभान तक		
		15	17 मंगली सुभान से 34 पारू मदन तक		
23	पनवाडा	1	1 भुरली ईडा से 16 चन्दनसिंग तातलिया तक	अ.जा.	0
		2	16/क रजान तातलिया से 26/ख रेमा आपसिंग तक	अ.ज.जा.	20
		3	26/ग कनवर मोठला से 43/ग शंकर मंगलीया तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	43/घ रूपसिंग मोहन से 57/ग भग्गु काशीराम तक	अनारक्षित	0
		5	59 गना जामसिंग से 67 मालसिंग नहारसिंग तक	अ.जा.महिला	0
		6	68 रिछु रेवला से 82 सिगदार रेवला तक	अ.ज.जा.महिला	10
		7	82/क चन्दनसिंग सिगदार से 101 प्रताप भाचरिया तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	101/क भावसिंग नहारसिंग से 118/क दिनेश जुवानसिंग तक	अनारक्षित महिला	0
		9	146 जुवानसिंग फुलसिंग से 139 लालबाई शेरसिंग तक		
		10	142 मुरली छगन से 156 नरली मंगल्या तक		
		11	157 तेरसिंग अन्या से 164 हागरिया बालु तक		
		12	165 मालसिंग कोल्या से 193 छगन अनसिंग तक		
		13	194 दशरिया रूखडिया से 213 मशरीबाई वेरसिंग तक		
		14	217 सुरभा भारत से 236 शंकर थावरिया तक		
		15	239 मंगली रामसिंग से 258 नवलबाई नाना तक		
		16	259 ज्ञानसिंग नाना से 269 छगन केलज्या तक		
		17	272 सुबली भील्या से 285 वेस्ती कलसिंग तक		
		18	286 रामसिंग सोमला से 305 मोतेसिंग दिपसिंग तक		
		19	306 जसु दिपसिंग से 320/क किशन नानस्या तक		
		20	321 गणपत चमार से 2599 सीताराम ज्ञानसिंग तक		
24	महूगांव	1	02 सडिया छितु से 16 नानकिया रडवा तक	अ.जा.	1
		2	16/क रंगारी ककडीया से 29 देवकीबाई फुलसिंग तक	अ.ज.जा.	11
		3	40 विक्रम नत्थु से 49 उमराव मंगल्या तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	50/क मांगीलाल मंगत से 62 मलु नानसिंग तक	अनारक्षित	0
		5	63 भंगडा वेस्ता से 75 रूखडु दामा तक	अ.जा.महिला	0
		6	76 कोरसिंग सेकडिया से 86 काल्या गुलाब तक	अ.ज.जा.महिला	6
		7	87 अनारसिंह गुलाब से 98 बना जयराम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	99 गुलाब रूमाल से 110 बद्दी ईस्माईल तक	अनारक्षित महिला	0
		9	111 तेरसिंग सोमल्या से 129/क सुनिता प्रेमसिंग तक		
	पान्यादड	10	01 बद्दी सुरज्या से 18 जुवानसिंग थाउ तक		
		11	19 बदरीया दौल्या से 24/ग सेवंती दिनेश तक		
	सेगंदी	12	01 सुरलीबाई धना से 6/क पन्नालाल नरसिंग तक		

1	2	3	4	5	6
25	केशवपुरा	1	01 सुकलाल भील्या से 18 आंकार किशन तक	अ.जा.	1
		2	17 कैलाश मोतीराम से 32 शिवकरण रामलाल तक	अ.ज.जा.	8
		3	33 निर्मला राधेश्याम से 50 विजय पुनमचंद तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		4	51 राजाराम किशन से 67 कालूराम झापडु तक	अनारक्षित	4
		5	68 सकुंतला तुकाराम से 88 मिरा बुदिया तक	अ.जा.महिला	1
		6	89 अंबरबाई जगन से 108 गयणाबाई तुकाराम तक	अ.ज.जा.महिला	4
		7	109 विक्रम बाबु से 126 जगन्नाथ पंढरी तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	1
		8	127 तेजई रामदास से 145 हिरालाल मोतीराम तक	अनारक्षित महिला	2
		9	146 गजेन्द्र हिरालाल से 173 शिवशंकर कालू तक		
		10	176 भीमसिंग सकाराम से 205 प्रेमलाल गोपाल तक		
		11	207 अंबरबाई मोहन से 239 भगवान ईट्या तक		
हनुमंत्या		12	01 सदाशिव रामु से 26 नंदा हिरालाल तक		
		13	27 सुन्दर हिरालाल से 50 सदाशिव शंकर तक		
		14	51 गोविंद शंकर से 74 जाती दामु तक		
		15	75 सलिता हौसीलाल से 94/1 रामकरण गप्पल तक		
		16	98 भगवान देवला से ण 3 मांगीलाल सडु तक		
		26	आछलवाडी	1	01 छगन रीछु से 17 जेमा झेतु तक
2	18 रडत्या झेतु से 33 भारता मल्का तक			अ.ज.जा.	14
3	34 सरदार मेथु से 49 राल्या नानस्या तक			अन्य पिछडा वर्ग	0
4	50 मिरली भंगडा से 64 गंगली रिछड्या तक			अनारक्षित	0
5	66 चमारिया सुकल्या से 79 उमराव भुरला तक			अ.जा.महिला	0
6	80 भंगडा उमराव से 92 बाला भलजा तक			अ.ज.जा.महिला	7
7	93 जामसिंग भलजा से 103 छतरसिंग दितला तक			अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
8	105 कनसिंग नाथू से 118 लालसिंग जामसिंग तक			अनारक्षित महिला	0
9	119 बाल्या जामसिंग से 128 गमरिया पातल्या तक				
10	130 खलजी भुवान से 142ख फुलसिंग मुनस्या तक				
11	144 बोंदर वेस्ता से 160 मदन जामसिंग तक				
12	161 आपसिंग नानसिंग से 173 काल्या नहानसिंग तक				
13	175 डेडु मेहकाल से 193 पातल्या अमरसिंह तक				
14	195 सालिगराम गोविंद से 209 रडत्या नटडिया तक				
27	केली	1	01 रामसिंग भुवान से 20 डोगरसिंग भूरला तक	अ.जा.	1
		2	21 मंगल्या भुरिया से 39 नथी शिवराम तक	अ.ज.जा.	14
		3	40क रूमसिंग दामु से 69 दितला थाउ तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	71 भूराबाई मालसिंग से 92 किशोर गप्पु तक	अनारक्षित	5
		5	93 अर्चना मोहन से 121 भुवान लदु तक	अ.जा.महिला	1
		6	122 सुपडिया अर्जुन से 142 जोगीलाल शिवा तक	अ.ज.जा.महिला	7
		7	143 काशीराम मंगत से 168 कांताबाई छितरमल तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	170 रमजान एहमद से 180 तुलसीबाई मोहन तक	अनारक्षित महिला	2

1	2	3	4	5	6
		9	182 द्वारकीबाई रामलाल से 213 बाबु मोहम्मद तक		
		10	214क देवीसिंह पुन्या से 244 मथुराबाई बाधु तक		
		11	4 लंहगी अंतर से 265/2 सोहनलाल सुबला तक		
		12	266 राधेश्याम सुबा से 300 गीता छगनलाल तक		
		13	304/1 मोहनीबाई रघुनाथ से 320 भुवानीराम नत्थु		
		14	322 पंडु नत्थु से 344 अमरिया हारू तक		
		15	346 छोट्या मांगु से 357 अमरसिंह छित्तु तक		
		16	358 रूमसिंह छित्तु से 371 पेथु सोमला तक		
		17	372 मेधु सोमला से 393 मोहन जेतला तक		
		18	394 नाथु भीमसिंग से 414 सुरलीबाई दुधरा तक		
		19	416 रामसिंग गलू से 426/1 रेवा बारक्या तक		
		20	426/2 संजुबाई नानसिंग से 397 राजू नहारसिंग तक		
28	श्रीखण्डी	1	1 राहुल दशरथ से 26 झबरसिंह लक्ष्मण तक	अ.जा.	1
		2	27 गेंदाबाई मंगल्या से 51 भिकारी सिताराम तक	अ.ज.जा.	10
		3	52 टीकाराम सीताराम से 76 बाबु मिठु तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		4	77 काशीराम मिठु से 98 भगवान सीताराम तक	अनारक्षित	5
		5	99 उमराव भीलु से 119 चंद्रभागा आशाराम तक	अ.जा.महिला	1
		6	120 शांता छज्जु से 151 सीता बावरा तक	अ.ज.जा.महिला	5
		7	152 मोहन तुकाराम से 165 रामई काशीराम तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	2
		8	166 मंशाराम गेंदालाल से 186 भागीरथ हरचंद तक	अनारक्षित महिला	2
		9	188 बलीराम आत्माराम से 205 शिवराम गंगाराम तक		
		10	206 चुन्या बालाराम से 226 बलीराम टीकाराम तक		
		11	227 सीताराम भीका से 253 कासी लक्ष्मण तक		
		12	255 भाईराम तुलसीराम से 280 मंशाराम गोकुल तक		
		13	281 सुरेश रामदास से 304 आत्माराम बाबुलाल तक		
		14	305 कैलाश लिम्बा से 327 उंकार श्यामा तक		
		15	329 गिरधारी गोकुल से 351 मीठी सुखदेव तक		
		16	352 सुभद्रा देवराम से 368 रामकोर भगवान तक		
		17	369 केवलदास नारायण से 388 भुरीबाई रामू तक		
		18	390 चतुर शम्भु से 411 अनार दयाराम तक		
		19	413 से तेजलबाई घीसीलाल से 434/2 तुकारा बुध्या तक		
		20	435 कमलाबाई जगन से 457/1 नासु गमरा तक		

1	2	3	4	5	6
29	तिरी	1	1 धुंधरिया अनसिंग से 11 खुमसिंग सुरसिंग तक	अ.जा.	0
		2	12 गुलाब बसकड़ से 26 हिरालाल केकडिया तक	अ.ज.जा.	20
		3	26/1 गुलाब भीलु से 45 मीराबाई नान्या तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	46 रालु भंगी से 56 ईडा रणछोड तक	अनारक्षित	0
		5	59 रीछु बुधा से 77 अमरिया रामचन्द्र तक	अ.जा.महिला	0
		6	78 सीताबाई सेकडिया से 93 नत्था रूखडिया तक	अ.ज.जा.महिला	10
		7	94 जवानसिंह वेस्ता से 103 वेसल्या नानसिंग तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	104 फतरिया आपा से 113 सुकलाल दित्या तक	अनारक्षित महिला	0
		9	116 छीतु रायसिंह से 134 सुभानसिंग तेरसिंग तक		
		10	135 लाबु दौला से 149 डोंगरीया हट्ट्या तक		
		11	150 रूमसिंग हट्ट्या से 165 भंगडा रायसिंग तक		
		12	167 पोटिया मिचरीया से 180/ए रूमलीबाई वालीया तक		
		13	181 भावसिंग भोदरीया से 198 उदीयराम छोगालाल		
		14	200 कुवरसिंह दुडला से 272 दवली घुरक्या तक		
	कोलखेडा	15	1 झेतरीबाई रामा से 25/1 लालसिंग फाट्या तक		
		16	26 कैलाश सेकडिया से 55 राससिंग बनसिंग तक		
		17	56 बुधा गुलाब से 74 मदन नानसिंग तक		
		18	75 वालसिंग मंगल्या से 90 दलसिंग्र अमरसिंग तक		
		19	92 लुसीया छोटीया से 112 भावसिंग कालु तक		
		20	112/1 सालुबाई नवलसिंग से 116 शिवला हरजा तक		
30	चिचगढ	1	01 सुनिता छगन से 8 मडिया मिठला तक	अ.जा.	0
		2	10 जैनु मिठला से 22 सुगरी मालसिंग तक	अ.ज.जा.	18
		3	23 जामसिंग बांदर से 35 पुनी फुलसिंग तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	37 गुलबी रीछु से 50/1 अमरसिंग धुल्या तक	अनारक्षित	0
		5	51 गंगली गोमला से 65 गुलाब रलाह तक	अ.जा.महिला	0
		6	67 प्यारसिंग टेटिया से 85क बाली गुलसिंह तक	अ.ज.जा.महिला	9
		7	87 राजाराम कास्या से 101/1 जुवानसिंग बाला तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	104 भुवान नाकू से 117क सुखलाल धनसिंग तक	अनारक्षित महिला	0
		9	119 नाथू हाबडा से 133/1 नानसिंग रूमसिंग तक		
		10	135 शैरांग दलसिंग से 147 छीतु हारला तक		
		11	148 डोंगरिया गजा से 159 थावली फाजल्या तक		
		12	161 चमारिया भला से 171 जैमाल नानसिंग तक		
		13	172 बद्री माध्या से 187 फका मैथू तक		
		14	194 मुन्नीबाई राजाराम 212क धन्नलाल दुस्या तक		
		15	213 झीना रायसिंग से 989 हिरालाल डोंगरिया तक		
	सतावड	16	01 दलसिंह रामा से 20 खुमसिंग रूपसिंह तक		
		17	22 जामसिंग रूपसिंग 44 छगन कैकडिया तक		
		18	45 ओंकार नहारसिंग से 67 भावलाल डेडु तक		

1	2	3	4	5	6
31	बनिहार	1	1 सारिका रामा से 13 फकीरचंद वेरांग तक	अ.जा.	1
		2	14 थावरिया झेतरिया से 29 जुवानसिंग भाटु तक	अ.ज.जा.	14
		3	30 प्रताप रूखडिया से 44 नरसिंग भाचरिया तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	45 तेरसिंग भाचरिया से 51 अनिल सेकडिया तक	अनारक्षित	0
		5	51/क थावली तेरसिंग से 57 मंगती हरसिंग तक	अ.जा.महिला	1
		6	59/क ओंकार भील्या से 72 कालु गोपाल तक	अ.ज.जा.महिला	7
		7	73 कैलाश सदु से 85 झीना भारता तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	87 उमा हिरालाल से 94 बबलु मंगलसिंग तक	अनारक्षित महिला	0
		9	94/क बाथु वालसिंग से 101/क किशन धुधा तक		
		10	101/ख फुन्दा धुधा से 113 रूगनाथ नानकिया तक		
		11	115 गणस्या सेकडिया से 132 अमरसिंग दित्या तक		
		12	133 रूमल्या जामसिंग से 147 कुवरसिंग बुध्या तक		
		13	148 प्यारसिंग बुदा से 158/क कनसिंग नानसिंग तक		
		14	159 लुंगी झंझिया से 171 आलु कालु तक		
		15	172 भुना आलु से 514 ख तेरसिंग थानसिंग तक		
32	देवली	1	1 लाच्छा गणपत से 4/2 हिरली जदु तक	अ.जा.	0
		2	5 रंगली प्यारसिंग से 18 चंचरीबाई मुन्ना तक	अ.ज.जा.	15
		3	19/1 ग्यानसिंग दलसिंग से 27/ छगन झबरसिंग तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	28/1 प्रताप दरियाव से 38 गणपत भावला	अनारक्षित	0
		5	39 मेहताब नाथु से 44 गुमानसिंग झेन्दु तक	अ.जा.महिला	0
		6	45 भावला झेन्दु से 53/1 मालसिंग डुमसिंग तक	अ.ज.जा.महिला	8
		7	55 नुरलीबाई बालु से 63 सुमतिबाई तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	63/क छगन मालसिंग से 76 संजय रजान तक	अनारक्षित महिला	0
		9	76/1 भुरीबाई हास्या से 79/घ छगन रामसिंग तक		
		10	83 कदम भुरु से 94 अनारबाई शंकर तक		
		11	95 कनाबाई गोमला से 103/1 सीताबाई थाउ तक		
		12	103/2 सबलसिंग थाउ से 112 हिरूबाई अनार तक		
		13	113/1 गुन्दास छोटिया से 122/क बदा दरियाव तक		
		14	122/ग रंगली ग्यारस्या से 140 बाथु बुटसिंग तक		
		15	141 चमार गुलाब से 147/2 वेस्तीबाई रूखडिया तक		

1	2	3	4	5	6
33	सांगवी	1	1 दलसिंग जोतल्या से 117 मुरखी भुरु तक	अ.जा.	0
		2	19/1 केदार विक्रम से 33 कलसिंह सिगदार तक	अ.ज.जा.	20
		3	34 सरदार बुदिया से 60 नुरला दीतु तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	61 सायरी रूखडिया से 82 भुरु डोंगरीया तक	अनारक्षित	0
		5	85 आशाराम शंकर से 112 पेमसिंग मोना तक	अ.जा.महिला	0
		6	113 पनाबाई गमीर से 132 मेथली रायमल तक	अ.ज.जा.महिला	10
		7	133 फत्तु जालम से 149 औंकार दौलतसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	150 गोपाल मालसिंग से 158 गोमदास काश्या तक	अनारक्षित महिला	0
		9	158/1 काश्या बुचर से 174 कदम गोत्या तक		
		10	104 लाडकी धनसिंग से 194 दितलीबाई चमार तक		
		11	195 प्रताप भारतसिंह से 207 सुरमासिंह भुवान तक		
		12	208 भुरलीबाई भुवानसिंह से 220 रजान बहादर तक		
		13	221 बंश्या बहादर से 235 छोट्या कास्या तक		
		14	236 नानसू कास्या से 253 बटू थावरिया तक		
		15	354 नटडीबाई भावसिंग से 293 तेनसिंह अमरया तक		
		16	294 कालीबाई गोमा से 309 झूमाबाई छतरया तक		
		17	310 रमलीबाई मंगत से 322 रतनीबाई जेततरया तक		
		18	323 सोमला नानसिंग से 344/1 अमन्या सुकल्या तक		
		19	345 रिछु भोल्या से 355 रामा रूपसिंग तक		
	गोलपुरा	20	1 सुभान सुकल्या से 18 फुलकीबाई फुलसिंग तक		
34	भडवाली	1	01 बलवंत औंकारसिंह से 18 शिवराम ईश्वरसिंह तक		
		2	20 सदाशिव ईश्वर से 40 कालु बाल्या तक	अ.ज.जा.	18
		3	41 अनार फकरा से 63 बाबुलाल गणपत तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	64 ताराचंद धन्नालाल से 78 ग्यारसी मदन तक	अनारक्षित	1
		5	79 सुरेश धन्नालाल 106 मांग्या सोमा तक	अ.जा.महिला	0
		6	107 बोंदरिया सोमा से 121 रघुनाथ रेमजी तक	अ.ज.जा.महिला	9
		7	122 राजला गणस्या से 131 डोंगरसिंह मोटला तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	133 रतनसिंह केरिया से 146 संतुबाई गुलाब तक	अनारक्षित महिला	1
		9	147 भंगडी बिसन से 156 सोमला नहारसिंग तक		
		10	157 सुकली नहारसिंह से 886क नानसिंह भावसिंह तक		
	छिपीपुरा	11	02 दवलिया हमरा से 20 कमली मालसिंह तक		
		12	21 गुलाबसिंह मोना से 41/1 मंगबाई हरदास तक		
		13	41/2 दिलीप भुरु से 61 शंकर रंगल्या तक		
		14	64 विक्रम भाया से 79 गौरेलाल प्यारसिंह तक		
		15	81 गोदालाल गोपाल से 94 तिख्या रामसिंह तक		
		16	91/1 राजल गुगां से 103 मिशु बंशी तक		
		17	104 अन्नु मांग्या से 124 मंगतीबाई चमार तक		
		18	125 अमरिया नानका से 137 ग्यारसा निकाम तक		
		19	138 रहलीबाई नत्थु 910 क रीछा धन्ना तक		

1	2	3	4	5	6
35	सिनखेडी	1	01 शर्मिला प्रेमसिंग से 28 गंगाराम बाज्या तक	अ.जा.	1
		2	29 बाज्या हट्ट से 56 रायसिंग ज्वानसिंग तक	अ.ज.जा.	18
		3	57 ममता मदन से 86 सजन रामसिंग तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	87 सुरपाल रामसिंग से 111 तुलसीराम डोंगरसिंग तक	अनारक्षित	1
		5	112 धन्नालाल रीछु से 135 रामलाल झेतरिया तक	अ.जा.महिला	0
		6	136 मदन झेतरिया से 157 बिसन नाकू तक	अ.ज.जा.महिला	9
		7	158 केसरीबाई नाकू से 178 लालू मांगीलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	179 सोनाबाई दल्लु से 202 जामसिंग सोमला तक	अनारक्षित महिला	1
		9	203 मेहताब हरसिंग से 223 पातल्या प्यारसिंग तक		
		10	224 दवलिया पहाडसिंग से 247 मदन दवला तक		
		11	248 मुनस्या भुवान से 269 नुरु वैरांग तक		
		12	270 काशीराम नुरु से 290 सुपडिया मिठु तक		
		13	291 गौरिलाल झेतरिया से 310 प्यारसिंग भीलू तक		
		14	311 गेदिया नकला से 326 किशन मुनस्या तक		
		15	327 रूमसिंग मुनस्या से 353 चमारिया थावरिया तक		
		16	354 रूखमाबाई तेरसिंग से 370 फुलसिंग भंगडा तक		
		17	371 जुरसिंह भंगडा से 391 किशन बलसिंह तक		
		18	394 नत्थु मुनस्या से 410 नहारसिंह पहाडसिंह तक		
		19	411 मालसिंह पहाडसिंह 421 मझरिया जोग्या तक		
		20	422 बंशीलाल चमारसिंह से 2859 सोनु रेवाराम तक		
36	डालकी	1	01 रिंकु राकेश से 18 बंशीलाल सडुजी तक	अ.जा.	1
		2	19 मंशाराम शिवजी से 40 पंढरी डोंगर तक	अ.ज.जा.	9
		3	40 क गजानंद डोंगर से 59 द्वारकी बाबुलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	1
		4	60 किशन कोल्या से 79 राजेन्द्र घुसाई तक	अनारक्षित	3
		5	79ग कृष्णाबाई दिलीप 96 लक्ष्मीनारायण बाबुलाल तक	अ.जा.महिला	1
		6	98 राजाराम तुकाराम 121 गुलाबसिंह बावला तक	अ.ज.जा.महिला	5
		7	123 पंढरी जगन्नाथ से 141 कलाबाई कडवा तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	142 अंजु रामसिंग से 165 बिरोज भीकाजी तक	अनारक्षित महिला	1
		9	166 राधेश्याम नत्थु 206 महेश जारसिंग तक		
		10	207 मिरा चिमा से 293 सुकलाल नत्थु तक		
		11	175 करणसिंह प्रेमसिंह 196 गुटीराम खुमसिंग तक		
		12	197 से वेलबाई ओंकार से 212 जंगलसिंह ओंकार तक		
		13	214 जातीबाई रूपसिंह 241 प्रेमसिंह जयराम तक		
		14	242 सोम्मरिया मोती से 288 खजान गुलसिंह तक		

1	2	3	4	5	6
37	सिलोटिया	1	01 अंकित बालाराम से 10क नवलसिंग शिवराम तक	अ.जा.	0
		2	11 गुल्या सेकू से 26 केकडिया गुमान तक	अ.ज.जा.	18
		3	27 मोटला सेकू से 41 मंशाराम रतन तक	अन्य पिछडा वर्ग	0
		4	42 मयाराम केरिया से 54 रामसिंग सुकला तक	अनारक्षित	0
		5	55 झेतरी लच्छीराम से 69क सुमेरसिंग रेमसिंग तक	अ.जा.महिला	0
		6	76 गुलस्या नाथु से 97 नानली केरला तक	अ.ज.जा.महिला	9
		7	99 धनसिंग केरला से 117 रूमाल पोसला तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला	0
		8	118 पासेला नयनसिंग से 129क तेनसिंग कुवरसिंग तक	अनारक्षित महिला	0
		9	130 झुनाबाई कैलाश से 137 रूमसिंग मैथु तक		
		10	138 कनसिंग नूरज्या से 155 बंशीलाल किसन तक		
		11	155/1 भावसिंग रूधी से 166 हतरीबाई कनसिंग तक		
		12	166क गजरा कनसिंग 171 राल्या खरस्या तक		
		13	172 काल्या खरस्या से 181 गुलाब धाउ तक		
		14	182 हरसिंग फुलसिंग से 196 झेतरिया बुदला तक		
		15	197 पांटिया झेतरिया से 217 पिडिया झेतु तक		
		16	218 जुवानसिंग झेतु से 229क रामा पहाडस्या तक		
		17	230 पिथु जामसिंग से 251क सुरसिंग दितु तक		
		18	255 धिस्या लाल्या से 779 प्रेमसिंग मेहता तक		

नीरज दुबे, कलेक्टर.